


Vol. XIII

No. 2



Government of Madras  
1960

BULLETIN OF  
THE GOVERNMENT ORIENTAL  
MANUSCRIPTS LIBRARY  
MADRAS

EDITED BY

T. CHANDRASEKHARAN, M.A.,L.T.,

*Curator, Government Oriental Manuscripts Library. Madras*

1960

---

PRINTED AT  
RATHNAM PRESS  
MADRAS - 1.

---

## Table of Contents

1. Jātakaratnākaraḥ with Commentary (Sanskrit)  
Edited by Sri T. Chandrasekharan, M.A.,L.T.  
and Sri T. H. Viswanathan ... 1
2. Kaṭṭimahipan Paḷḷu (Tamil)  
Edited by Vidvān V. S. Krishnan ... 35
3. Dūpāti Kaifiyat (Telugu)  
Edited by Sri T. Sreedhara Murthy  
and Sri N. Sarveswara Rao, B.A., (HONS.) ... 67
4. Vṛṣabhaḡite (Kannada)  
Edited by Sri M. Shankaranarayana Bhat ... 91
5. Rukmiṇi Svayamvaram Paṭṭu (Malayālam)  
Edited by Sri M. P. Mukundan ... 111
6. Mayūravarma-Carita (Marāṭhi)  
Edited by Sri K. Thulajaram Kshirasagar ... 121
7. Risalah-e-Faramin-o-Araidh (Persian)  
Edited by Janab Syed Hamza Husain,  
Omari Munshi-e-Fazil ... 127

# JATAKARATNAKARAH WITH COMMENTARY

of

BHENASEKHARA DĀSA

Edited by

Shri T. CHANDRASEKHARAN, M.A., L.T.,

and

T. H. VISWANATHAN.

Jātakaratnākara is a treatise on horoscopy. The planetary positions and their influence on persons are described with reference to horoscopes. This work is divided in 12 Taraṅgas explaining the significance of each Rāśī in a Taraṅga. Only 6 of the 12 Taraṅgas are published in this issue and the remaining portion will be continued in the next.

A commentary by name Taraṇiprakāśikā on the text Jātakaratnākara is also printed for the first time. Both the text and the commentary are written by Bhenasēkhara Dāsa himself. This work is based on a single paper manuscript preserved in this library under No. R. 3256. This was transcribed in 1920-21 from a manuscript belonging to Śrīmān Bhimasena Pāṇigrāhi Patteri of Parlakimidi, Andhra Pradesh.




॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

## ॥ जातकरत्नाकरः ॥

तरणिप्रकाशिकासहितः

॥ भेनशेखरदासविरचितः ॥



निर्विघ्नं विघ्नराजं सकलवरददां शारदां सर्वदाहं

विश्वेशं व्योमकेशं गिरिवरतनयालिङ्गितादक्षपार्श्वम् ।

सर्वेषां खेचराणां ( मत ) [ पति ] मतिकरुणं भास्करं लोकनेत्रं

पद्माभं पद्महस्तं सुरनरदनुजैर्वन्दिताङ्घ्रिं स्तवीमि ॥ १ ॥

श्रीराधामदनमोहनौ जयत :

व्या

सुवर्णवर्णं धृतवान्नवाम्बरं प्रलम्बबाहुर्नवकञ्जलोचनः ।

जितौढ्रपुष्पाङ्घ्रितलो बलावरो हृदि प्रकाशः कृपयास्तु मे हरिः ॥

अथ ज्योतिर्वित् सकलानन्दकः छन्दोऽलङ्कृतिकाव्यनाटककलादिनिपुणो  
भेनशेखरकविः श्रीमच्छ्रीशङ्करभास्वज्जातकानुरोधि श्रीजातकरत्नाकरनामकग्रन्थं  
चिकीर्षुस्तदादौ निर्विघ्नपरिसमाप्त्यर्थं शिष्टाचारक्रमागतं भगवद्विभूतिभूतविघ्नराजशारदा-  
व्योमकेशभास्करवन्दनात्मकं मङ्गलमाचरत्येकेन स्रग्धरावृत्तेन निर्विघ्नमिति ।

निर्विघ्नं निष्प्रत्यूहं यथातथा । ' विघ्नोऽन्तरायः प्रत्यूहः ' इत्यमरः ।  
सुरनरदनुजैः सुराश्च नराश्च दनुजाश्च तैः वन्दिताङ्घ्रिं वन्दितपदं विघ्नराजं श्रीगणेशं  
सकलवरददां समस्तवरदां । दाञ्घातोर्वेति शप्रत्यः । शारदां श्रीसरस्वतीं गिरि-  
वरतनयालिङ्गितादक्षपार्श्वं गिरिवरस्य हिमवतः तनया तया आलिङ्गितोऽदक्षपार्श्वः  
यस्य तं वामार्धजानिमित्यर्थः । विश्वेशं विश्वप्रभुं, व्योमकेशं श्रीसदाशिवं, सर्वेषां खेचराणां  
पतिं सर्वग्रहपतिं लोकनेत्रं लोकप्रकाशकं पद्माभं पद्मच्छर्विं पद्महस्तं पद्मकरं,  
करधृतपद्ममित्यर्थः । अतिकरुणमतिकारुण्यमतिं दयालुमित्यर्थः । भास्करं श्रीसूर्यं सर्वदा

अहं स्तवीमि स्तौमि । ष्टुञ् स्तुताविति धातोः कर्तरि अदादेः शप्प्रत्ययस्य  
लुगिति लृक् ॥ १ ॥

## ॥ तनुभावफलम् ॥

अथ दशभिः श्लोकैः तनुभावविषयशुभाशुभयोगानाह देहेश इति ।

देहेशः क्रूरयुक्तो व्ययपरनिधने संस्थितः प्राणिनस्स्यात्

देहे दुःखं स एवाशुभस्वगरहितस्तत्र कामे तदेव ।

चेन्मध्यं सौम्यदृष्टो व्ययलयसहजारातिपैः संपरीतः

लमेशो लमसंस्थो भवति हि मनुजो रोगवान् दुःखभागी ॥ २ ॥

देहेशः लमाधीशः क्रूरयुक्तः व्ययपरनिधने द्वादशषष्ठाष्टमे समाहारत्वादेकव-  
द्भावः । संस्थितश्चेत् प्राणिनः मानुषस्य देहे दुःखं स्यात् । देहसौख्यं न  
स्यादित्यर्थः । अस्य योगस्य धनादिभावे विचार्यम् । तद्द्योतनाय प्रथममुक्तिरिति  
गम्यते ,

“ यद्भावनाथो रिपुरन्ध्ररिप्फे तद्भावनाशं कथयन्ति तज्ज्ञाः ”

इति प्रलिखितत्वात् । इत्येको योगः । स एव—देहेश एव, अशुभस्वगरहितः  
पापग्रहरहितोऽपि तत्र—व्ययपरनिधने, कामे—सप्तमे, मारकलक्षणोपलक्षितत्वात्  
संस्थितश्चेत् तदा तदेव तत्फलमेव स्यात् । देहसौख्यं न स्यादित्यर्थः । अयमेको  
योगः । अथान्ययोगफलमाह—स एव सौम्यदृष्टः शुभदृष्टश्चेत् मध्यं स्यात् । मध्यं  
फलं स्यादित्यर्थः । लमेशः व्ययलयसहजारातिपैः द्वादशाष्टमतृतीयषष्ठाधिपै-  
स्संपरीतः युक्तः लमस्थस्सन् मनुजः मनुष्यः रोगवान् अत एव दुःखी स्यात्  
हि निश्चितम् । अयमेको योगः ॥ २ ॥

दृष्टे लमे च युक्तेऽशुभगगनचरै ( स्तूयते ) [ स्तत्पतौ ] वीर्यहीने

वाच्यं रोगित्वमाद्याधिपतिरबलकः केन्द्रकोणे न सौख्यम् ।

तद्वांश्चन्द्राद्ययोश्चेदधिपतिरबलः पापखेटस्ततो वै

केन्द्रे कोणे स्थितश्चेन्न भवति मनुजो व्याधिमान्दुर्बलोऽपि ॥ ३ ॥

दृष्ट इति । लम्ने अशुभगगनचरैः पापखेचरैः दृष्टे युक्ते च [ तत्पतौ ]  
लम्नपतौ वीर्यहीने बलहीने सति रोगित्वं वाच्यम् । ज्योतिर्विदेति शेषः । वीर्य  
हीनत्वं रिपुगृह[ स्थिति ] नीचास्तादिभिः ज्ञेयं । तदुक्तं ग्रन्थान्तरे—

“ सकलाः खेचरा ज्ञेयास्वर्क्षमित्रोच्चमे स्थिताः ।

दुर्बलाश्शत्रुपापाक्षगृहस्थास्तद्युतास्तथा ॥ ” इति ।

आद्याधिपतिः लम्नाधिपतिः अबलकः हीन[ वीर्य ]कः केन्द्रे कोणे[ वा ].  
स्थितश्चेत् सौख्यं न वाच्यम् । रोगित्वं वाच्यमित्यर्थः । चन्द्राद्ययोः राशिलम्नयोः  
अधिपतिरबलः पापखेटश्चेत् मानवस्तद्वान् रोगवान् स्यादित्यर्थः । ततः तदनन्तरं  
दुर्बलोऽपि लम्नाधिपः केन्द्रे कोणे स्थितश्चेत् मनुजः मनुष्यः व्याधिमात्रं भवति ।  
वै निश्चितम् । अयमर्थो ग्रन्थान्तरे दृष्टः—

“ प्रदिशन्ति शुभं नृणां सौम्याः केन्द्रस्थिता यदि । ” इति ॥ ३ ॥

लम्नः पापेन युक्तस्तदधिपतिरलं दुर्बलो व्याधिभूमिः

मर्त्याऽथो लम्ननाथस्थितसदनपतिस्त्रित्रिके दुर्बलस्स्यात् ।

लम्नस्थे तत्पतौ स्यादशुभग्रहयुते प्राणिनो लाञ्छनं तु

पापैस्सम्बन्धिनौ चेदुदयपतिकुजौ लम्नसंस्थौ भवेताम् ॥ ४ ॥

द्वाभ्यमन्वयः । लम्न इति । लम्नः पापेन युक्तः तदधिपतिः लम्नाधिपतिः  
दुर्बलश्चेत्तदा मर्त्यः मनुष्यः अलमत्यन्तं व्याधिभूमिः व्याधिस्थानम् । भवतीति  
शेषः । अथ लम्ननाथस्थितसदनपतिः लम्नेशाधिष्ठितराशिपतिः त्रित्रिके तृतीय-  
षष्ठाष्टमव्यये स्थितश्चेत् मानवो दुर्बलस्स्यात्, तत्पतौ लम्नपतौ अशुभग्रहयुते  
पापग्रहसहिते लम्नस्थे सति प्राणिनः लाञ्छनं स्यात् । तु उदयपतिकुजौ लम्नाधिप-  
कुजौ पापैः सम्बन्धिनौ लम्नस्थौ भवेतां चेत् तदा मूर्ध्नि देशे ग्रावाघातेन  
पाषाणाघातेन “ ग्रावाणौ शैलपाषाणावि ”त्यमरः । जातं व्रणं [ अनु ]कथितम् ।  
ज्योतिर्विदेति शेषः । भविष्यतिक्तप्रत्ययः । तथा कुमारसम्भवे कालिदासेनोक्तम्—

“ आरोपितं यद्गिरिशेन पश्चात् ” इति ॥ ४ ॥

प्रावाघातेन जातं व्रणमनु( भवते ) [ कथितं<sup>1</sup> ] मूर्ध्निदेशे ततस्तौ  
 स्यातां युक्तौ च दृष्टौ यदि रवितनयेनाग्निनोक्तं व्रणं के ।  
 युक्तौ तौ वीक्षितौ चेच्छुभगगनचरैर्लक्षणं चिहमेवा-

देश(श्यं) वा क्रूरराशौ तनुपतिरशुभा लग्नाः कार्यवत्त्वम् ॥ ५ ॥

प्रावाघातेनेति । ततस्तौ लग्नाधिपकुजौ रवितनयेन शनिना दृष्टौ युक्तौ  
 च यदि तदा के शिरसि “ कं शिरोऽम्बुनोरि ”त्यमरः । अग्निना व्रणम् [ उक्तं ] ।  
 अग्निनेत्युपलक्षणम् । शस्त्रादिभिरपि व्रणं वाच्यम् । तौ लग्नाधिपकुजौ  
 शुभगगनचरैः शुभखगैः युक्तौ वीक्षितौ दृष्टौ चेत् लक्षणं लक्षणवत् चिहमेवा-  
 देश्यम् । ज्योतिर्विदेति शेषः । अशुभाः पापाः, लग्नाः, वा-अथवा, क्रूरराशौ  
 मेषादिराशौ, तनुपतिः लग्नाधिपः स्थितश्चेत् कार्यवत्त्वं कृशत्वं वाच्यम् ॥ ५ ॥

क्षोणीपुत्रेण दृष्टो वपुषि<sup>2</sup> गृहपतिर्युक्त आनाहगुल्म-

कासश्वासेर्मरोगाननुभवति जनस्तद्दशया विपाके ।

केतौ मूर्तौ च तस्मिन्नशुभ(गृह)[खग]युते लोकिते चोरबाधा

वाच्यास(म्बध्य)[त्यन्वितेऽतो वपुषि शुभखगैर्यौवने सौरुयमुक्तम् ॥ ६ ॥

क्षोणीपुत्रेणेति । क्षोणीपुत्रेण दृष्टः युक्तो वा गृहपतिः रविः वपुषि लग्ने  
 स्थितश्चेत् जनः तद्दशयाः विपाके आनाहगुल्मकासश्वासेर्मरोगान् निबन्धगुल्म-  
 कासश्वासव्रणान् अनुभवति, “ आनाहस्तु निबन्धस्स्यात् ” इत्यमरः । “ व्रणोऽस्त्रि-  
 यामीर्मरुः ” इत्यमरः । केतौ मूर्तौ लग्ने तस्मिन् अशुभखगयुते लोकिते वा सति  
 चोरबाधा वाच्या । वपुषि लग्ने शुभखगैः समन्विते सति अतः यौवने बाल्यात्परं  
 सौरुयमुक्तम् । वचेः कर्मणि क्तप्रत्ययः ॥ ६ ॥

अङ्गेशः केन्द्रसंस्थो नभसि सुरगुरुश्चेत्तदा बाल्यसौरुयं

वाच्यं चाथो तनुश्चेच्छुभखगरहिता कोशगः पापखेटः ।

केन्द्रः पापेन युक्तस्तनुप अपि तथाभूत आदौ न सौरुयं

सौरुयं वाच्यं ततोऽथो खलखग(र)[स]हिता मूर्तिरथे च सौम्यः ॥७॥

1. व्याख्यायां ‘कथितम्’ इत्येव दृश्यते
2. ग्रहपतिरित्यर्थे गृहपतिरित्युपयुक्तमिति भाति ।

अङ्गेश इति । अङ्गेशः लम्बेशः केन्द्रसंस्थः सुरगुरुः नभसि दशमे स्थितश्चेत् तदा बाल्यसौख्यं वाच्यम् । तथा तनुः लग्नः शुभखगरहिता । पा(प)[पा]युक्ते-  
त्यर्थः । पापखेटः कोशगः केन्द्रः पापेन युक्तः तनुपस्तथाभूतश्चेत् आदौ न सौख्यं  
वाच्यम् । तथा चोक्तं केरलभाष्ये —

“लम्बेऽशुभे धने पापे केन्द्रे पापसमन्विते ।

लम्बेश्वरे तथाभूते आदौ दुःखं ततस्सुखम् ॥” इति ।

अथो मूर्तिर्लग्नः खल्लग(र)[स]हिता अर्थे धने सौम्यः शुभग्रहः भाग्ये  
कश्चित्सौम्यः तनुपोऽपि तथाभूत आदौ बाल्ये दुःखं न वाच्यं सुखं वाच्यमित्यर्थः ।  
तदनन्तरं निर्द्वयं वाच्यं । तथा चोक्तं केरलभाष्ये—

“लम्बे पापे धने सौम्ये भाग्ये कश्चिच्छुभग्रहः ।

लम्बेश्वरे तथाभूते बाल्ये सौख्यं दरिद्रता ” ॥ इति ॥ ७ ॥

कश्चित्सौम्यश्च भाग्ये तनुप अपि तथाभूत आदौ न दुःखं

निर्द्वयं चाथ माने तनुप उदयके कर्मनाथोऽपि कीर्तिः ।

ताताङ्गे क्रूरखेटः सह शिखितमसा संस्थितश्चेत्ताङ्गे

नीचो दुष्कीर्तिधारी परसदनरतो मानवः स्याद् भुजङ्गः ॥ ८ ॥

कश्चिदिति । माने दशमे तनुपः उदयके लम्बे । स्वार्थे कप्रत्ययः । कर्मनाथः  
स्थितश्चेत् कीर्तिर्वाच्या । लग्नकर्माधिपौ परस्परस्थानस्थितौ चेत् कीर्तिमत्वं वाच्य-  
मित्यर्थः । ताताङ्गे दशमलग्नके क्रूरखेटः पापग्रहः शिखितमसा केतुराहुणा  
सह संस्थितश्चेत्, समाहारद्वन्द्वे एकवद्भावः । तथा नीचः नीचग्रहः अङ्गे लम्बे  
स्थितश्चेत् मानवः परसदनरतः भुजङ्गः विटपुरुषः । “भुजङ्गः पन्नगे षिद्रे” इत्यमरः ।  
अत एव दुष्कीर्तिधारीत्यर्थः ॥

तथाचोक्तं चिन्तामणौ—

“केन्द्रस्थिते सौम्यनिशाकरे वा सौम्येन हीने भ्रमसंयुतस्स्यात्” इति ॥ ८ ॥

तुङ्गस्थाने स्थितौ चेत्तनुपनवमपौ कीर्तिमांश्चेतनोऽथो

लम्बेशो युक्तदृष्टो यदि शुभखचरैः केन्द्रकोणे च तुङ्गे ।

सद्भाग्यः ख्यातकीर्तिर्धननिवहयुतो मानवो लोकमध्ये

केन्द्रे कोणे न पापास्तनुपसुरगुरू केन्द्रसंस्थौ शतायुः ॥ ९ ॥

तुङ्गस्थान इति ॥ तनुपनवमपौ लग्नभाग्याधिपौ तुङ्गस्थाने स्थितौ चेत् चेतनः मनुष्यः कीर्तिमान्भवति । अथो लग्नेशः शुभस्वचरैः युक्तदृष्टः केन्द्रकोणे तुङ्गे च स्थितः यदि मानवः लोकमध्ये सद्भाग्यः ख्यातकीर्तिः धननिवहयुतः भवति । अथ केन्द्रे कोणे वा पापा न स्थिताः तनुपसुरगुरू लग्नपजीवौ केन्द्रसंस्थौ चेत् मानवः शतायुः शतवर्षजीवी स्यात् ॥ ९ ॥

वित्ते लभाधिपो वा स्थित उदयपतिश्चेत्तदा विश्ववर्षात्

सौख्यं वाच्यं ततश्चेत्तनुपयुतगृहाधीशकः केन्द्रकोणे ।

विंशद्वर्षात्परं ना सुखमपि तु लभेतैव लग्नाधिपश्चत्

संबन्धं सौम्यराशेः कथितमतिसुखं षोडशाब्दात्परं च ॥ १० ॥

वित्त इति । वित्ते धने लभाधिपः उदयपतिर्लग्नपतिर्वा स्थितश्चेत् तदा विश्ववर्षात् विश्ववर्षात्परं सौख्यं वाच्यम् । ततः तनुपयुतगृहाधीशकः लग्नाधिपाधिष्ठितराशिपः केन्द्रकोणे स्थितश्चेत् त्रिंशद्वर्षात्परं ना मनुष्यः सुखमेव लभते । अपि निश्चितम् । लग्नाधिपः सौम्यराशेः संबन्धं चेत् । [ लभेत इति शेषः । ] षोडशाब्दात्परं षोडशवर्षानन्तरमतिसुखं कथितम् । ज्योतिर्विदेति शेषः ॥ १० ॥

संबद्धसौम्यखेटैर्यदि वपुरधिपः सुन्दरत्वं तदानीं

वक्तव्यं नीचयोगो यदि भवति तदा तस्य खर्वत्वमुक्तम् ।

क्षोणीपुत्रादियोगे भवति परवधूसङ्गमाद्दुःखभागी

मिथ्यावादी च नीचैस्सह खलु पुरुषः सद्भिरोधी च रोषी ॥ ११ ॥

इति श्रीभेनशेखरदासविरचिते जातकरत्नाकरे

तनुभावफलतरङ्गः प्रथमः ॥

संबद्ध इति । वपुरधिपः लग्नाधिपः सौम्यखेटैः शुभस्वगैः संबद्धः यदि तदानीं सुन्दरत्वं वक्तव्यम् । तस्य लग्नाधिपस्य नीचयोगः भवति यदि तदा खर्वत्वं

कुरुपत्वमुक्तम् । क्षोणीपुत्रादियोगे पुरुषः परवधूसङ्गमात् नीचैस्सह मिथ्यावादी  
रोषी सद्विरोधी, अत एव दुःखभागी च भवति ॥ ११ ॥

इति श्रीभेनशेखरदासविरचितायां तरणिप्रकाशिकाख्यायां  
जातकरत्नाकरटीकायां प्रथमभावफलं समाप्तम् ॥

— : \* : —

श्रीः

॥ धनभावफलम् ॥

धनभावेन वित्तनेत्रकुटुम्बादयो वक्तव्याः । अधुना धनभावफलं श्लोका-  
ष्टादशकेनाह-वित्तेश इति ।

वित्तेशः पापयुक्तत्रिकसदनगतश्चेत्तदा निर्धनत्वं  
चादेश्यं तत्र कामे खलखगरहितोऽप्येव तत्तत्फलत्वम् ।  
सौम्यैर्दृष्टो युतो वा स खलु यदि तदा मध्यमं चाथ वान्च्यं  
नेत्रं वक्रं धनेशो वपुरधिपतिना तत्र दृष्टो युतो वा ॥ १ ॥

वित्तेशः पापयुक्तः त्रिकसदनगतश्चेत्तदा निर्धनत्वमादेश्यम् । सः वित्तेशः  
खलखगरहितोऽपि तत्र त्रिके कामे सप्तमे[वा]स्थितश्चेत् तत्फलत्वमेवादेश्यम् । स  
वित्तेशः सौम्यैः शुभग्रहै युतः दृष्टो वा यदि तदा मध्यमं मध्यमफलमादेश्यम् ।  
अथ वित्तेशः वपुरधिपतिना लग्नाधिपेन दृष्टः युतो वा तत्र त्रिके स्थितश्चेत् वक्रं  
नेत्रं वान्च्यं, नेत्रवैपरीत्यं वक्तव्यमित्यर्थः ॥ १ ॥

कोशेशापेक्षया चेत्त्रिकभवनगतौ शुक्रचन्द्रौ निशान्ध्यं

वक्तव्यं चाथ सूर्योदयपतिधनपास्तत्र जन्मान्ध्यमुक्तम् ।

ते खेटास्तत्र संस्था यदि (नभसः)[पितुर]धिपेनाभियुक्तास्तदानीं

वक्तव्यं चान्धकत्वं पितुरथ (व्ययगो)[चरमे] लोहिताङ्गोऽक्षिकाणः ॥ २ ॥

कोशेशेति । शुक्रचन्द्रौ कोशेशापेक्षया नेत्राधिपापेक्षया त्रिकभवनगतौ षडादितिषु स्थितौ चेत् निशान्ध्यं वक्तव्यम् । अथ सूर्योदयपतिधनपाः नभसधि-  
पेन पितृस्थानाधिपेनाभियुक्ताः तत्त्विके संस्थाः संस्थिताः यदि तदानीं पितुरन्धकत्वं  
वक्तव्यम् । अथ लोहिताङ्गः कुजः व्ययगश्चेत् अक्षिकाणः वामाक्षिकाणः । जनः  
इति शेषः ॥ २ ॥

सौरिस्तत्र स्थितश्चेद्भवति खलु नरः काणवामेतराक्षो  
नेत्रे सौम्ये तदीशे शुभविहगयुते कारकाधीशशुक्रे ।  
युक्ते दृष्टेऽङ्गपेनैव स भवति नरो विस्तृताक्षोऽथ युक्तं  
मन्दारेणापि दृष्टं खल्वचरयुतं कोशमं नेत्ररोगी ॥ ३ ॥

सौरिरिति । सौरिः शनिः तत्र व्यये स्थितश्चेत् नरः काणवामेतराक्षः  
दक्षिणाक्षिकाणः इत्यर्थः । भवति खलु । एवं पित्रादीनामपि चिन्त्यम् । नेत्रे सौम्ये  
शुभे तदीशे नेत्रेशे शुभविहगयुते कारकाधीशशुक्रे अङ्गपेन लग्नेश्वरेणैव युक्ते दृष्टे  
सति नरः विस्तृताक्षः विशालदृष्टिः भवति । तथा चोक्तं ग्रन्थान्तरे--

“नेत्रे शुभे तद्भवनेश्वरे वा सौम्यान्विते कारकखेचरेन्द्रे ।  
लग्नेश्वरेणापि युतेऽथ दृष्टे विशालदृष्टिस्स नरो विशेषात् ॥”

कोशमं नेत्रमं खल्वचरयुतं मन्दारेण शनिभौमेन दृष्टमपि चेत् नेत्ररोगी  
भवति ॥ ३ ॥

नेत्रेशाधिष्ठितर्क्षाधिपतिरपि <sup>1</sup>त्रिके वर्तमानोऽक्षिरोगो  
वक्तव्यश्चाथ शुक्रे क्षितिसुतरविणा युक्तदृष्टेऽक्षिरक्तम् ।  
वाक्स्थानेशस्सराहुः यदि रिपुभवने संस्थितो दन्तरोग-  
स्तद्रोगश्चापि दृष्टेऽगुगतभवनपेनात्रयुक्ते च वाच्यः ॥ ४ ॥

नेत्रेशेति । नेत्रेशाधिष्ठितर्क्षाधिपतिः नेत्राधिपाधिष्ठितराशिपः त्रिके षष्ठादि-  
त्रितये वर्तमानश्चेदक्षिरोगो वक्तव्यः । अथ शुक्रे क्षितिसुतरविणा भौमसूर्येण युक्तदृष्टे

1. त्रिके इत्येतस्मिन्नर्थे त्रिके इत्युक्त एव छन्दस्सामञ्जस्यं स्यात् ।

सम्बद्धे सति अक्षिरक्तं नयनान्तरक्तत्वं वक्तव्यम् । वाक्स्थानेशः सराहुः रिपुभवने संस्थितो यदि दन्तरोगो वक्तव्यः । अत्रास्मिन् वाक्स्थानेशः अगुगतभवनपेन राहुस्थितर्क्षाधिपेन दृष्टे युक्ते च तद्रोगः दन्तरोगः वक्तव्यः । अगुशब्देन राहु-रुच्यते । कर्मणि <sup>1</sup>तव्यप्रत्ययः ॥ ४ ॥

छायापुत्रेण दृष्टः स खलु यदि युतो मानवो वातरोगी

सम्बद्धो हेलिना चेन्नृपजनितभयात्पीडितो मानुषस्यात् ।

सम्बद्धो लोहिताङ्गेन स तु यदि भवेदुष्णरोगित्वमुक्तं

सम्ब(न्धः)[न्धं]केतुराहोस्स तु यदि च (भवेदु)[लभेतो]त्तमाङ्गस्य पीडा ॥५ ॥

छायापुत्रेणेति । सः वाक्स्थानेशः छायापुत्रेण शनिना दृष्टः युतश्च यदि मानवः वातरोगी खलु । एवं हेलिना रविणा सम्बद्धः चेत् मानुषः नृपजनित-भयात् पीडितः स्यात् । सः वाक्स्थानेशः लोहिताङ्गेन भौमेन सम्बद्धः भवेत् यदि उष्णरोगित्वमुक्तम् । सः केतुराहोस्सम्ब(न्धः)[न्धं] यदि [लभेत] । चशब्देन बुधस्य सम्बन्धः। उत्तमाङ्गस्य पीडा उक्ता मुण्डव्यथादिरोगपीडोक्तैत्यर्थः ॥ ५ ॥

षष्ठायेशौ तनुस्थौ यदि धनपतिना युक्तदृष्टौ च राज्ञः

क्रोधादुन्मू(लना)[लिता]क्षः खलु भवति नरो मानहीनोऽतिदुःखी ।

नेत्राधीशस्सपापस्तनुसदनगतश्चेत्तदाच्छिद्रकर्ण-

श्रायो(प्ये)[स्या]द्वारि(च्छिद्र)[रन्ध्रे] यदि गत उदितः कर्णरोगो नराणाम् ॥६॥

षष्ठायेशाविति । षष्ठायेशौ धनपतिना युक्तदृष्टौ यदि राज्ञः क्रोधात् नरः उन्मू(लना)[लिता]क्षः उत्पा(टना)[टिता]क्षः, अत एवातिदुःखी मानहीनः भवति खलु । एवं पित्रादिभावेषु योजनीयम् । नेत्राधीशः घनाधिपः सपापः तनुसदनगत-श्चेत् तदा अच्छिद्रकर्णः भवति । अथ स एवारिच्छिद्रे षष्ठाष्टमे गतो यदि [स्यात्] नराणां कर्णरोगः उदितः । वदेः कर्मणि क्तप्रत्ययः ॥ ६ ॥

अर्थेशः कर्मसंस्थोऽसुरगुरुविधुना युक्तदृष्टश्च वाच्यं

रौप्याणां भूरिपात्रं यदि स गुरुयुतः स्वर्णपात्रत्वमुक्तम् ।

कोणे केन्द्रे स्थितश्चेद्दिनपतिरपि नुस्तादृशं वा विचित्रं

पात्रं वाच्यं ततो ज्ञेन स तु यदि युतो वीक्षितः कांस्यपात्रम् ॥ ६ ॥

अर्थेश इति । अर्थेशः धनाधिपः असुरगुरुविधुना शुकेन्दुना युक्तदृष्टः कर्मस्थः यदि रौप्याणां भूरिपात्रं वाच्यम् । भूरिरजतपात्रं वाच्यमित्यर्थः । स गुरुयुतो यदि स्वर्णपात्रत्वमुक्तम् । धनपतिः कोणे केन्द्रे स्थितः चेत् नुः नरस्य तादृशं विचित्रं पात्रं वाच्यम् । वा निश्चितं—“ वा विकल्पेऽथनिश्चये” इत्यमरः । ततः तदनन्तरं सः ज्ञेन बुधेन युतः वीक्षितः कोणे केन्द्रे स्थितो यदि कांस्यपात्रं वाच्यम् । वचेः कर्मणि ष्यप्रत्ययः ॥ ७ ॥

सौम्यै (युक्तेक्षिते) [दृष्टे युते] वा धनपतिधनभे सौख्यमुक्तं जनानां

(चाथोऽस्मिन्) [यद्यस्मिन्] युक्तदृष्टे विधुसुतगुरुणा चान्नदातृत्वमुक्तम् ।

सम्बद्धं राहुभौमेन धनभमुदितः कुत्सितान्नस्य भोगः

चाथो मित्रर्क्ष उच्चे धनपतिरुदितं वाग्भिभूतिः कुटुम्बम् ॥ ८ ॥

सौम्यैरिति । धनपतिधनभे नेत्राधिपनेत्रे सौम्यैः शुभग्रहैः युक्तेक्षिते सति सौख्यमुक्तम् । वा निश्चितम् । अथो अस्मिन् धनपतिधनभे विधुसुतगुरुणा युक्त-दृष्टे सति अन्नदातृत्वमुक्तम् । धनभं धनस्थानं राहुभौमेन संबद्धं चेत् कुत्सितान्नस्य भोग उदितः उक्तः । अथो धनपतिः मित्रर्क्षे उच्चे स्थितश्चेत् कुटुम्बमुदितं वाग्भि-भूतिश्च उदिता ॥ वदेः कर्मणि क्तप्रत्ययः ॥ ८ ॥

विद्यास्थानेशजीवौ त्रिकसदनगतौ मूक(वत्वं)[ता तत्=]कुटुम्बा-

भावत्वं चापि वाच्यं गृह(नभसधिपौ)[दशमपती] चेतदा तत्र संस्थौ ।

मूकत्वं मातुलानां पितुरपि कथितं चाथ तत्र स्थितश्चेत्

प्राज्ञो विद्याविहीनः सुरगुरुधनपौ तत्र संस्थौ दरिद्रः ॥ ९ ॥

विद्यास्थानेशेति । विद्यास्थानेशजीवौ पञ्चमेशगुरू त्रिकसदनगतौ षडादि-त्रिषु स्थितौ चेत् मूकत्वं कुटुम्बाभावत्वञ्च वाच्यम् । गृहनभसधिपौ मातुलपितृपौ तत्र संस्थौ चेत् मातुलानां पितुरपि मूकत्वं कथितम् । अथ प्राज्ञो बुधस्तत्र त्रिके स्थितश्चेत् विद्याविहीनः । जन इति शेषः । सुरगुरुधनपौ गुरुकोशाधिपौ तत्र संस्थौ चेत् दरिद्रस्यात् ॥ ९ ॥

लम्बेशेनेक्षिते वा युत अपि धनपे स्वस्य वीर्याद्धनित्वं  
 वाच्यं चाथापि तस्मिन् क्षितिसुतसहजेशेन दृष्टे युते वा ।  
 वक्तव्यं तत्फलत्वं सबलधनपतौ युक्तदृष्टे गृहेशे-  
 नादेश्यं मातृवित्तं सुतपतिगुरुणा युक्तदृष्टे च तस्मिन् ॥ १० ॥

लम्बेशेनेति । धनपे लम्बेशेन युते ईक्षिते वापि सति स्वस्यात्मनो वीर्याद्धनं  
 वाच्यम् । स्वपराक्रमार्जितधनं वाच्यमित्यर्थः । अथ तस्मिन् धनपे क्षितिसुत-  
 सहजेशेन कारकतृतीयाधिपेन दृष्टे युते सति तत्फलत्वं स्ववीर्याद्धनित्वं वक्तव्यम् ।

तथा चोक्तं केरलभाष्ये—

“ वित्तेश्वरं पश्यति लम्बनाथे युते स्ववीर्याद्धनमेति जातः ।  
 तृतीयभागाधिपकारकाभ्यां दृष्टे युते तादृशमेति वित्तम् ॥ ” इति

सबलधनपतौ बलाढ्यार्थपतौ गृहेशेन सुखेश्वरेण युक्ते दृष्टे च सति मातृवित्तं  
 मातुस्सकाशाद्वित्तं मातृवित्तं वक्तव्यम् ॥ १० ॥

वित्तं पुत्रार्जितं चोदितमथ मदनाधीशशुक्रेण युक्तं  
 दृष्टे वित्तं कलत्राद् व्रजति खलु नरो हौरिकैर्ज्ञेयमेवम् ।  
 तस्मिन् दृष्टे युते वा दशमपगुरुणा मानवो लोकमध्ये  
 कीर्त्याढ्यो धार्मिकस्स्यात् क्षितिपसुहृदतो द्रव्यवान्योगयुक्तः ॥ ११ ॥

वित्तमिति । तस्मिन् सबलधनपतौ सुतपतिगुरुणा पुत्रेशतत्कारकखेचरेण  
 युक्ते दृष्टे सति पुत्रार्जितं वित्तमुदितं उक्तम् । अथ तस्मिन् मदनाधीशशुक्रेण  
 कलत्रेशतत्कारकेण युक्ते दृष्टे वा सति कलत्रात् तत्सकाशात् नरः वित्तं व्रजति लम्बते  
 खलु । एवं हौरिकैः होराशास्त्रविद्विः ज्ञेयम् । तस्मिन् सबलधनपतौ दशमपगुरुणा  
 कर्मेशतत्कारकेण दृष्टे युते वा सति मानवः लोकमध्ये कीर्त्याढ्यः धार्मिकः क्षितिप-  
 सुहृत् अत एव द्रव्यवान् योगयुक्तस्स्यात् ।

तथा चोक्तं केरलभाष्ये—

“ दृष्टे युते वित्तपतौ बलाढ्ये सुखेश्वरेणापि धनं जनन्याः ।  
 पुत्रेशतत्कारकखेचराभ्यां तथाविधे वित्तपतौ बलाढ्ये ॥ ” इति

“जातस्वपुत्रार्जितमेति वितं कलत्रतत्कारकदृष्टयुक्ते ।

वितं कलत्रालभते हि जातः पुमान्भवेत्सर्वजनप्रशस्तः ॥

कर्मेशतत्कारकदृष्टियोगाद्धनञ्चदानग्रहणा(स्तु)[त्]कीर्तिः” ॥ इति ११ ॥

लग्नेशे हीनवीर्ये खलखगसहिते रिप्फगे कोशनाथे

पापैर्दृष्टे युते वा दिवसपतियुते नीचगे जातपुंसः ।

वितं राज्ञा हृतं चेत्युदितमथ(व्यया)[तथा]धीशके (कोशसंस्थे)[रिप्फराशेः]

(रिप्फस्थे) [कोशस्थे]कोशनाथे त्रिकभवनगते नीचगे तत्फलत्वम् ॥ १२ ॥

लग्नेश इति । लग्नेशे हीनवीर्ये खलखगसहिते रिप्फगे व्ययस्थे सति कोशनाथे धनेशे दिवसपतियुते पापैर्दृष्टे युते नीचगे वा सति जातपुंसः वितं राज्ञा हृतमित्युदितं ज्योतिर्विदेति शेषः ।

तथा चोक्तं केरलभाष्ये—

“लग्नाधिपे हीनबले सपापे रिप्फे धनेशे दिननाथयुक्ते ।

नीचस्थिते पापयुते च दृष्टे जातस्य वितं हरति क्षितीशः ॥” इति ।

अथ व्ययाधीशके व्ययेशे स्वार्थे कप्रत्ययः । कोशसंस्थे धनराशिस्थे, कोशनाथे त्रिकभवनगते दुस्थे नीचगे च सति तत्फलत्वमुदितम् ।

तथा चोक्तं ग्रन्थान्तरे—

“व्ययेशे धनराशिस्थे रिप्फस्थे धननायके ।

दुस्थे धनेशे नीचस्थे राजदण्डाद्धनक्षयः ॥” इति ॥ १२ ॥

लग्नेशेनापि दृष्टौ व्ययधनभवने संस्थितौ स्वान्तनाथौ

लाभेशे चन्द्रसंस्थे खलखगसहिते भूमिपात निर्धनत्वम् ।

कर्मेशो लाभसंस्थोऽशुभखगसहितः स्वान्तसम्बन्धकश्चेत्

दुष्कीर्ते(र्नाश)[नष्ट]वित्तो भवति खलु नरो मानहीनोऽतितुःखी ॥ १३ ॥

कोशाधीशस्सपापो यदि बलरहितश्चोरतो वित्तनाशः

चाथो क्रूरेण युक्ते धनभवनपतौ पापयुक्ते स्वराशौ ।

प्राप्तीशे चार्थहीनो भवति हि मनुजश्चाथ कोशागमेशौ  
स्वोच्चे कोणे स्थितौ चेल्लुरुचिरनयनश्चार्थवान्धर्मशीलः ॥ १४ ॥

श्लोकद्वयमेकार्थेनाह - लभेशेनेति । स्वान्तनाथौ धनव्ययेशौ लभेशेन दृष्टौ  
व्ययधनभवने संस्थौ चेत् एको योगः । लाभेशे खलखगसहिते रन्ध्रसंस्थे सति  
एको योगः । भूमिपात् तत्सकाशात् निर्धनत्वं वाच्यम् । अपि निश्चितम् ।

‘तथा चोक्तं ग्रन्थान्तरे—

“ धनव्ययेशौ व्ययवित्तसंस्थौ लभेश्वरे पापिनिरीक्षितौ चेत् ।  
लाभाधिपे नाशगते सपापे राज्ञा प्रकोपाद्धननाशमाहुः ॥ ” इति

कर्मेशः अशुभखगसहितः स्वान्तसम्बन्धकः धनव्ययाधिपसम्बन्धः लाभसंस्थ-  
श्चेन्नरः दुष्कीर्तेर्लोकपावादात् नाशवित्तः नष्टधनः अत एव मानहीनः अतिदुःखी  
भवति खलु ॥ १३ ॥

कोशाधीश इति । कोशाधीशः सपापः बलरहितः दुर्बले यदि चोरतः  
तत्सकाशात् वित्तनाशः । अथ धनभवनपतौ क्रूरेण युक्ते सति स्वराशौ धनराशौ  
पापयुक्ते सति प्राप्तीशे च तथाविधे सति एको योगः । मनुजः अर्थहीनः भवति ।  
हि निश्चितम् । अथ कोशागमेशौ धनलाभाधिपौ स्वोच्चे कोणे स्थितौ चेत्  
मनुजः सुरुचिरनयनः अर्थवान्धर्मशीलः भवति ॥ १४ ॥

कर्मस्थानाधिपो वा धनपतिसहितश्चेत्तदा द्रव्यवान्स्या-

चाथो लाभोदयेशौ गगनधनपतौ मानवस्याच्च तद्वान् ।

केन्द्रस्थाने शुभश्चेद्भवति च नियतं युग्मलक्षाधिपो ना

चाथो तत्र स्थितश्चेत्तनुपभवती तत्फलं स्यात्तदानीम् ॥ १५ ॥

कर्मस्थानाधिप इति । कर्मस्थानाधिपः धनपतिसहितश्चेत् तदा मानवः द्रव्यवान्  
स्यात् । अथो लाभोदयेशौ लाभलक्षाधिपौ गगनधनपती कर्मार्थपती चेत् मानवः  
तद्वान् द्रव्यवान् स्यात् । केन्द्रस्थाने चतुष्केन्द्रस्थाने शुभस्थितश्चेत् ना नरः  
युग्मलक्षाधिपः भवति । नियतं निश्चितम् । अथो तनुपभवती लग्नलाभाधिपौ तत्र  
चतुष्केन्द्रे स्थितौ चेत् तदनीं तत्फलं स्यात् युग्मलक्षाधिपो भवतीत्यर्थः ॥ १५ ॥

अन्योन्यस्थानसंस्थास्तनुभवनवपाश्चेन्महाद्रव्यवान्स्यात्

चाथो स्वोच्चे स्थितास्ते भवति नरपती राजराजाधिपो वा ।

मूर्तीशे रिप्फसंस्थे धनभवनगते पापखेटे युते वा

दृष्टे लाभधिपेनापि च गगनपतौ मानवो निर्धनस्स्यात् ॥ १६ ॥

अन्योन्येति । तनुभवनवपाः लग्नलाभधर्मपाः अन्योन्यस्थानसंस्थाश्चेत् - महाद्रव्यवान् स्यात् । अथो ते तनुभवनवपाः स्वोच्चे स्थिताश्चेन्मानवः नरपतिः अथवा राजराजाधिपो भवति । मूर्तीशे लग्नेशे रिप्फसंस्थे पापखेटे धनभवनगते सति गगनपतौ कर्मेशे लाभधिपेन दृष्टे युते वा सति एको योगः निर्धनस्स्यात् ऋणग्रस्तस्स्यात् ।

तथा चोक्तं केरलभाष्ये—

“ ऋणग्रस्तो धने पापे लग्नेशे व्ययसंयुते ।

कर्मेशे लाभनाथेन युक्ते दृष्टे विशेषतः ॥ ” इति ॥ १६ ॥

नीचस्थे कोशनाथे किरणपतियुते पापयुक्ते ल्यार्थे

तद्वाँश्चाथो सुतेशे सतमसि रिपुगे तस्स्थितर्क्षेण युक्ते ।

दन्ते रोगी नरस्स्यात्तदनु रवियुते लग्नकोशास्तरन्ध्रे

क्षोणीपुत्रेण दृष्टे व्रजति खलु नरस्फोटरोगञ्च काले ॥ १७ ॥

नीचस्थ इति । कोशनाथे किरणपतियुते नीचस्थे सति ल्यार्थे रन्ध्रे धने पापयुक्ते सति तद्वान् निर्धनः स्यात् । अथो सुतेशे सतमसि सराहौ रिपुगे सति, तत्स्थर्क्षेशयुक्ते राह्वधिष्ठितर्क्षाधिपयुते वा नरः दन्तरोगी स्यात् ।

तथा चोक्तं केरलभाष्ये—

“ वाक्स्थानपे रिपुगते सराहौ राहुस्थितर्क्षाधिपसंयुते वा ।

दन्तस्य रोगं तपनञ्च तेषां भुक्तौ तयोर्वा प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ॥ ” इति

तदनु लग्नकोशास्तरन्ध्रे विलग्नधनसप्तमरन्ध्रगे रवियुते क्षोणीपुत्रेण दृष्टे सति काले नरः स्फोटरोगं व्रजति प्रमोति खलु ।

तथा चोक्तं भाष्ये—

“ विलम्बसप्ताष्टमवित्तराशौ दिनेशयुक्ते क्षितिसूनुदृष्टे ।

भौमेऽथवा वासरनाथदृष्टे स्फोटाग्निभीतिं प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ॥ ” इति ॥ १७ ॥

तस्मिन्भौमे स्थिते वा दिवसपतियुते तत्फलं स्यात्तदानीं

चाथो सौरौ धनस्थे खलखचरयुते वीक्षिते जातमर्त्यः ।

भीतिं कौलेयकाद्भानुभवति सहसा चाथ दृष्टे युते वा

भावेशेनापि मन्दे शुनकभयमलं नीचजातेश्च भीतिम् ॥ १८ ॥

इति श्रीभेनशेखरदासविरचिते जातकरत्नाकरे धनभावफलतरङ्गो द्वितीयः ॥

तस्मिन्निति । भौमे दिवसपतियुते तस्मिन् स्थिते सति तदानीं तत्फलं स्यात् । स्फोटारोगस्स्यादित्यर्थः । अथो सौरौ शनौ खलखचरयुते वीक्षिते च धनस्थे सति जातमर्त्यः सहसा कौलेयकात् कुक्कुरात् भीतिमनुभवति । वा निश्चितम् ।

“ कौलेयकस्सारमेयः कुक्कुरो मृगदंशकः ” इत्यमरः ।

मन्दे शनौ भावेशेन दृष्टे युते वा सति अलमत्यन्तं शुनकभयं नीचजातेश्च भीतिमनुभवति । तथा चोक्तं ग्रन्थान्तरे—

“ पापेक्षिते रक्सुते धनराशियुक्ते पापान्विते शुनकभीतिमुपैति जातः ।

तद्भावनाथसहिते दिननाथपुत्रे दृष्टेऽथवा शुनकभीतिमुपैति जातः ॥

॥ इति श्रीभेनशेखरदासविरचितायां तरणिप्रकाशिकाव्याख्यायां

जातकरत्नाकरटीकायां द्वितीयभावफलं समाप्तम् ॥

## ॥ भ्रातृभावफलम् ॥

अधुना भ्रातृभावफलं श्लोकाष्टकेनाह—भ्रातृभावेन सहजवित्तपराक्रमयोग-सहायदक्षिणकर्णादयो वक्तव्याः ।

भ्रातृस्थानास्थितौ चेद्भयरिपुनिधने भ्रातृपारौ सपापौ

आत्रा हीनोऽथ तौ चेदशुभसदनगौ भ्रातरो नाशमीयुः ।

तौ नीचास्तारिगौ चेद्भवति च नियतं तत्फलं चाथ नाशो

भ्रातुः पापान्तरे वा सखलसहजपे पापयुक्ते तृतीये ॥ १ ॥

भ्रातृस्थानादिति । भ्रातृपारौ सहजाधिपसहजकारकभौमौ सपापौ भ्रातृस्थानात् तृतीयस्थानात् व्ययरिपुनिधने द्वादशषष्ठाष्टमे । समाहारे एकवद्भावः । स्थितौ चेत् भ्रात्रा हीनः । सहजाभावो भवतीत्यर्थः । अथ तौ भ्रातृपारौ अशुभसदनगौ पापराशिस्थौ चेत् भ्रातरो नाशमीयुः प्राप्नुयुः । तौ नीचास्तारिगौ नीचास्तशत्रुगौ चेन्नियतं तत्फलं भवति । भ्रातरो नाशमीयुरित्यर्थः । अथ तृतीये सहजे पापयुक्ते सति सखलसहजपे पापयुक्ततत्पतौ पापान्तरे पापमध्ये स्थिते सति एको योगः । भ्रातुर्नाशः भ्राता नष्टो भवतीत्यर्थः । वा निश्चितम् । तथा चोक्तं चिन्तामणौ—

“पापान्तरे पापनिरीक्षिते वा पापान्विते पापगृहान्विते वा ।

‘तृतीयभावेऽशुभखेचरेऽन्यैर्न वीक्षिते सोदरनाशमाहुः ॥” इति ।

तथा चोक्तं कल्याणवर्मणा—

“पापान्तरे तदीशे तु कारके वा तथाविधे ।

तथैव तस्मिन्भावे तु सोदराणां विनाशनम् ॥” इति ॥ १ ॥

दुश्चिक्वे सौम्यदृष्टे शुभखगसहिते भावनाथे बलाढ्ये

भ्रातृणां लाभ उक्तस्तदपि सहजपे कारके दृष्टयुक्ते ।

सौम्यैर्भावे बलाढ्ये व्रजति तमपि ना चाथ केन्द्रे त्रिकोणे

स्वोच्चे मित्रस्ववर्गे सहजभवनपे कारके वापि स स्यात् ॥ २ ॥

दुश्चिक्व इति । दुश्चिक्वे भ्रातृस्थाने सौम्यदृष्टे शुभखगसहिते सति भावनाथे बलाढ्ये सति भ्रातृणां लाभ उक्तः । कर्मणि क्तप्रत्ययः ।

तथा चोक्तं चिन्तामणौ—

“भ्रातृस्थाने शुभैर्युक्ते शुभग्रहनिरीक्षिते ।

भावे वा बलसम्पूर्णे भ्रातृणां वर्धनं भवेत् ॥” इति ।

“भावनाथे बलाढ्ये तु भ्रातृलाभमुदीरयेत्” । तत्तस्मात् सहजपे भ्रातृपे कारके च सौम्यैः दृष्टे युक्ते वा भावे बलाढ्ये सति एको योगः । ना नरः भ्रातृलाभं व्रजति । अपि निश्चितम् । तथा चोक्तं चिन्तामणौ—

आतृपे कारके चापि शुभयुक्ते निरीक्षिते । इति

अथ सहजभवनपे कारके वा केन्द्रे कोणे स्वोच्चे मित्रस्ववर्गे स्थिते सति सः आतृलाभस्यात् । तथा चोक्तं ग्रन्थान्तरे—

“ केन्द्रत्रिकोणगे वापि स्वोच्चमित्त्वस्ववर्गगे ।

नाथे वा कारके वापि आतृलाभमुदीरयेत् ” इति ॥ २ ॥

स्त्रीक्षेत्रे स्त्रीग्रहश्चेत्सहजभवनपो मानवः (स्वसृमान्स्यात्)[सोदरीमान् ]

चाथो दुश्चिक्यनाथश्शुभखगसहितो आतृमान्बुद्धियुक्तः ।

वैमातृभ्रातृमान्स्यात् (तनुप अपि त्रिके)[त्रिकगततनुपः] पापचन्द्रेण युक्तो

दृष्टः क्षोणीसुतोऽथो तदधिपतिकुजौ केन्द्रकोणे ससौम्यौ ॥ ३ ॥

स्त्रीक्षेत्र इति । सहजभवनपः स्त्रीग्रहः स्त्रीक्षेत्रे स्थितश्चेत् मानवः स्वसृमान् भगिनीवान् स्यात् । एवं पुंग्रहः पुंक्षेत्रगतश्चेत् आतृमान् । अथ दुश्चिक्यनाथः आतृ-नाथः शुभखगसहितश्चेत् आतृमान् आतृबाहुल्यवान् बुद्धियुक्तश्च स्यात् । तनुपः लग्नाधिपः त्रिके स्थितः क्षोणीसुतः सोदरकारकभौमः पापचन्द्रेण पापग्रहमातृ-कारकचन्द्रेण युक्तः दृष्टश्चेत् वैमातृभ्रातृमान् स्यात् । अथो तदधिपतिकुजौ विक्र-मेशकुजौ ससौम्यौ शुभखगसहितौ केन्द्रकोणे स्थितौ चेत् । मर्त्यः धीरः स्यात् । पित्रापि सम्बन्धे एवमेव फलम् ॥ ३ ॥

धीरो मर्त्योऽथ युद्धे कुशलमतिरलं भौमविक्रान्तनाथौ

सौम्यैर्दृष्टौ च युक्तौ तदनु कुशलधीस्तुङ्गस्वर्षादियुक्तौ ।

नीचैर्युक्तौ च दृष्टौ भवति जडमतिश्चाथ सूर्येण युक्ते

भावेशे(धीर)[धैर्य]वान्स्याद्विमकिरणयुते मानसे धैर्ययुक्तः ॥ ४ ॥

धीर इति । अथ भौमविक्रान्तनाथौ सौम्यैः दृष्टौ युक्तौ च चेत् युद्धे अलमत्यन्तं कुशलमतिः महाप्रवीणः तदनु तुङ्गस्वर्षादियुक्तौ चेत् कुशलधीः युद्धे कुशलबुद्धिरित्यर्थः । नीचैर्युक्तौ दृष्टौ च चेज्जडमतिर्भवति । अथ भावेशे सूर्येण युक्ते सति(धीर)[धैर्य]वान्स्यात् जन इति शेषः । हिमकिरणयुते चन्द्रान्विते सति मानसे धैर्ययुक्तः । तथा चोक्तं चिन्तामणौ—

“शौर्याधिपे भानुयुतेऽत्र धीरश्चन्द्रान्विते मानसधैर्ययुक्तः ।” इति ॥ ४ ॥

कोपी भौमेन युक्ते भवति जडमतिस्सूर्यपुत्रेण युक्ते

धीरो जीवान्विते ना कुमुदपतिसुतेनान्विते बुद्धियुक्तः ।

युक्ते शुक्रेण कामी त्वथ तनुपगुरुर्विक्रमेशेन युक्तो

भीतिर्व्याघ्रादिकास्यादथ जलमतनुर्भावनाथेन युक्तः ॥ ५ ॥

कोपीति । भौमेन युक्ते सति कोपी सूर्यपुत्रेण युक्ते सति जडमतिर्भवति ।

तथा चोक्तं ग्रन्थान्तरे—

“कृष्णे जडो भौमयुते प्रकोपी सोमान्विते सात्विकबुद्धियुक्तः ।” इति ।

जीवान्विते सति ना नरः धीरः भवति । तथा चोक्तं ग्रन्थान्तरे—

“जीवान्विते धीरतया समेतः सर्वार्थशास्त्रेषु विशारदस्स्यात् ।” इति ।

कुमुदपतिसुतेन चन्द्रात्मजेनान्विते बुद्धियुक्तः । शुक्रेण युक्ते कामी कामातुरः । अथ तनुपसुरगुरुः लघ्नाधिपबृहस्पतिः विक्रमेशेन युक्तश्चेत् व्याघ्रादिकात् व्याघ्रादिचतुष्पदो भीतिः स्यात् । अथ जलमतनुः जलराशिलघ्नं भावनाथेन युक्तश्चेत् नराणां रोगाद्भीतिः ॥ ५ ॥

रोगाद्भीतिर्नराणां त्वथ स खल्युतो नीरभीतिस्तदानीं

चाथो विक्रान्तनाथे सतमसि फणिनो भीतिमान्मानुषस्स्यात् ।

तद्वान् लभे स्थितश्चेत्कुमुदपतिरिपुश्चाथ सौम्येन युक्तो

रन्ध्रेऽरौ वा स्थितश्चेत्सहजभवनपो मानवः कण्ठरोगी ॥ ६ ॥

रोगादिति । स विक्रमेशः खल्युतश्चेत् तदानीं नीरभीतिः । अथो विक्रान्तनाथे सतमसि राहुसहिते सति मानुषः फणिनः तत्सकाशात् भीतिमान् स्यात् । अस्स्यर्थे मनुष्यत्ययः । कुमुदपतिरिपुः राहुः लभे स्थितश्चेत् तद्वान् सर्पभीतिमान् स्यात् । अथ सहजभवनपः सौम्येन बुधेन युक्तः रन्ध्रे अष्टमे अरौ षष्ठे वा स्थितश्चेन्मानवः कण्ठरोगी गलरोगी स्यात् ॥ ६ ॥

भावेशाधिष्ठितर्क्षाधिपतिरपि खगेनासताधिष्ठितश्चेत्

केन्द्रस्थः कर्णरोगी भवति हि नियतं मानवो मानवानाम् ।

पादस्फोटोऽपि नुस्स्यात्सहजसहजपौ नीचपापादियुक्तौ

चाथो स्वर्क्षे च दृष्टौ स यदि शुभखगैस्सौम्ययुक्ते तदीशे ॥ ७ ॥

भावेशेति । भावेशाधिष्ठितर्क्षाधिपतिः विक्रमाधिष्ठितराशिपः असता खगेन पापग्रहेण संयुतः केन्द्रस्थश्चेत् मानवानां मध्ये मानवः कर्णरोगी भवति नियतम् । हिःपादपूरणम् । सहजसहजपौ विक्रमविक्रमाधिपौ नीचपापादियुक्तौ चेत् नुः नरस्य पादस्फोटस्स्यात् । तथा चोक्तं चिन्तामणौ—

“ तृतीये बुधसंयुक्ते सौम्यग्रहनिरीक्षिते ।

तदीशे शुभसंयुक्ते कर्णयोर्भूषणं वदेत् ” ॥ इति ॥ ७ ॥

कर्णे भूषां वदे (वा) [द्वा] त्वथ भृगुतनयेनाभियुक्ते तृतीये

वाच्या मुक्ताऽथ जीवेन च मणिररुणः सूर्ययुक्ते तथोक्तम् ।

भातृस्थानाधिपश्चेद्भवति शुभखगः पुण्यवार्तादिशीलं

पापश्चेत्पापवार्ताश्रवणमपि भवेत्किं पुनर्धार्मिकाणाम् ॥ ८ ॥

इति श्रीभेनशेखरदासविरचिते जातकरत्नाकरे भ्रातृभावफलतरङ्गस्तृतीयः ।

कर्ण इति । अथ तृतीये भृगुतनयेन शुकेणाभियुक्ते सति मुक्ता वाच्या । अथ जीवेन युक्ते सति अरुणः मणिः माणिक्यं वाच्यम् । रवियुक्ते सति तथोक्तम् । भ्रातृस्थानाधिपः शुभखगः भवति चेत् सुखवार्तादिशीलं भवेत् । पापश्चेत् पापवार्ता-श्रवणं भवेत् । धार्मिकाणां किं पुनः वाच्यम् । अपि निश्चितम् ॥ ८ ॥

इति श्रीभेनशेखरदासविरचितायां तरणिप्रकाशिकारूपायां जातकरत्नाकर-

टीकायां तृतीयभावफलं समाप्तम् ॥

## ॥ चतुर्थभावफलम् ॥

अथ चतुर्थभावफलं श्लोकषट्केनाह । अनेन बन्धुमातृवाहनसुखानि वाच्यानि ।

तुङ्गाधीशस्युखे तद्भवनमपि भवेन्मानवस्तत्पतिर्वा

सौम्यः खेटस्तदूनं त्वरितमथ गृहाधीश्वरश्चेद्बलाढ्यः ।

केन्द्रस्थस्तद्गृहं वा त्वथ हिवुकपतिः पापयुक्तस्त्रिके चेत्

तन्नाशात्पीडितो वा भवति खलु नरो बन्धुहीनश्च नूनम् ॥ १ ॥

तुङ्गाधीश इति । तुङ्गाधीशःसुखे चेत् मानवस्तद्भवनं तुङ्गगृहं लभेत । अपि निश्चितम् । तत्पतिस्सौम्यः शुभः खेटश्चेत् त्वरितं तदूनं तस्मात्तुङ्गभवनादूनं सामान्य-गृहमित्यर्थः , लभेत । गृहाधीश्वरः बलाढ्यः केन्द्रस्थश्चेत् तद्गृहं लभेत । वा निश्चितम् । अथ हिवुकपतिः गृहाधिपः पापयुक्तः त्रिके स्थितश्चेत् तन्नाशात् गृहनाशात् मानवः पीडितो भवति खलु, अथवा बन्धुहीनश्च नूनम् ॥ १ ॥

अम्बातस्थानपौ चेच्छुभस्वचरयुतौ मानवो बन्धुपूज्यः

तद्वीनः पापयुक्तौ तदनु चरतनौ बन्धुगेहे तदीशः ।

बन्धुस्थाने द्रुतं वा भवति गृहमथो भ्रातृनाथेन दृष्टः

स्वक्षेत्रे भौमयुक्तस्तदधिपतिरलं भ्रातृराज्ये गृहञ्च ॥ २ ॥

अम्बेति । अम्बा तत्स्थानपौ बन्धुतदधिपौ शुभस्वचरयुतौ चेत् मानवः बन्धुपूज्यः । पापयुक्तौ चेत् तद्वीनः बन्धुहीनः तदनु चरतनौ बन्धुगेहे तदीशः स्थितश्चेत् द्रुतं बन्धुस्थाने गृहं भवति । वा निश्चितम् । तथा चोक्तं चिन्तामणौ—

“ बन्धुस्थाने चरे लम्बे तदीशे चरराशिगे ।

तथा तत्कारके वापि बन्धुस्थाने गृहं वदेत् ॥ ” इति ।

अथो तदधिपतिः भ्रातृनाथेन दृष्टः भौमयुक्तश्च स्वक्षेत्रे स्थितश्चेत् । अलम-त्यन्तं भ्रातृराज्ये गृहं लभते । तथा चोक्तं ग्रन्थान्तरे—

“ भ्रातृकारकसंयुक्ते भ्रातृनाथेन वीक्षिते ।

क्षेत्रे तदीश्वरे वापि भ्रातृस्थाने गृहं वदेत् ॥ ” इति ॥ २ ॥

तुर्येशे कर्मसंस्थे हिबुकमपि गते कर्मनाथे बलाढ्ये

भौमेऽनेकं गृहं वाऽनुभवति मनुजो भूरि(क्षेत्रं)[भूमिं] हि तूर्णम् ।  
शुके क्षेत्रे तदीशे स्मरभवनगते तत्पयोर्मैत्रयोगे  
कालत्रं स्थानमेवं पितृसुतसहजस्थाननाथाश्च तेषाम् ॥ ३ ॥

तुर्येश इति । तुर्येशे गृहेशे कर्मसंस्थे कर्मनाथे हिबुकं गते भौमे बलाढ्ये  
सति मनुजः अनेकं गृहं भूरि क्षेत्रं वा अनुभवति । हि निश्चितम् ।

तथा चोक्तं केरलकल्पद्रुमे—

“ गृहेशे कर्मराशिस्थे कर्मेशे गृहमागते ।  
बलयुक्ते धरासूनौ बहुक्षेत्रं विनिर्दिशेत् ॥ ” इति ।

शुके कलत्रकारके क्षेत्रे तदीशे स्मरभवनगते तत्पयोस्तदीशयोः मैत्रयोगे  
सति कलत्रस्थानमनुभवति । एवं पितृसुतसहजस्थाननाथाश्चेत्तेषां पित्रादीनां  
स्थानमादेश्यम् । तथा चोक्तं सारसङ्ग्रहे—

“ कलत्रकारके क्षेत्रे तदीशे वा कलत्रभे ।  
तदीशयोस्तथा मैत्रै कलत्रक्षेत्रमादिशेत् ” इति ॥ ३ ॥

तच्चादेश्यं सुधीभिस्त्वथ हिबुकपतिर्मन्दस्वर्भानुयुक्तो

दृष्टः क्षोणीभुवा चेच्छुभगगनचरैर्दृष्टिहीनश्शिलार्तिः ।

यानाधीशे बलाढ्ये शुभस्वचरयुते वाहने सौम्ययुक्ते

दृष्टे यानादिकानां फलमनुभवते मानवो मानवानाम् ॥ ४ ॥

तदिति । अथ हिबुकपतिः मन्दस्वर्भानुयुक्तः शनिराहुयुक्तः शुभगगनचरैः  
शुभग्रहैः दृष्टिहीनः क्षोणीभुवा कुजेन दृष्टश्चेत् शिलार्तिः शिलापीडा स्यात् । तथा-  
चोक्तं भाष्ये—

“ सुखेशे राहुमन्दाभ्यां सहिते कुजवीक्षिते ।

शुभदृष्टिविहीने तु शिलाभिः पीडितो भवेत् ॥ ” इति

यानाधीशे वाहनेशे बलाढ्ये बलयुते शुभरवचरयुते सति वाहने सौम्य-  
युक्ते शुभयुक्ते दृष्टे सति मानवानां मध्ये मानवः यानादिकानां फलमनुभवते ।  
तथा चोक्तं केरलभाष्ये --

“ वाहनेशे बलयुते वाहने शुभसंयुते ।

शुभग्रहेण संदृष्टे वाहनादि फलं वदेत् ॥ ” इति ॥ ४ ॥

नीचैःपापैर्युतश्चेद्बृहदयपतिरं विक्रयक्षेत्रकादिः

नाथो ताताधिनाथो हृदयमपि गतः पापयुक्तश्च राज्ञः ।

कोपाद्विक्रीत(क्षेत्र[भूमि]स्त्वथ यदि हृदयं भानु(क्षीणे)[कृष्णे]न्दुयुक्तं

कापट्ये मानवस्यात्क्षणमथ रहितो दम्भहिंसादिभिश्च ॥ ५ ॥

नीचैरिति । हृदयपतिः नीचैः पापैर्युतश्चेत् अरमत्यन्तं ना नरः विक्रय-  
क्षेत्रकादिः भवति । तथा ताताधिनाथः राज्याधिपः पापयुक्तः हृदयक्षेत्रं गतश्चेत्  
राज्ञः कोपात् विक्रीतक्षेत्रः । अथ भानुक्षीणेन्दुयुक्तं यदि मानवः कापट्यः  
[कपटः] । अथ दम्भहिंसादिभिः रहितः? ॥ ५ ॥

वाच्यं सैन्याधिपत्यं सुखभवनपतिर्लम्पगश्चेत्तदाथो

साङ्गाधीशस्स एवानुभवति मनुजःश्रेष्ठमश्वं च नूनम् ।

अम्बा तत्स्थानपौ चेच्छुभखगसहितौ सौख्यशय्यादि वाच्यं

चाथो पातालनाथो नवमपतियुतो वाहनं राजमूलात् ॥ ६ ॥

इति श्रीभेनशेखरदासविरचिते जातकरत्नाकरे बन्धुभावफलतरङ्गश्चतुर्थः ।

वाच्यमिति । सुखभवनपतिः लम्पगश्चेत् तदा सैन्याधिपत्यं वाच्यम् । अथो  
स एव साङ्गाधीशः लम्पाधिपसहितश्चेत् मनुजः श्रेष्ठमश्वमनुभवति नूनम् । अम्बा  
तत्स्थानपौ वाहनवाहनाधिपौ शुभखगसहितौ चेत् सौख्यशय्यादि वाच्यम् । अथो  
पातालनाथः नवमपतियुतश्चेत् राजमूलात् वाहनं वाच्यं, ज्योतिर्विदेति शेषः ।

॥ इति श्रीभेनशेखरदासविरचितायां तरणिप्रकाशिकाख्यायां  
जातकरत्नाकरटीकायां चतुर्थभावफलं समाप्तम् ॥

॥ पञ्चमभावफलम् ॥

अधुना पञ्चमभावफलं श्लोकाष्टकेनाह—अनेन पुत्रादिचिन्ता कर्तव्या ।

पुत्रस्थानाधिपश्चेत्त्रिकभवनगतः पुत्रहीनो नरस्स्यात्  
केन्द्रे कोणे गतो वा कुशलतनयवान् बुद्धिविद्यादियुक्तः ।  
वाक्स्थानेशो गुरुर्वा शुभविहगयुतो वीक्षितः पुत्रभावे  
पुत्राप्तिश्चात्र दृष्टे दितिसुतगुरुणा वाक्पतौ सा बलाढ्ये ॥ १ ॥

पुत्रस्थानाधिप इति । पुत्रस्थानाधिपः त्रिकभवनगतश्चेन्नरः पुत्रहीनस्स्यात् ।  
अथवा केन्द्रे कोणे गतश्चेत् कुशलतनयवान् बुद्धिविद्यादियुक्तः । वाक्स्थानेशः  
गुरुर्वा शुभविहगयुतः वीक्षितः शुभेक्षितः पुत्रभावे पुत्रस्थाने स्थितश्चेत् पुत्राप्तिः ।

तथा चोक्तं भाष्ये—

“पुत्रस्थाने तदीशे वा गुरौ वा शुभवीक्षिते ।  
शुभैर्वा सहिते वापि पुत्रप्राप्तिर्न संशयः ॥” इति ।

वाक्पतौ जीवे बलाढ्ये दितिसुतगुरुणा दैतेयगुरुणा दृष्टे अत्र पुत्रभावे स्थिते  
सति सा पुत्राप्तिः स्यात् ।

तथा चोक्तं सारावल्याम्—

“पुत्रस्थानगते जीवे परिपूर्णबलान्विते ।  
दृष्टे दैतेयगुरुणा पुत्रप्राप्तिर्न संशयः ॥” इति ॥ १ ॥

लम्बस्थानाधिपश्चेत्तनयगृहगतस्तपतिः संबलाढ्ये  
वागीशः पूर्णवीर्यः कुशलतनयवान् मानवो लोकपूज्यः ।  
भावाधीशे सपापे त्वशुभयुजि गृहे कारके पापयुक्ते  
पुत्रे नाशो नराणामथ यदि तनयो राहुयुक्तः कुपुत्रः ॥ २ ॥

लम्बस्थानाधिप इति । लम्बस्थानाधिपः तनयगृहगतः तपतिः संबलाढ्यः  
वागीशः पूर्णवीर्यश्चेत् मानवः कुशलतनयवान् लोकपूज्यश्च ।

तथा चोक्तं चिन्तामणौ—

“ लग्नेशे पुत्रभावस्थे पुत्रेशे बलसंयुते ।

परिपूर्णबले जीवे पुत्रप्राप्तिर्न संशयः ॥ इति ।

भावाधीशे पञ्चमेशे सपापे सति गृहे भावे अशुभयुजि सति । युजेः क्तिप्-  
प्रत्ययः । कारके पापयुक्ते सति एको योगः । नराणां पुत्रनाशो भवतीति शेषः ।

तथा चोक्तं भाष्ये—

पाप(नाथे)[युक्ते] तु तद्भावे तदीशे तु तथास्थिते ।

कारके पापसंयुक्ते पुत्रनाशं वदेत्तथा ॥

अथ तनयः पुत्रस्थानं राहुयुक्तः यदि कुपुत्रो भवति ॥ २ ॥

मेषो वा वृश्चिको वा तनुरसितयुतो रन्ध्रगेहं समित्तं

पुत्रं चेत्सौम्ययुक्तेक्षितमपि मनुजो दीर्घकालं प्रजावान् ।

लग्ने तुयै सपापे तनयगृहगते चन्द्रपुत्रे च पापैः

युक्ते भावे न दृष्टं तनयसुखमरं मानवेनात्र योगे ॥ ३ ॥

मेष इति । मेषो वा वृश्चिको वा तनुर्लग्नं असितयुतः शनियुतः रन्ध्रगेहं  
समित्तं ससूर्यं पुत्रं पुत्रस्थानं सौम्ययुक्तक्षितं चेत् मनुजः दीर्घकालं बहुकालमित्यर्थः ।  
'कालाध्वनो'रिति द्वितीया । प्रजावान् । लग्ने तुयै सपापे सति चन्द्रपुत्रे बुधे  
तनयगृहगते पञ्चमराशियुक्ते सति भावे पापैर्युक्ते सति एको योगः । अत्र योगे  
मानवेन अरमत्यन्तं तनयसुखं न दृष्टं न दृश्यते । दशैः कर्मणि क्तप्रत्ययः ।

तथा चोक्तं भाष्ये—

“ रन्ध्रात्मजे पञ्चमराशियुक्ते लग्ने सुखे वा यदि पापयुक्ते ।

शुभेतरैः पञ्चमराशियुक्ते न दृश्यते पुत्रसुखं हि तेन ॥ ” इति ॥ ३ ॥

बुद्धिस्थानाधिपश्चेत्कुमुदपतिसुतः सौम्ययुक्तेक्षितो वा

बुद्धिस्थानं ससौम्यं सपदि च कुरुते तीर्थयात्रादिबुद्धिम् ।

वागीशे पूर्णवीर्ये शुभविहगदृशो गोचरे भावनाथे

तत्स्थाने गेहसौम्ये प्रबलमतियुतो मानवो लोकपूज्यः ॥ ४ ॥

बुद्धिस्थानाधिप इति । कुमुदपतिसुतः सौम्यः बुद्धिस्थानाधिपश्चेत् । अथ वा सौम्ययुक्तेक्षितश्चेत् बुद्धिस्थानं ससौम्यञ्च चेन्मानवः सपदि तीर्थयात्रादिबुद्धिं कुरुते ।

तथा चोक्तं भागवे—

“ बुद्धिस्थानाधिपे सौम्ये शुभदृष्टिसमन्विते ।  
बुद्धिस्थानगते सौम्ये तीर्थबुद्धिं विनिर्दिशेत् ॥ ” इति

वागीशे पूर्णवीर्ये सति भावनाथे शुभविहगदृशो गोचरे सति । शुभदृष्टे सतीत्यर्थः । तत्स्थानेशे सौम्ये सति एको योगः । मानवः प्रवल्मतियुतः लोक-पूज्यश्च भवतीति शेषः ।

तथा चोक्तं सर्वार्थचिन्तामणौ—

“ कारके बलसम्पूर्णे तदीशे शुभवीक्षिते ।  
बुद्धिस्थानाधिपे सौम्ये ती(त्र)[र्थ]बुद्धिं विनिर्दिशेत् ॥ ” इति ४ ॥

भावे दृष्टे च युक्ते शुभगगनचरैर्वाक्पतौ केन्द्रकोणे  
प्रज्ञावांश्चाथ केन्द्रे शुभखगसहिते स्थानपेऽप्युच्युक्ते ।  
सन्मन्त्री राजपूज्यो भवति खलु नरश्चाथ भावस्सपाप-  
स्तत्स्थानेशोऽपि तद्वत्सुतमतिरहितो मन्त्रहीनश्च नूनम् ॥ ५ ॥

भाव इति । भावे बुद्धिराशौ शुभगगनचरैः युक्ते दृष्टे च सति वाक्पतौ केन्द्रकोणे स्थिते सति नरः प्रज्ञावान् बुद्धिमान् । तथा चोक्तं ग्रन्थान्तरे—

“ शुभग्रहैस्तु संदृष्टे बुद्धिराशौ समन्विते ।  
गुरौ केन्द्रत्रिकोणे वा बुद्धिर्मागविशारदः ॥ ” इति

अथ स्थानपे पञ्चमेशे शुभखगसहिते उच्चयुक्तेऽपि केन्द्रे स्थिते सति नरः सन्मन्त्री राजपूज्यो भवति खलु । तथा चोक्तं ग्रन्थान्तरे—

“ बुद्धिस्थानेश्वरे केन्द्रे शुभग्रहसमन्विते ।  
उच्चग्रहसमायुक्ते ग्रहणादिपतिर्भवेत् ॥ ” इति

अथ भावः पञ्चमः सपापः तत्स्थानेशोऽपि तद्वत् सपाप इत्यर्थः । चेत्  
सुतमतिरहितः मन्त्रहीनश्च नूनम् । तथा चोक्तं सारावल्याम्—

“पञ्चमे पापसंयुक्ते तदीशे पापसंयुते ।  
बुद्धिनाशस्तथा प्रोक्तः” इति ॥ ५ ॥

द्विपापो वा त्रिपापो यदि तनयगतो वन्ध्यतोक्ता द्वयोर्वा  
चाथो सूर्येन्दुगोहस्तनुज अपि भवेत्तत्फलत्वञ्च वाच्यम् ।  
केन्द्रे कोणे स्थितो वा सुरपतिगुरुणा वीक्षितः कारकर्क्षा-  
धीशश्चेन्मानवः स्यात्कुशलमतियुतश्चेद्भित्तज्ञः परेषाम् ॥ ६ ॥

द्विपाप इति । द्विपापः त्रिपापो वा तनयगतः यदि द्वयोस्त्रीपुरुषयोः  
बन्धत्वमुक्तम् । तथा चोक्तं भाष्ये—

“पुत्रस्थाने द्विपापो वा त्रिपापो वा यदा भवेत् ।  
तदा स्त्रीपुरुषौ वन्ध्यौ विज्ञेयौ पापवीक्षितौ ” ॥ इति

अथो तनुजो भावः सूर्येन्दुगोहः भवेद्यदि तत्फलत्वं वन्ध्यत्वं वाच्यम् ।  
अपि निश्चितम् । कारकर्क्षाधीशः कारकस्थितभावपः सुरपतिगुरुणा कारकग्रहेण  
वीक्षितः केन्द्रे कोणे वा स्थितश्चेन्मानवः कुशलमतियुतः परेषामिद्भित्तज्ञश्च स्यात् ।  
मेधावी परहृद्गतभावज्ञः स्यादित्यर्थः । तथा चोक्तं केरलचन्द्रोदये—

“परेद्भित्तज्ञो मेधावी कारकस्थितभावपे ।  
केन्द्रत्रिकोणसंयुक्ते कारकग्रहवीक्षिते ॥ ” इति ॥ ६ ॥

सम्बन्धे सूर्यसूनोस्तनयतनुपयोर्बुद्धिजाड्यं किलोक्तं

चाथो पुंराशिगश्चेत्पुरुषगृहयुतः पुंग्रहः पञ्चमेशः ।

आदौ पुत्रस्य जन्म त्वरितमथ यदा स्त्रीग्रहश्चैवमादौ

स्त्रीजातं क्लीबखेटा यदि भवति तथा क्लीबजातञ्च वाच्यम् ॥ ७ ॥

सम्बन्ध इति । तनयतनुपयोः पञ्चमलम्पयोः सूर्यसूनोश्शनेः सम्बन्धे  
बुद्धिजाड्यमुक्तम् । अथो पञ्चमेशः पुंग्रहः पुरुषगृहयुतः पुंराशिगश्चेत् आदौ पुत्रस्य

जन्म त्वरितमुक्तम् । अथ एवं स्त्रीग्रहश्चेत् आदौ स्त्रीजातमुक्तम् । क्लीबखेटः  
तथा भवति यदि आदौ क्लीबजातं वाच्यम् । वचेः कर्मणि घञ्प्रत्ययः ॥ ७ ॥

भ्रातृस्थःकोशनाथस्युखभवनगतः पञ्चमेशशुभोच्चैः

युक्तश्चेद्भाग्ययुक्तो भवति खलु नरः कीर्तिमान्धार्मिकश्च ।

विद्यास्थानाधिपश्चेत्त्रिकभवनगतसौम्यवागीशयुक्तो

विद्याहीनो जनस्स्यात्तदनु यदि गतः केन्द्रकोणेषु तद्वान् ॥ ८ ॥

॥ इति श्रीभेनशेखरदासविरचितजातकरत्नाकरे सुतभावफलतरङ्गः पञ्चमः ॥

भ्रातृस्थ इति । कोशनाथः भ्रातृस्थः पञ्चमेशः शुभोच्चैः शुभोच्चखेटैः युक्तः  
सुखभवनगतश्चेत् नरः सद्भाग्ययुक्तः कीर्तिमान् धार्मिकश्च भवति खलु । तथाचोक्तं  
केरलकल्पद्रुमे—

“ द्वितीयेशे तृतीयस्थे पञ्चमेशे सुखं गते ।

शुभोच्चखेटसंयुक्ते जातो भोगयुतो भवेत् ” ॥ इति

विद्यास्थानाधिपः सौम्यवागीशयुक्तः बुधगुरुसहितः त्रिकभवनगतश्चेत् जनः  
विद्याहीनस्स्यात् । तदनु केन्द्रकोणेषु गतो यदि जनस्तद्वान् विद्यावान् स्यात् ।  
तथा चोक्तं जातकालङ्कारे—

“ विद्यास्थानाधिपो वा बुधगुरुसहितश्चेत्त्रिके वर्तमानः

विद्याहीनो नरस्स्यादथ नवमजक्षेत्रकेन्द्रेषु तद्वान् ॥ ” इति ॥ ८ ॥

॥ इति श्रीभेनशेखरदासविरचितायां तरणिप्रकाशिकाख्यायां

जातकरत्नाकरटीकायां पञ्चमभावफलं समाप्तम् ॥

## ॥ षष्ठभावफलम् ॥

अधुना षष्ठभावफलं श्लोकाष्टकेनाह—अनेन परचोरक्षतविघ्नक्लेशादयो वक्तव्याः ।

षष्ठस्थानाधिपश्चेदशुभखगयुतो लग्नगो रन्ध्रगो वा  
 देहे नृणां व्रणास्स्युः शिरसि दिनकरश्चेति तत्स्थानगामी ।  
 वक्तू चन्द्रोऽथ कण्ठे यदि धरणिस्तुतो रौहिणेयो हृदि स्या-  
 द्वागीशो नाभिदेशेऽक्षिण च भृगुतनयसूर्यसूनुश्च पादे ॥ १ ॥

षष्ठस्थानाधिपः इति । षष्ठस्थानाधिपः अशुभखगयुतः लग्नगः चन्द्रगो वा चेत् नृणां देहे व्रणास्स्युः । देहे कुत्र व्रणास्स्युरिति चेत्तदाह षष्ठस्थानाधिपः दिनकरः इति । तत्स्थानगामी लग्नगो वेत्यर्थः । रन्ध्रगः चेत् शिरसि व्रणाः स्युः । चन्द्रश्चेत् वक्तू, धरणिस्तुतश्चेत् कण्ठे, रौहिणेयस्स्याच्चेत् हृदि, वागीशश्चेत् नाभिदेशे, भृगु-तनयश्चेत् अक्षिण-नेत्रे, चशब्दात्पृष्ठे च, सूर्यसूनुश्चेत् पादे चरणे, राहुकेतू चेत् अधरे व्रणाः स्युः । भ्रात्रादिभावान् लग्नवत्कल्पयित्वा तेषामप्येवं फलं वाच्यम् । तथा चोक्तं जातकालङ्कारे—

“ षष्ठेशो पापयुक्ते तनुनिधनगते नुश्शरीरे व्रणास्स्यु-  
 श्चादेश्यं तज्जनित्री जनकस्तुतवधूवन्धुमित्रादिकानाम् ।  
 इत्थं तत्स्थानगामी शिरसि दिनमणिश्चानने शीतभानुः  
 कण्ठे भूमीतनूजौ हृदि शशितनुजो वाक्पतिर्नाभिमूले ॥  
 नेत्रे पृष्ठे च शुक्रो दिनमणितनयः स्यात्पादे वाधरे चेत्  
 केतुर्वा सैहिकेय इति ॥ १ ॥

ओष्ठे राहुश्च केतुस्तदनु तनुपतिर्वैरिनाथेन युक्तः  
 केन्द्रे कोणे गतो वानुभवति मनुजो बन्धनं तरक्षणञ्च ।  
 साब्जारिर्वा सकेतुर्यदि च स तु तदा तद्रतश्शृङ्खलार्ति  
 चाथो धर्मे शनौ वा गुस्त्युजि सहजे बाहुभिन्नं लये वा ॥ २ ॥

ओष्ठ इति । तदनु तनुपतिः लग्नपतिः वैरिनाथेन षष्ठाधिपेन युक्तः केन्द्रे कोणे वा गतश्चेत् तरक्षणम् । कालाध्वनोरिति द्वितीया । मनुजः बन्धनमनुभवति ।

सः वैरिनाथेन युक्तस्तनुपतिः साब्जारिः सराहुः—“अब्जो जैवातृकस्सोमः” इत्यमरः । सकेतुर्वा तद्गतः तत्र गतो यदि तदा मनुजः शृङ्खलार्तिं निगडादि-बन्धनमनुभवति । अथो धर्मे शनौ स्थिते सति सहजे तृतीये गुरुयुजि सति लये वा । युजेः क्लिप्प्रत्ययः । बाहुभिन्नमनुभवति । तथा चोक्तं केरलचन्द्रोदये —

“धर्मे शनौ वा सगुरौ तृतीये करच्छिदेको निधने व्यये वा ।”

इति ॥ २ ॥

कर्मस्थस्यापि योगे शनिबुधतमसां पादभिन्नो नरस्या-

चाथो राहर्कयुक्तस्तनुगशुभस्वगेनेक्षितसूर्यपुत्रः ।

शस्त्रैस्सम्भिन्नकुक्षिस्तदनु रविसुते राहुदृष्टे शशाङ्के

क्षीणे संछिन्नमूर्धा भवति खलु नरो नीचसंसर्गयुक्तः ॥ ३ ॥

कर्मस्थस्येति । कर्मस्थस्य कर्माधिष्ठितप्रत्यूहस्य शनिबुधतमसां योगे नरः पादभिन्नस्यात् । अथो सूर्यपुत्रः राहर्कयुक्तः तनुगशुभस्वगेन लम्बाधिष्ठितशुभग्रहेण ईक्षितश्चेत् शस्त्रैस्सम्भिन्नकुक्षिस्यात् । तदनु क्षीणे शशाङ्के रविसुते च राहुदृष्टे सति नरः नीचसंसर्गयुक्तः अत एव संछिन्नमूर्धा भवति खलु ॥ ३ ॥

भावेशे पापयुक्ते रिपुभवनगते पापदृष्टे च भानौ

पित्तार्तिश्चन्द्रयोगे भवति खलु नृणां वैरिणो वातरोगः ।

एवं भौमादियोगे क्षतजमरुतरुग्वातश्लेष्मातिसारा-

विस्फोटव्याधिबाधा भवति च विविधा क्षिप्रमादौ पिशाची ॥ ४ ॥

भावेश इति । भानौ पापयुक्ते रिपुभवनगते सति भावेशे भावे तदीशे च पापयुक्ते पापदृष्टे च सति एको योगः नृणां पित्तार्तिः भवति खलु । तथा चोक्तं भाष्ये—

“रोगस्थानगते सूर्ये तद्भावे पापसंयुते ।

पापदृष्टियुते भानौ पैतिकोल्बणमादिशेत्” ॥ इति

वैरिणः षष्ठस्य चन्द्रयोगे वातरोगः । एवं भौमादियोगे आदिशब्देन बुधबृहस्पतिशुक्रशनिराहुकेतवः । एषां योगे आदौ तत्तद्ग्रहाणां दशान्तर्दशादौ क्षिप्रं

क्षतजमरुद्भुक्च रक्तवातरोगश्च वातश्लेष्माचातिसारश्च आविस्फोटव्याधिबाधा च प्रभवति । विविधा पिशाची नानाविधपैशाचीबाधेत्यर्थः । भवति ॥ ४ ॥

दृष्टे भौमार्कयुक्ते दनुसुतगुरुणा वैरिभावे क्षयार्तिः

चाथो दृष्टश्च तत्स्थो रविफणिकुभुवा सौम्यदृष्ट्या वियुक्तः ।

कासश्वासक्षयार्तिस्त्वथ जलजगते चोडुनाथे हि षष्ठे

तत्स्थानेशे जलर्क्षाधिपतिशशधरेणेक्षिते मूत्रकृच्छ्री ॥ ५ ॥

दृष्ट इति । वैरिभावे षष्ठभावे भौमार्कयुक्ते दनुसुतगुरुणा शुकेण दृष्टे सति क्षयार्तिः । अथ तत्स्थः षष्ठस्थः ग्रहः सौम्यदृष्ट्या वियुक्तः शुभग्रहदृष्टिरहित इत्यर्थः । रविफणिकुभुवा वा रविराहुभौमेन । समाहारे एकवद्भावः । दृष्टश्चेत् कासश्वासक्षयार्तिस्स्यात् । उडुनाथे चन्द्रे जलजगते सति तत्स्थानेशे जलराशीशे षष्ठे स्थिते सति एको योगः । तत्स्थानेशे जलर्क्षाधिगतशशधरे जलराश्यधिष्ठितचन्द्रेण ईक्षिते सति एको योगः मूत्रकृच्छ्री स्यात् ।

तथा चोक्तं भाष्ये —

“ जलराशिगते चन्द्रे षष्ठे तद्भवनाधिपे ।

जलक्षैथ्येन्दुना दृष्टे मूत्रकृच्छ्रं विनिर्दिशेत् ॥ ” इति ॥ ५ ॥

देहेशे पापयुक्ते व्ययनिधनगते क्रूरखेटे च षष्ठे

युक्ते सूर्यात्मजेन्दावनुभवति जनो रोगपीडां कृशत्वम् ।

निर्वीर्ये वारिनाथे तनुभवनगते भूमिसूनौ नराणां

गुल्मो वा विद्रधिर्वा प्रभवति नितरां मेषवक्त्रादिरोगः ॥ ६ ॥

देहेश इति । सूर्यात्मजेन्दौ शनिचन्द्रे । समाहारे एकवद्भावः । षष्ठे युक्ते सति । [मिथ इति शेषः] । क्रूरखेटे पापग्रहे निधनव्ययगते सति, देहेशे लग्नेशे पापयुक्ते च सति एको योगः । तदा जनः रोगपीडां तत एव कृशत्वमनुभवति ।

तथा चोक्तं केरलकल्पद्रुमे—

“ षष्ठे चन्द्रशनौ रन्ध्रे व्यये लग्ने विलग्नो ।

पापयुक्ते रोगपीडा वाच्या तज्जैर्जनैरपि ॥ ”

अरिनाथे निर्वीर्ये बलहीने सति भूमिस्नौ भौमे तनुभवनगते सति नराणां  
नितरां गुल्मो वा विद्रधिर्वा मेषवक्त्रादिरोगो वा प्रभवति ।

तथा चोक्तं केरलद्रुमे—

“ बलहीनेऽरिनाथे वा लम्बस्थे वा धरासुते ।  
क्षयार्तिर्मुखरोगी वां शुक्लविद्रधिभाक् भवेत् ” ॥ इति ॥ ६ ॥

केन्द्रस्थः पापदृष्टो यदि च रिपुपतिः पापबाहुल्ययुक्तः  
षष्ठो वा शत्रुपीडा भवति किल नृणां शत्रुदेशे निवासः ।  
शत्रुस्थो लम्बनाथो यदि च तदधिपो लम्बगः शत्रुबाधा  
चाथो नीचादियुक्तो रिपुभवनपतिः शत्रुनाशश्च वाच्यः ॥ ७ ॥

केन्द्रस्थ इति । रिपुपतिः पापदृष्टः केन्द्रस्थः यदि, षष्ठो वा पापबाहुल्ययुक्तः  
यदि नृणां शत्रुपीडा शत्रुदेशे निवासश्च भवति किल ।

तथा चोक्तं केरलभाष्ये—

“ शत्रुस्थानाधिपे केन्द्रे पापग्रहनिरीक्षिते ।  
षष्ठे वा पापबाहुल्ये शत्रुपीडां विनिर्दिशेत् ” ॥ इति ।

लम्बनाथः शत्रुस्थः षष्ठस्थः तदधिपः शत्रुपो लम्बपो यदि शत्रुबाधा वाच्या ।

तथा चोक्तं ग्रन्थान्तरे—

“ लग्नेशे शत्रुराशिस्थे तदीशे लम्बमाश्रिते ।  
शत्रुपीडदिकं वाच्यमिति केरलनिश्चितम् ” ॥ इति ।

अथो रिपुभवनपतिः नीचादियुक्तो यदि शत्रुनाशः वाच्यः । वचेः कर्मणि  
प्यत्प्रत्ययः ॥ ७ ॥

भावेशे सौम्यदृष्टे शुभखगसहिते सौम्य(क्षेत्रे)[लग्ने]ऽरिनाशः

चाथो भावेशयुक्ते तनुपकविगुरौ राहुशन्यारयुक्तौ ।

वाच्या ज्ञातेश्च पीडा तदनु सुरगुरुवैरिभावाधिपश्चे-

ज्जातेर्बाहुल्यमुक्तं त्वथ प्रियमधुरस्तत्पतिश्शुक इज्यः ॥ ८ ॥

इति श्रीभेनशेखरदासविरचिते जातकरत्नाकरे वैरिभावफलतरङ्गण्डः ।

भावेश इति । भावेशे शत्रुस्थानाधिपे सौम्यदृष्टे शुभखगसहिते सौम्यक्षेत्रे सति अरिनाशः वाच्यः ।

तथा चोक्तं केरलभार्गवे—

“ शुभग्रहेण संदृष्टे शत्रुस्थानाधिपे तथा ।  
शुभान्विते शुभक्षेत्रे शत्रुनाशं विनिर्दिशेत् ” ॥ इति ।

अथो तनुपकविगुरौ लम्पशुकबृहस्पतौ । समाहारे एकवद्भावः । राहुशन्यार-  
युक्ते सति ज्ञातेः पीडा वाच्या ।

तथा चोक्तं सर्वार्थचिन्तामणौ—

“ गुरुशुकविलम्बनेशाः षष्ठभावेश्वरान्विताः ।  
शन्यारफणिसदृष्टा ज्ञातिपीडां विनिर्दिशेत् ॥ ” इति ।

तदनु सुरगुरुः बृहस्पतिः वैरिभावश्चेत् ज्ञातेर्बाहुल्यमुक्तं । अथ शुकः  
इज्यः बृहस्पतिर्वा तत्पतिः षष्ठपतिश्चेत् प्रियमधुरः जन इति शेषः । अग्न्याहित-  
वत्पूर्वनिपातः ।

तथा चोक्तं ग्रन्थान्तरे—

“ देवेज्ये षष्ठभावेशे शुक्रे वा तस्य नायके ।  
मधुरत्वं प्रियं वाच्यमिति केरलनिश्चयः ” ॥ इति ।

एवं सर्वत्र पित्रादीनां चिन्त्यम् ॥ ४ ॥

॥ इति श्रीभेनशेखरदासविरचितायां तरणिप्रकाशिकाख्यायां  
जातकरत्नाकरटीकायां षष्ठभावफलं समाप्तम् ॥

# கட்டி மகிபன் பள்ளி

(வால்யூம் xiii, பாகம் I, பக்கம் 68-ஆவதன் தொடர்ச்சி)

EDITED BY

Vidvān V. S. KRISHNAN

பள்ளன் ஆயர்பாடி நாடிச் செல்லல்

கலிப்பா

வெத்திகட்டி யண்ணல்பண்ணை விபரமெல்லாங் கேட்டபின்பு  
எத்திசைசூழ் நல்வயலுக் கெருவை(ய)க்க வேணுமென்று  
உத்திபண்ணைக் காரன்உ ரைத்திடக்கண் டிதஞ்சொல்  
பத்தியுட னேஆயர் பதிநாடிச் சென்றதுவே. [பள்ளன் (116)

பட்டி போடுதற்கு இடையர் ஆட்டுமந்தை  
ஓட்டி வரல்

சிந்து

பருசுள்ள கட்டியண்ணன் பண்ணைக் கெருநிறுத்த  
வருதிர ளாடு கொண்டு வருவ னென்றே  
கருதிக் குடும்பன் பண்ணைக் காரன்கை விடைகொண்டு  
திருவிள ராயர்மனை தேடிக் கண்டார். (117)

சிந்து

கண்டவு டனிடையர் கண்களி கூர்ந்து பள்ளன்  
விண்டசொற் படிவழி விதவிதமாய்  
கொண்டல்தி ரள்போலாடுங் குடர்ப்புக்குட் டியுங்கொண் ட  
மண்டிப் பட்டிகள் போட வந்தனரே. (118)

## கலிப்பா

பொதுவர் வயல்நாடி. போனபின்பு பள்ளனவன்  
 இதமென் றினையபள்ளி இல்லில் கிடையானான்  
 விதமறிந்து மூத்தபள்ளி வெகுண்டுபண்ணைக் காரனாடன்  
 முதிராய்ப்பள் ளனைப்பேசி முனிந்துமுறை  
 [யிட்டாளே. (119)

## இதுவுமது

## சிந்து

நற்புத்தி யசந்தான் - இனையவள்  
 தூர்ப்புத்திக் கிசைந்தான்  
 நான்சொன்ன நடத்தைக்குள் ளாகான்  
 அவள்மனை யிடத்தைவிட் டேகான்  
 முற்பகைப் பள்ளன் அவன்வெகு  
 சற்பினைக் கள்ளன் செந்நெல்  
 வயல்மு ளைத்த தைப்பாரான்  
 நான்போ யழைத்தாலும் வாரான்  
 நெற்பொதி யெட்டும்பெய் தண்ணிக்களைக்கு  
 இரைத்திட்டான் பொட்டி மகன்  
 நீலனைச் சதிப்பா நென்னைக்  
 கண்டா லாலம்போல் கொதிப்பான்  
 சொற்படிக் கடங்கான் வேலைக்குவைப்  
 பிட்டுத் துடங்கான் பள்ளனைத்  
 துடிப்புடன் பிடித்துக் குட்டையில்  
 அடிப்பீர்கா ணண்டே. (120)

பள்ளன் பண்ணைக்காரர் எதிரில் செல்லல்

## கலிப்பா

வச்சிரபுயன் கட்டியண்ணன் வளர்பண்ணை யாண்டவன்முன்  
 குச்சிதமே மூத்தபள்ளி கூறியவ னேகினபின்  
 இச்சையுட னேவயலுக் கெருவைத்தே நென்றுபள்ளன்  
 அச்சம் புகன்றுபண்ணைக் கதிபனெதிர் சென்றானே. (121)

**பள்ளன் எருவைத்த நிலங்களைப் பற்றிக் கூறல்**

சீந்து

திருநயி னுசல நிலத்திலையுஞ்  
 சின்ன வாழைக்கட்டை வயலிலையும்  
 அருள்பட மாகிய பிள்ளைவயல்  
 ஆனைக்குட் டிபிள்ளை நிலத்திலையும்  
 பெரியவாழைக்கட்டை அரசடியும்  
 பெயர்முத்து ராவுத்தன் செய்யிலையும்  
 தருபுளி யாலடி நிலத்திலையும்  
 தண்திகழாத்தடி நிலத்திலையும் ; (122)

கட்டைக் காட்டுமூலை நிலத்திலையுங்  
 கண்டுமாத் திகுன்னி யடிதனிலும்  
 எட்டிய சேரமான் தோப்படியும்  
 இறக்காள் மானியங் கருக்கடியும்  
 நெட்டுஞ் சமையபுரத் தார்நிலமும்  
 நேர்சின்னப் பாத்திநன் நிலத்திலையும்  
 திட்டம் பெரியபாப் பாத்திவயல்  
 சேய்செறி யாண்டிதன் மானியமும் ; (123)

இயல்குட்டிக் கணக்கன்றன் மானியமும்  
 ஈசுரன் கோவில் மானியமும்  
 சுயகட்டி மாவடி புங்கடியுஞ்  
 சூரப்பய் யன்மா னியநிலமும்  
 அயமிசு தம்பட்ட மானியமும்  
 அதிகபண் ணைக்கிணத் தடிவயலும்  
 மயமுள்ள புளியடி தனிலுமெரு  
 வைப்பித்தே நெங்கள்பண்ணை  
 [யாண்டவனே. (124)

**பள்ளனைக் குட்டையில் போடுதல்**

கலிப்பா

வடிதமிழ்க்குங் கட்டியணன் வயற்கெருவைத் தேனெனவும்  
 படிறுரைத்து நீயினைய பள்ளிவீட் டினிலிருந்து  
 முடிசிவந்தா யென்றுசொல்லி முனிந்துபண்ணைக் காரணவன்  
 கடிசிப்பன் ளனைப்பிடித்துக் கடிந்துகுட்டை  
 [யில்போட்டான். (125)

**இனையபள்ளி பள்ளனைப் பார்த்துப் புலம்பல்**

சிந்து

இனைய பள்ளி கண்டு வாடி  
 யேங்கி பள்ளன் கிட்ட வந்து  
 வளைதல் மூத்த பள்ளி யிந்த  
 வருத்த முன்னைச் செய்து வைத்தாள்  
 பனைய நீலி யைப்போலப்  
 பாடிப் பந்தயஞ் செலுத்தாளே  
 களைகளைத் தாய்நீ பள்ளா  
 கண்டு பாத்துக் கோபள்ளா. (126)

இதுவுமது

பாதகிபொல் லாதகொண்டி பள்ளிபண்ணைக் காரணுடன்  
 சூதாகவே சாடிசொல்லி சூட்டியகுட் டையில்போட்டு  
 வாதிடுங்கு ரூரிவண்ட மல்லியேநீ பெண்டுவைத்து  
 ஏதுபலன் கண்டாய்பள்ளா யென்றுசொல்ல  
 [பள்ளன்சொல்வான். (127)]

இதுவுமது

**பள்ளன் மனம் நொந்து கூறல்**

வண்டியென்று நீமொழிந்த வார்த்தையைக் கேளாமலிந்த  
 தெண்டனைக்கா ளாயிருந்தேன் சிந்தைதளர்ந்  
 [தேமெலிந்தேன்  
 கண்டனைப்பொல் லாதுசெய்யும் கள்ளியேயினி மேல்கூடி  
 பெண்டுவைத்துக் கொள்வதுண்டோ பேதலிப்பீபன் சொல்  
 [வாய்பள்ளி. (128)]

**பள்ளனுக்கு மூத்தபள்ளி சோறுகொண்டு வருதல்**

கலிப்பா

வருகலிசைப் பள்ளிசொன்ன வாறுகண்டு மேகுடும்பன்  
 உருமையு[ந்தன்] புத்தியவட் குண்டாமோ வென்றுசொல்லி  
 பருவமுரைத் தேயினைய பள்ளிதனை யனுப்பினபின்  
 தூரிதமுடன் மூத்தபள்ளி சோறுகொண்டு வந்தாளே. (129)

மூத்தபள்ளி பண்ணைக்காரரிடம் முறையிடல்

சிந்து

மட்டுக் கடங்காத பள்ளனாணக் குட்டையில் போட்டு  
வைத்தவர் நீர்சொல்லும் அய்யா  
கட்டளை எங்களண்ணன் .....யவந்தான் செய்த மென்றே  
கறிசோறெனக் கனுப்பினான்  
சட்டை செய்யாமல் பள்ளன் தன்னைவிட்டு நானிப்பத்  
தனித்துஉண்ண நீதி யல்லவே  
திட்டமுங்க ளடியானுக் கீந்தாலு மென்கைச்சோறு  
முண்பாடே பண்ணை யாண்டவா. (130)

பள்ளனிடம் மூத்தபள்ளி கூறல்

கலிப்பா

விள்ளுதமி மேழூரன் வேல்பழனி வேல்புதல்வன்  
வள்ளல்பொரு ளந்தைகுலன் மால்கட்டி பூபதிக்குங்  
களளமில் லாதபண்ணைக் காரனுடன் சொல்லிவந்து  
பள்ளிபள் ளனைப்பார்த்துப் பலவிதமுஞ்  
[சொல்லுவளே. (131)]

மூத்தபள்ளி பள்ளனிடம் கூறல்

(தொடர்ச்சி)

சிந்து

திருடி மருந்து கள்ளி மயக்கத்தி லேநீயும்  
சிக்கி மயங்கி யென்னைக் கண்டபோ தெல்லாம்  
புரணி பேசியே வெகுண் டெழுந்துவந்து மெத்தப்  
பொங்கிக் கோபங் கொண்டதுந் தெரிந்ததோ  
[பள்ளா  
வருவ தறிந்துநான் சொன்ன துங் கேளாய் ஓடி  
வட்டி வைத்த பக்கமெல்லாம் வாயும் வைத்தாய்  
பொருதுந்தன் வினைதன்னைச் சூழுமென்று தான்நீதி  
புகல்வதும்பொய் யாதடா யேழுருப் பள்ளா. (132)]

## பள்ளன் மூத்தபள்ளியிடம் கூறுதல்

கலிப்பா

மூத்தபள்ளி யிப்படியே முனிந்துசொன்ன சேதியெல்லாம்  
ஏத்திடும்நா ராசமென்ன இருசெவிக்கு மேனுழைய  
பேத்துதலால் நான்செய்த பிழைபொறுத்து நீயுயிப்பக்  
காத்தருள வேணுமென்று கனிந்துபள்ளன்

[சொல்லுவனே. (133)]

இதுவுமது

சிந்து

இந்தவேளைக் கிரங்கியுன் சிந்தைதய வாய்மனது  
இரங்கிக் காப்பாத்தவேணும் ஏழுருப் பள்ளி  
வந்தவிதி போகட்டும் நம்மளுடைய குட்டு  
மார்க்கம் பிறத்திக்குமே வைக்க லாகுமோ  
உந்தனுட சொற்படி தட்டாமல் நடப்பேன் அவள்  
உறவுக்கிணங் கேளுணன் னுணை மெய்யடி  
பந்தயஞ்செய் யாதேகுட்டை வெட்டிவிட வேநீயும்  
பண்ணைக் காரனுக்குச் சொல்லி

[ரட்சிப்பாயோடி. (134)]

இதுவுமது

இத்தநாள் நடந்தகொஞ்சப் புத்திமறந் தேணுனக்  
கேற்க நடப்பேனவ ளிணக்கங் கொள்ளேன்  
சித்தமுங் கலங்கிவெகு பாடும்பட்டேன் நம்மைச்  
சேந்த குடும்பருக் கிகட்சி யாகினேன்  
உத்திபண்ணைக் காரனுக்குந் தினந்தின முங்கோபம்  
உண்டாலுல் நாமளு மெப்படிப் பிழைப்போம்  
வித்தாரத் துடனவர் சித்தந்திரும் பச்சொல்லி  
விடிவிக்க வேணுமெந்தன் ஏழுருப் பள்ளி.

(135)

மூத்தபள்ளி பள்ளனைச் சிறை விடுசெய்யப்  
பண்ணைக்காரரிடம் செல்லல்

கலிப்பா

ஒருசொல்வா சகனாகி உயர்ந்தகட்டி வேள்நாட்டில்  
பரதவித்த பள்ளனையும் பார்த்துமெள்ள மூத்தபள்ளி  
அருளாகி யுன்சிறையை யான்விடுப்பே நென்றுசொல்லி  
கருதரிய செஞ்சொல்பண்ணைக் காரன்முன்பு

[சென்றாளே. (136)]

மூத்தபள்ளி பண்ணைக்காரனிடம் முறையிடல்

சிந்து

வாகாக நானொரு விண்ணப்பஞ் சொல்லக்கேள்  
 ஆண்டே - புத்தி  
 மாறட்ட மாகவே சீராட்டுஞ் சொன்னே ன்காண்  
 ஆண்டே  
 யேகாமல் கையில்.....களவைப் பொறுப்பீர்காண்  
 ஆண்டே - கஞ்சி  
 யிறங்காமல் பள்ளன் வருந்தித் தவிக்கிறுன்  
 ஆண்டே.

(137)

இதுவுமது

ஊழியத் தாலல்ல வோபள்ளன் மன்னிப்பீ  
 ராண்டே - தேவர்  
 உள்ளத்தில் அன்புவைத் திந்தமனுச் சொல்லீ  
 ராண்டே  
 சூழவே யாடிகா லாவதி யாச்சுக்கா  
 ணாண்டே - பள்ளன்  
 தூண்டாமல் பயிரிடு வாருண்டோ சொல்லுங்கா  
 ணாண்டே.

(138)

இதுவுமது

இணக்கமென் றேசாக்குப் பையினில் கையிட்டே  
 ணாண்டே - அதனால்  
 இளப்பம் வருவ தறியாமல் போனே ன்காண்  
 ஆண்டே  
 பிணக்காலென் பிழைப்புக் கிடங்கேடு செய்தே ன்கா  
 ணாண்டே - பேதை  
 பெண்புத்தி யென்பதும் யென்னிடத் தேகாண்  
 ஆண்டே.

(139)

இதுவுமது

பள்ளன்மே லேயொரு தோடமு மில்லைகா  
 ணாண்டே - கள்ளைப்  
 பருகி பக்கத்தில் பேதகஞ் சொன்னே ன்காண்  
 ஆண்டே

உள்ள படிக்குநான் சொல்லாமல் பொய்சொன்னே  
 ணண்டே - இளையாள்  
 ஊடலுக் கேயவன் வாரதி ணுல்சொன்னேன்  
 ஆண்டே. (140)

இதுவுமது

மசகத்தின் மேல்ராம பாணந் தொடுப்பாரேரோ  
 ஆண்டே - உங்கள்  
 மன்னிமை யெங்களுக் கன்றிவே றுண்டோசொல்  
 ஆண்டே  
 உசிதமெ வர்க்குச்சொல்வி விடுவிக் கப் போறேன்கா  
 ணண்டே - பள்ள  
 னுன்னிய குத்தத்தை மன்னிக்க வேணுங்கா  
 ணண்டே. (141)

இதுவுமது

நெருங்குமு லைசரிந்தால் வயிறது தாங்குங்கா  
 ணண்டே - உங்கள்  
 நினைவிற்ப டி.நாங்கள் நடக்க முடியுமோ  
 ஆண்டே  
 வருந்தித் தவிக்குரூன் பள்ளனை விடச்சொல்வி  
 ராண்டே - பள்ளன்  
 வாராமல் தானேடிப் போனாலும் நான்பினை  
 யாண்டே. (142)

பள்ளனைக் குட்டையினின்றும் விடுவித்தல்

கலிப்பா

திட்டமிட்டு மூத்தபள்ளி செப்பிடவே பள்ளனையும்  
 குட்டைவெட்டி விட்டுநல்ல கூர்வரிசை செய்தபின்பு  
 கட்டியணன் செய்யபண்ணைக் காரணுள மேமகிழ  
 மட்டுளநெல் மாடுகிடா வர்க்கமது சொல்லுவனே. (143)

விதை நெல் வகை

சிந்து

ராமபா ணஞ்சேர்ந் தானைகல் ணுண்டை  
 நாகண-லங்கிரா ராயணச் சம்பா  
 தாமன் தேவன்பூம் பாளைகோது மைச்சம்பாச்  
 சீரகச் சம்பா.....க்குத் தாரி

தேழு லாவிய குங்குமச் சம்பா  
 சித்திரக் காலி மசசு முரித்தான்  
 பூமி குங்குள வாளை கத்தூரி  
 போத நெல்வகை யின்னங்கே ளாண்டே. (144)

இதுவுமது

சுருணை வாரி யிலுப்பைப்பூச் சம்பா  
 சூரியச் சம்பா கார்த்திகைச் சம்பா  
 வருணன் மேகன்மிள குண்டைச் சம்பா  
 மனவாரி ஆலங்காரிநெல் வாலான  
 திரணிபே ராவணன் சித்திர வண்ணன்  
 சித்திரக் கொம்பன் காடைக் கழுத்தன்  
 இரணியஞ் சேரு மிவ்வகை நெல்ல  
 தீராயிரங் கோடி யிருக்குதென் னாண்டே. (145)

மாட்டுவகை

வேறு—தரு

நெட்டைக்காலன் புல்லைக்கொம்பன் வெள்ளைக்காளையும்  
 [மயிலை  
 நெத்திச்சுட்டிக் காளைஊசிக் கொம்புக் காளையும்  
 மட்டைக்கொம்பன் செம்மறையன் சுட்டிக் காளையும்  
 வர்ணக்காளை மோழைக்காளை மந்திக் காளையும்  
 முட்டைக்கண்ணன் ஏறுவாலன் சட்டித்தலை யன்கெருட  
 முகவெள்ளைக் காளையுடன் செவலைக் காளையும்  
 கட்டியண பூபதிதன் பண்ணையிலு மும்நல்ல  
 காளையும்தா லாயிரங்க ளாண்டுகா னாண்டே. (146)

இதுவுமது

மத்துக்காலன் கத்திக்கொம்பன் முட்டிக்கால் கிடாஉண்ணிக்  
 காதனுடன் கண்ணிமூக்கன் கூடு கொம்பனும்  
 சுத்தியுமுங் கலப்பையை மெட்டியிழுக் கும்வண்டத்  
 துட்டரைத் துரத்திவெட்டுங் கொட்டுக் கால்கிடா  
 யெத்திசைக்கும் கட்டியணன் பண்ணையிலு மும்பக  
 டேர்பதி னாயிரங்க ளாண்டுகா னாண்டே. (147)

## ஏர் முதலியவற்றின் வகை

வேறு—சிந்து

பெரியகொழு வாயிரம் கொண்டியாயிரம் மேழிப்  
 பெருகும்பு கங்கலப்பை வகைக்கா யிரம்  
 புரிகொண் டிலங்குவட மதிலாயி ரம்சீர்  
 பூட்டுமேர்க் கால்தடி அதில் ஆயிரம்  
 அதிகசே வோட்டியுமுங் கோல்க ளாயிரம்  
 துகையாகப் பதனம்பண்ணி வைத்தி ருக்கிறேன்  
 வரிசைப் புனலும்நல்ல பட்டமும் வந்துமிக  
 வாய்த்ததுநானே யேருமிட வேணுமே

[யாண்டே. (148)

கலிப்பா

தேடிவரும் நெல்வகையும் சேக்கள்கிடா வுங்கலப்பை  
 சோடினையே மூர்க்குடும்பன் சொல்லிடப்பண்  
 [ணைக்கதிபன்  
 நாடியுமுஞ் சேக்கள்தமை நுகங்கலப்பை பூட்டினுக்குங்  
 கூடிவர வேயதக்கிக் கொள்ளவகை சொன்னானே.(149)

பள்ளர் களியாட்டம்

தூரு

பாடிக் குதித்துக் கெக்கை போட்டுப்  
 பள்ள ரெல்லோருங் கூடியே  
 பரிந்து கள்ளைக் குடித்துச் சிவலை  
 யெருத்தின் கொம்பைப் பிடிக்கவே  
 ஓடி மருதக் குடும்ப னுமொரு  
 கூடு கொம்பனைத் தொடர்ந்துபோய்  
 உத்துப் பிடிக்கப் போன வுடனே  
 தத்திக் குதித்துப் பாயவே  
 சாடித் தூரத்து மயிலைக் காணையை  
 வேடிக் குடும்பன் பதுங்கிப்போய்  
 தடித்துப் பிடித்து முதுகைத் தடவி  
 வளைத்து நுகத்தில் சேர்க்கவே

வேடிக் கையுடன் நாளைக் குடும்பன்  
காரிச் செங்கன்றைப் பிடிக்கவே  
வெருவிக் குதித்துத் துவாலம் போடுற  
வேடிக்கை பாரடி பள்ளியரே.

(150)

இதுவுமது

செருச்செய் யொட்டியர் சேனை யைப்பிடித்  
தடித்தெ றிந்திடும் வல்லவன்  
திருவி ளங்கிய கட்டி பூபாலன்  
அருளு லாவிய வயலிலே  
அருச்சிக் குடும்பன் பெரிய மயிலே  
யெருத்தை முன்னிட்டு வோடியே  
அதட்டி முதுகைத் தடவிக் கொம்பைப்  
பிடித்துக் கொண்டவ னிழுக்கவே  
கரிச்சக் குடும்பன் மகனுஞ் செம்மறை  
யெருத்தை வளைத்துப் பிடிக்கவே  
காளிக் குடும்பன் சூரிக் கொம்பனை  
ஓடிப் பிடிக்க வோடச்சே  
வரப்புத் தட்டி விழுகவே சின்னப்  
பெரிச்சி கண்டுவந் தெடுக்கவே  
மட்டுப்ப டாமல் திமிரிச் செங்கையை  
விட்டுவி டென்கிறான் பள்ளியரே.

(151)

இதுவுமது

வீசுஞ் செந்தமிழ்க் கங்கை வங்கிசன்  
மாசில் பழனி வேலன்சொல்  
விருது பெத்திடும் கட்டி பூபாலன்  
மருவி ளங்கிய வயலிலே  
ஊசிக் கொம்பனை வீரக் குடும்பன்  
ஓடித் தொடர்ந்து முடுக்கிப்போய்  
உறுக்கிப் பிடிக்கக் கரக ரென்றுதான்  
இழுத்துத் திருகிச் சுழலவே  
நேசப் படுத்தி நொச்சுக் கொட்டிச்செந்  
கோடக் குடும்பன் சினத்தின்போய்  
நெட்டைக் கால்வெள்ளை யெருத்தைக் கொம்பைக்  
கட்டிப் பிடித்து நிறுத்தவே

தாசக் குடும்பன் மாரி செங்கன்றைத்  
 தேடி மல்கட்டிப் பிடிக்கவே  
 சடைச்சி மகன்கண் டுதட்டைப் பிதுக்கி  
 நகைத்துப் பீத்துறன் பள்ளியரே.

(152)

இதுவுமது

வடித்த முத்தமிழ் புனைந்த வண்புகழ்  
 நடத்து மேழர் நாட்டினான்  
 வண்மை யாகவ ராம னாகிய  
 தர்மக் கட்டிவேள் வயலிலே  
 நொடிக்கு முன்னேசென் றிருளைக் குடும்பன்  
 வடிக்குஞ் சந்தனப் புல்லையை  
 நொச்சுக் கொட்டக்கண் டெடுத்து தைச்சிடக்  
 குட்டிக் கரணம் போட்டனன்  
 முடுக்கி வல்லமை பேசி யேவெத்தி  
 யடுத்த சூரைப் போலவே  
 முர்க்கஞ் செய்பொலி யெருத்தைப் போயவன்  
 கால்கண் ணிறுத்திப் பிடிக்கவே  
 அடிக்கொள் ளாமல்வந் தெடுத்துப் பாயத்  
 துடித்து மேழர்க் குடும்பனும்  
 அண்டையில் வீழ்ந்து கிடக்கு றுனிந்த  
 மிண்டுத்தனம் பாரும் பள்ளியரே.

(153)

எருது பள்ளன்மீது பாய்தல்

கலிப்பா

வெருவிப் பொலியெருது மிரண்டுபள்ள னைப்பாய்ந்து  
 அருகி லவன் விழுக அமட்டித்தள் ளியபோது  
 மருவுளசெந் தாமரையின் வளர்கலிசைப் பள்ளியுடன்  
 பரிவாகி யேழரு பள்ளியும்வந் துற்றாளே.

(154)

முத்த பள்ளி வருந்துதல்

சிந்து

தன் னுடைய புருடனைக் கண்டாள் - மெத்தச்  
 சஞ்சலமாய்ப் பள்ளியேது விண்டாள்  
 உன்னைச்சே[ர்]ந்த பள்ளற்குகழ் வாமே - மாட்டுக்  
 குன்பலன்பத் தாதுடம்பு நோமே

தென்னங்கள்னை யொருமுட்டிக் குடித்தாய் - மிரண்ட.  
 சேவைத்தொடர்ந்தேனிப்போ பிடித்தாய்  
 பொன்னிமுறை யிட்டதெய்வச் சதியோ - வேத  
 புங்கவன்கை யால்மறைத்த விதியோ. (155)

இதுவுமது

கற்புள்ளவர் தம்மையும் வைதாயோ - தெய்வ  
 காரணத்தைத் தூடணஞ்செய் தாயோ  
 அற்பருடன் நட்புக்கொண்டு வாழ்ந்தாய் - ஓடி  
 யசலமென்ன வேவரப்பில் வீழ்ந்தாய்  
 சற்புருடர் சொல்லெப்பழித் தாயோ - யெந்தத்  
 தறுவலிகள் முகத்தில்(மு)விழித் தாயோ  
 சொற்படிக்கென் வார்த்தைதன்னைத் தட்டாய் - நானுஞ்  
 சோபங்கொள்ள யென்னைத்தனி விட்டாய். (156)

இதுவுமது

எள்ளளவு மனதுகவ டில்லாய் - போய்தான்  
 எவருடனு மொருநானுஞ் சொல்லாய்  
 கள்ளமென்ப தொன்றுமறி யாயே - என்னைக்  
 கனவி(லை)[லே]யும் விட்டுப்பிரி யாயே  
 சுள்ளக்கிபொல் லாதகள்ளி யாலே - மெத்தச்  
 சூதுவாதுஞ் செய்தாயென் மேலே  
 உள்ளதுன்னை விட்டுப்பிரிந் தீரேன் - நானும்  
 ஒருவர்முக மேறெடுத்துப் பாரேன். (157)

இதுவுமது

கலிசைப்பள்ளி தன்னைநித்தஞ் சே[ர்]ந்தாய் - உன்வலக்  
 காரமெல்லாம் நீயவட்கு மீ(ய்)ந்தாய்  
 உலகிலுன்னைக் கூடியிருப் பேலே - அவன்  
 ஓரியிட்ட சத்தியமுந் தாலே  
 சலிகையாலே ஆரைநோக வைதாய் - வரதர்  
 தாளினைக்கு மென்னகுறை செய்தாய்  
 கலக்கந் தீ[ர்]ந்து எழுந்திருப்பாய் கள்ளா - யிதுவுமொரு  
 கதையலவோ யேழுருப் பள்ளா. (158)

**பள்ளன் சோர்வு நீங்கி எழல்**

**கலிப்பா**

உள்ளபடி மூத்தபள்ளி உரைத்தமொழி கேட்டளவில்  
பள்ளனெ முந்திருந்து பரு[ப்]பதம்போல் நிற்கையிலே  
உள்ளமகிழ் கட்டி துரை உயிர்பண்ணைக் காரனவன்  
தெள்ளியநல் லேருமுகச் சேர்முஞர் த்தஞ் சொல்லுவனே. (159)

**பண்ணைக்காரன் ஒருமுதற்கு நாள் கூறல்**

**சிந்து**

மாசில் பூசநட் சத்திர முங்குரு  
வாரஞ் சித்திரைத் தசமியும்  
தேச லாவிய பூருவ பட்சமுஞ்  
சேரு மாங்கும்ப ராசியி தாமென்று  
பூசரர் சொன்ன நாள்நல்ல நாளிது  
பொன்னின் கட்டி வய(ல்க்)[ற்]கெருக் கட்ட  
வாசஞ் சேர்பண்ணை யாள்சொல்லப் பள்ளன்  
மகி(ட்)[ழ்ச்]சி யாகி வயல்தனி(ல்ச்)[ற்]  
[சென்றான். (160)]

**பள்ளர் ஏர் கட்ட வருதல்**

**கலிப்பா**

நெடியவய வில்வந்து நின்றநயி னுசலன்றன்  
அடிவணங்கிச் சே[ர்]ந்தபள்ள ரனைவரையுங் கூட்டமிட்டுத்  
துடியுடனே கங்குடித்துச் சுடர்போல் விழிசிவக்க  
இடியெனவே குலவையிட்டு யேர்கட்ட வந்தாரே. (161)

**விளாக்கோலுதல்**

**இதுவுமது**

வளமையுடன் நல்வசனம் மன்னியகோ கிலமுரைக்க  
கழனிவளந் தேறவுமே கருடனி டத்தில்வர  
யெழிலாக வேயுமுக யிடத்தெருதாக் கஞ்செயவும்  
வளமைவலத் தெருத்துரீர் வார்க்கவிளாக் கோலினனே. (162)

## வயலைப் பக்குவப் படுத்தல்

சிந்து

சாலிட் டுழுதுசேற்றைக் கரைத்தான் - செந்நெல்  
தரிக்கப் பரம்படித்து விரைத்தான்  
கோலிமுளை கொளவே நிரைத்தான் - மறுநாள்  
கொண்டபுன லைவெட்டிச் சரித்தான். (163)

பயிரைச் சுத்திவேவி பிடித்தான் - நாத்துப்  
பருவமா கத்தண்ணீ ரிறைத்தான்  
வயலில் பெருக்கங்கண்டு நடித்தான் - பள்ளன்  
மகிழ்ச்சியா கிக்கள்ளைக் குடித்தான். (164)

நாத்தைச் சுத்திவந்து பார்த்தான் - பள்ளன்  
நடலாமென்று பள்ளைச் சேர்[ர்]ந்தான்  
சேத்தைக் கலக்கநடந் தன்னுள் - பண்ணைச்  
செல்வனுட னேவந்து சொன்னான். (165)

## நாற்று நடவேண்டு மென்று கூறல்

கலிப்பா

காத்திரம தானதங்கக் கட்டிபண்ணைக் காரனுடன்  
நாத்துநட வேணுமென்று நவின்றனுப்பிக் கொண்டபள்ளன்  
ஆத்துக்கா லாட்டியர்கள் அடுத்துவர வேவயலில்  
பூத்தனுகை வேளநிகராய்ப் போயவனும் நின்றானே. (166)

## நாற்று நடத் தொடங்கல்

சிந்து

ஏருகட்டிப் பள்ளரெல்லார் தரிசு கீரியே - ரட்டித்  
தெழிலுடன்முச் சாலுமுது நாலுழ விட்டு  
கோரிக்கைய தாகப்பரம் போட்டித் திருத்தி - நாத்தைக்  
கொண்டுமுடி சூட்டிக்குப்பஞ் சேத்துப் பள்ளியர்  
பூரிப்புட னேநயினு சலனை வாழ்த்தியே - தொழுது  
போதப்பண்ணை யம்மணிநு பாதந் துதித்தேன்  
நேரிட்டும் நாத்திசையும் நோக்குப் பணிந்து - நாத்தை  
நிரைவகுத்துக் கையிலெடுத்துக் குலவை  
[யிட்டாரே. (167)

இதுவுமது

இட்டப்பயி ரீத்துநெருங் காமலணியாய்க் - கூடி  
 இடைகலந்தி டாமல்மெள்ள நடவும் நடவே  
 குட்டைச்சின்னி வீரமுத்தி நெட்டைமருதி - வேலி  
 குப்பிசெம்பி பொன்னினுள் ளச்சி சடைச்சி  
 சொட்டைத்தலைக் காத்திரங்கி சோலைவெள்ளைச்சி - மாரி  
 சூரிபூவி சாந்திபாகி நாகி பிரமி  
 மட்டுடனெல் லோருங்கூடி கைச்சமத்துடன் - நாத்தை  
 வன்மையாக வேநடுங்கோ பள்ளி மார்களை. (168)

நாற்று வளருதல்

கலிப்பா

மன்றல்செறி யேழூர் வளர்பழனி வேல்சேயன்  
 வென்றிகட்டி பூபாலன் விளங்குபண்ணைச் செந்நெல்வயல்  
 சென்றுவரும் பள்ளரெல்லாம் தென்றக்கா லால்மெலிந்து  
 நன்றிபெற வேநாத்து நடுகக்கா லேறியதே. (169)

நடவுச் சிந்து

பாண்டி யன்தரு முடிபொ றுத்தவன்  
 தாண்டு வெம்பரி நகுலமும்  
 பாத்தன் கட்டிவேள் வயலில் பள்ளியர்  
 நாத்தெ டுத்தவர் நடுகச்சே  
 நீண்ட கொந்தள முடிப்பி லும்துயில்  
 (கூ)[கொ]ண்ட சேல்விழித் துடிப்பி லும்  
 நீல வளையக் கையி லும்மலர்  
 கோல மிஞ்சிய மெய்யிலும்  
 தூண்டிச் சொல்லிய பசப்பி லும்துடி  
 சேந்த செந்துகி லுசிப்பி லும்  
 துகிரின் வாயிதழ் கையி லும்மதி  
 முகவ சீகர வகையிலும்  
 பூண்ட பொற்பணி நலத்தி லுங்கனம்  
 ஏந்து கொங்கைப்பந் தலுக்கிலும்  
 பூம தன்கணை யால்மெ லிந்தவ  
 ரான்ம யங்குரூர் பள்ளியரே. (170)

இதுவுமது

தேச மெச்சிய வாச வன்கவி  
 ராசர்க் கிங்கித போசனும்  
 செழிக்குங் கட்டிவேள் வயலில் பள்ளியர்  
 வளப்பங் கொண்டவர் கூடியே  
 ஆசைச் செந்நெலி னுத்து முடிப்பை  
 வீசிச் செங்கையி லெடுத்துமே  
 அவிழ்த்துப் பகுத்து அலைத்துக் குலைத்துத்  
 துலுக்கச் சம்பா நடுகச்சே  
 தாசப் பள்ளனைப் பா[ர்]த்துப் புன்னகை  
 யாகக் குப்பிச்சி நகைக்கச்சே  
 தானப் பள்ளன்கண் டோடிப் போயவள்  
 காலைப் பிடித்துக் கும்பிட்டு  
 நேசப் படுத்திக் கொள்ள வும்நல  
 தாகட் டென்றவள் சொல்லலும்  
 நேமிக்கை ராத்திரிக் கென்று சொல்லிப்போட்  
 டேர்கட்டப் போனான் பள்ளியரே. (171)

இதுவுமது

கன்னல் வில்மதன் பழனி வேல்தரு  
 மன்ன னிந்திர தாருவாய்க்  
 கதிக்குங் கட்டிவேள் வயலில் பள்ளிய  
 ரதிக்க மாய்வினை யாடியே  
 அன்ன மென்னவே கூடிச் சிரித்து  
 வன்னச் சம்பா நடுகச்சே  
 அழகு லாவிய தெளிவுஞ் சித்திர  
 வடிவைச் சுக்குட்டிப் பள்ளனும்  
 உன்னிக் கண்கொண்டு பார்க்க வேயொரு  
 கன்னிப் பருவச் சிறுக்கிபோய்  
 ஒட்டி நின்றவள் சைகை பண்ணிய  
 நெட்டைப் பா[ர்]த்தவ ளன்னையும்  
 சண்ணைக் கண்டவள் மனதி லேவெகு  
 சமுசி யந்தனை யெண்ணியே  
 தள்ளிநில் லாதேநீ வீட்டுக்குப் போவென்று  
 விள்ளாதே விள்ளுறான் பள்ளியரே. (172)

## இதுவுமது

மகப திநிக ராகி யேயுல  
 கதனைச் செங்கோல் செலுத்திடும்  
 வல்லமைக் கட்டிவேள் வயலில் பள்ளியர்  
 மல்லிகைச் சம்பா நடுகச்சே  
 செகப்பி மகளுங் கொண்டிச் சின்னியும்  
 இகத்தா ளத்துடன் பேசியே  
 சீச்சி யென்றிடப் பள்ளர்க ளெல்லோரு  
 மேச மல்கட்டி விழுகச்சே  
 புகைக்கண் ணுப்பயல் கண்டு வந்தங்கே  
 நகைத்து நல்லவன் போலவே  
 பொருந்த வேகட்டி தூக்கி யெடுத்துக்  
 குரும்[பை]பக் கொங்கையைப் பிடிக்கவே  
 முகத்தைச் சுளித்து வர்னச் செங்கையைப்  
 பிடித்துக் கொண்டவ ளிழுக்கச்சே.  
 முந்தா ணிக்குள் முடக்கிக் கொண்டவன்  
 சந்தா பிக்கிரூன் பள்ளீரே.

(173)

## இதுவுமது

காரா னற்கினி தான சற்குண  
 பேகன் வச்சிர தேகளுங்  
 கட்டிபூ பாலன் வயலில் பள்ளியர்  
 நட்டனைச் சம்பா நடுகச்சே  
 பூர[பை]யக் குள்ளி வீரியுஞ் சின்ன  
 மாரிக் குடும்பன் பேத்தியும்  
 பிடித்த மாகவே குதித்துக் கும்மி  
 யடித்துப் பாடிய வேளையில்  
 மாராட் டத்துடன் சோலைப் பள்ளியும்  
 சாரா யந்தனைக் குடித்துத்தான்  
 மயங்கிக் குழலும் அவிழ வேஇடைக்  
 கணிந்த துகிலும் நெகிழவே  
 தீரா வெறியில் விழுகச் சேயதை  
 சூரிப் பள்ளன்கண் டோடியே  
 சேத்துத் தூக்கி யெடுத்து மவிடஞ்  
 சேத்தி னுன்கையைப் பள்ளியரே.

(174)

இதுவுமது

திருவி ளங்கிய மார்ப னாந்துரை  
 பழனி வேல்தரு பாலனம்  
 செல்வன் கட்டிவேள் வயலில் பள்ளியர்  
 நெல்வ கைப்பயிர் நடுகச்சே  
 இருவி மகனும் நழுவி வீட்டுக்குத்  
 தூரிது டனவள் வருகச்சே  
 யெட்டத் தினம்பண்ணி வழியை மறித்துக்  
 குட்டிப் பள்ளப்பயல் நணுகியே  
 மருவ வேநல்ல பருவ மங்கைமேல்  
 பணமுந் தருவேன் வாங்கிக்கோ  
 மையல் தீரவுன் காமக் குளத்தை  
 யென்வ சத்துக்கீ டாக்கினால்  
 பருவ முப்பயி ரிடுவ னென்றவள்  
 பாதத் தைத்தொட்டுப் பிடிக்கவே  
 பதறி யுதைக்க விழுந்து கொண்டவ  
 ளடிப ணியுறன் பள்ளீரே. (175)

பயிர் வளர்ந்து பசுமை கொள்ளல்

கலிப்பா

கோத்திரைக்குள் சீவசெந்துங் கோலமுட னேபுரக்கச்  
 சேத்திரமாய் மேழிகொண்ட சேய்பழனி வேல்புதல்வன்  
 காத்திரம் தானதங்கக் கட்டிபண்ணை யிட்டசெந்நெல்  
 நாத்திடவும் வேளுன்றி நற்பசுமை கொண்டதுவே. (176)

பயிர் வளர்தற் சிறப்பு

சிந்து

நட்ட நடவும் பசுப்பேறிப் - பயிர்  
 நாளுக்கு நாள் வளர்ந்தேறி  
 கட்டி புகழ்போல் தழைத்தோங்கி - மிக்க  
 ககனங்கொண் டெழுந்து கிளைதேங்கி  
 நெட்டைத் தாகிப் புடைகொண்டு - கதிர்  
 நெடுகித் திரண்டு புடைவிண்டு  
 மட்டில் லாதவர் போல்நிமிர்ந்து - குல  
 மாதர்க் கிணையாய்த் தலைகவிழ்ந்து; (177)

## இதுவுமது

பால்கொண் டமுத மிகக்கூடி - செந்நெல்  
 பருத்துக் கொடிவிளைச்ச லோடி  
 மேல்கொண்டறி வுள்ளவர்சொல் லாகி - சேர  
 விளைந்தவுட னேபள்ள ரெல்லாம்  
 மால்கெற்சி தங்களென்ன முழங்கிப் - பொங்கல்  
 மல்லாண்டப் பருக்கும் விளங்கி  
 நாட்கள்கேட் டுக்கதிர் கொய்தார் - வரதர்  
 நளினப்ப தத்தைத்துதி செய்தார். (178)

## நெற்கதிரை அறுவடைசெய்து களத்தில் சேர்த்தல்

பண்ணையம் மன்கோயில் முன்பா(யி);[கி]ப் - பள்ளர்  
 பணிந்துதெண்ட னிட்டுத்தென் பாசி  
 நண்ணும லகுகதிர்க் கொட்டை - வைத்து  
 தன்மை கொண்டுவயல் காட்டை  
 திண்ணமான செந்நெல் திறத்தைக் - கையில்  
 செழிக்குங் கூனிரும்பிற் றரித்தே  
 பண்ணுமரிக் கிடையெட்டே சுத்தும் - சும்மைப்  
 படுத்திக் களத்தில்கொண்டு சே[ர்]த்து; (179)

## நெல்லைத் தூற்றி நிறைத்தல்

கட்டுக்கொ ணர்ந்துபோரும் பிடித்தார் - தலைக்  
 கதிரு முதிர்நெல்லை யடித்தார்  
 நெட்டுங்கி ரிகள்போலே குவித்தார் - விரைநெல்  
 நெருங்கப்பொதி யாயிரம் வைத்தார்  
 எட்டும்போ ரைச்சரித் திட்டார் - பக  
 டேத்தித் துவையவிட விட்டார்  
 மட்டுஞ்சரட் டில்வாரித் தூத்தி - நெல்லை  
 வாகாய் மலையெனவும் குவித்தார். (180)

## நெல் கணக்குப்பற்றி பண்ணைக்காரரிடம் கூறல்

## கலிப்பா

நெடும்புவியெண் டிசைமதிக்கும் நேமியே மூரதிபன்  
 தொடும்படிநன் ருய்முடிக்குந் துரைக்கட்டி பூபதிதன்  
 குடும்பர்கள்நெல் லளவுபாதி கூட்டமுன்னு ருயிரமென்  
 றிடுங்கணக்குங் கண்டுபண்ணைக கிறையவன்முன்  
 [விள்ளுவனே. (181)]

இதுவுமது

சிந்து

ஆலடியில் சீ ..கு .ர் நெல்பொதிமுன் னூறும்  
 அரிவரதர் பூசனைக்கும் வரிசையுடன் கொடுத்தேன்  
 ஞாலம்பண்ணைக கிணற்றடிநெல் லானபொதி நூறும்  
 நாரிபண்ணை யம்மன்படித் திரத்துக்குமே கொடுத்தேன்  
 கோலமிகு மதகடிநெல் லதுவும்பொதி நூறு  
 குமரர்திரு நாள்செலவுக் குதவியது செய்தேன்  
 சேலுலவு முருக்கடிநெல் கண்டபொதி நூறும்  
 தேவர்செங்கோட் உசருடைப் பூசனைக்குங்  
 [கொடுத்தேன். (182)]

இதுவுமது

நாவலடி நெல்லெழுவத் தேழுபொதி யாச்சு  
 நளிநமங்கை மூவாகண்டி யம்மனுக்குங் கொடுத்தேன்  
 பாவலருக் கரசடிநெல் லானதையுங் கொடுத்தேன்  
 பங்கயமின் னங்கம்மைக்கும் துங்கச்செந்நெல்  
 [கொடுத்தேன்  
 தேவியத்த னூரவ ளெழுமூவாண்டி யம்மைக்கன்பாய்  
 சேரும்படி திரத்துக்கொரு நூறுபொதி கொடுத்தேன்  
 பூவளருங் கட்டியண்ணல் தேவருக்கும் நித்தம்  
 பொருந் தும்படித் திரத்துக்கன்பத் தேழுபொதி  
 [கொடுத்தேன். (183)]

இதுவுமது

ஆதுலர்க்கும் வேதியர்க்கும் அரியதவத் தோர்க்கும்  
 ஆத்தடிநெல் கண்டதுவும் நூறுபொதி கொடுத்தேன்  
 கோதில்கட்டி வேள்செய்சமா ராதனைக்கிங் கிதமாய்  
 கொடுத்திடென்று சொல்லச்சம்பா கொடுத்தபொதி  
 [நூறு  
 நீதியுள்ள கொங்குக்குநற் புலமைக்கவி வாணர்  
 நெஞ்சமகி முக்கொடுத்த செந்நெல்பொதி நூறு  
 ஓதுதமிழ் மலையபட்டன் பெயர்க்குமர வேல்கூத்  
 துசிதங்கண்டு கொடுத்தசம்பா நெல்பொதியும் நூறு.(184)]

## இதுவுமது

செழுமதிபோல் வளரிம்முடிச் சித்தம்பலக் குருக்கள்  
 தேடியபூ சனைக்குதவி செய்தபொதி நூறு  
 வளமைநல்லா ரையவன் திரு மானிகைக்கும் நல்ல  
 மல்லிகைச்சம் பாவதிலே நூறுபொதி கொடுத்தேன்  
 குளவெட்டுக்கும் அணைக்கட்டுக்குங் கூலிக்கிடு நெல்லுங்  
 கொண்டகடைச் செலவுக்குமுன் நூறுபொதி  
 [கொடுத்தேன்  
 அளவுதொகை நெல்வகைகொண் டெழுதிக் கொண்டார்  
 [கணக்கர்  
 அவர்கணக்கு விபரமதை வினவிக் கொள்வீ  
 [ராண்டே. (185)

பள்ளன் தன்னை அவமதித்ததாக  
 முத்தபள்ளி மற்றைய பள்ளியர்முன் கூறுதல்

கலிப்பா

தெள்ளியெடுத் தேகணக்குஞ் செப்பினு னென்கணக்கும்  
 விள்ளாத பள்ளனுடை விரோதமதைக் கேளுமென்றே  
 வள்ளல்கட்டி யண்ணன்வயல் மருவளரே மூர்ப்பள்ளி  
 உள்ளமுன்று பள்ளியர்முன் னுதாசினமே  
 [சொல்லுவளே. (186)

முத்தபள்ளி ஏசல்

சிந்து

வள்ளைக்காலுப் பண்ணை யாண்டார்நடுக் கேளாரோ! - மட  
 வாயமுகுப் பண்ணையாண் டார்நடுக் கேளாரோ!  
 சொள்ளைமுகுப் பண்ணை யாண்டார்நடுக் கேளாரோ!  
 [ - வட்டச்  
 சொறி ..பண்ணையாண் டார்நடுக் கேளாரோ!  
 கள்ளமுழிப் பண்ணையாண் டார்நடுக் கேளாரோ - தொள்ளைக்  
 காதமுகுப் பண்ணையாண் டார்நடுக் கேளாரோ  
 விள்ளுவே னென்னுடைய பள்ளன்செய்த - மாய  
 வித்தைதனைக் கேளுங்கடி பள்ளிமாரே. (187)

இதுவுமது

கண்டவர் நகைக்கக் - குட்டை தனில்போட்டும் பள்ளன்  
 கருத்துக் கறிக்கை யில்லா - தென்ன விதமோ  
 கொண்டிச் சிறுக்கி வண்டி கலிசைப் பள்ளி செய்யுங்  
 குத்தத்துக் குள்ளாகியே - புத்தி மறந்தான்  
 சண்டைபிடித் தவள்முன்னே யெண்ணையும் வைதான் - என்  
 தருசு வந்திர ராசி அடிநெல்லையும்  
 மண்டிஎடுத்தவளுக்கு முத்துங் கொடுத்தான் - எனக்கு  
 வருநெல்லது கொடுக்கக் கைபிடுங் காது. (188)

பண்ணைக்கட்டடித்தநெல்லும் பண்ணைக் காரனை - நான்  
 பசப்பிப்பெய்த தண்ணிக்கென்று வாங்கின நெல்லை  
 நிண்ணையமா யவளுக்கும் பங்குக்கொடுத்தான் - நல்ல  
 நெல்லென்று கலக்கருக்கா யெனக்களித்தான்  
 விண்ணை மாகவண்ணை பெருமைக்குத்தான் - பறிய  
 வெளுத்துக்கொடுத்ததுகில் வெள்ளை போ.....  
 எண்ணும லேசியவன் கொடுத்ததிந்த - நெல்லை  
 யெல்லோரும் பாருங்கடி பள்ளிமாரே. (189)

இதுவுமது

சாராயக் கள்ளஞ்சள்ளங் கறிதின் னத்தான் - பள்ளன்  
 .....ன வேலைக்குவெகு கழுப்பிணிதான்  
 பூராயக் கள்ளிசின்னப் பொன்னிமாயத்தில் - பள்ளன்  
 போனுக்கு ளகப்பட்ட புலிபோலவே  
 தோராய மாக அவன் கேட்பதெல்லாம் - ஒருத்  
 தொகைப்பிடி யாகவே கொடுத்திடுவான்  
 நேராக நான்படி கேட்கப்போனால் - மெத்த  
 நெட்டிரஞ் செய்யவாரான் பள்ளிமாரே. (190)

முத்தபள்ளி, இளையபள்ளி வாய்ப் பூசல்

இளைய பள்ளி

எண்ணெயெண்ணீ யெடுத்துச் சொல்வ தேதோடி - புத்தி  
 இல்லையோ உனக்குச் சற்றும் ஏழருப் பள்ளி

முத்த பள்ளி

தன்னையறி யாமலேநீ கலிசைப் பள்ளி - பள்ளன்  
தன்பலத்தைக் கொண்டல்லவோ சண்டைக்கு வாராய்

இனாய பள்ளி

முன்னுமுகம் பாராமல் பள்ளனையும் நீ - கேலி  
மொழிவ தென்னடி புருடன் தெய்வமல்லவடி.

முத்த பள்ளி

பின்னைவந்த கச்சைக் காயி சிறுக்கியுனக் - கிந்தப்  
பெருக்கமென் னடிசொல்லாய் கலிசைப் பள்ளி. (191)

இனாய பள்ளி

ஏச்சுவார்த்தை யாண்டான்முன்னே ஏண்டி. பேசுறாய்  
யெண்ணாமல் பேசினேனோ ஏழுருப் பள்ளி [- உன்னை

முத்த பள்ளி

சச்சதமிழ்ச் சபைக்கேரு ததுபோலவே - யென்னைத்  
தாறுமாறு சொன்னுன்னைத் தூறு சொல்வேண்டி.

இனாய பள்ளி

உச்சிதமோ உங்களாண்டான் பொருளந்தை தான் - பொரு  
ளுத்தபெயர் வேங்கையென் றுரைப்பதல்லடி.

முத்த பள்ளி

விச்சித்திரம் பேசாதடி உங்க ளாண்டவன் - தன்னை  
மேதினியில் தூறென்று சொல்வதல்லடி. (192)

இனாய பள்ளி

தூறென்ற லதில்வெகு பலனுண்டடி - பொருள்  
துகையாய்ப்ப டைத்தவருக் கச்சமல்லடி.

முத்த பள்ளி

வீறுடனே உங்களாண்டான் குலமதுதான் — மக  
மேருவோ வாருதியோ தூறனல்லடி.

**இனாய பள்ளி**

தேறுமெங்கள் தூறரைப்போ லுங்கள்பொருள் தான்  
[ - லோகஞ்  
செழிக்கப் பயிர்வினாயச் செய்வதுண்டோடி

**முத்த பள்ளி**

கூறுகிறு யெங்களாண்டா னிளப்பமோடி - பொருள்  
கூட்டஞ்சி றந்தவர்கு பேரனல்லடி. (193)

**இனாய பள்ளி**

பொருள் தன்னை நல்லதென்று சொல்வ தேதோடி  
[ - தேடிப்  
போத்திச்சஞ் சரிப்பதும் வருத்தமல்லடி

**முத்த பள்ளி**

தருவாகி உங்களாண்டான் தூறெனெனவே - வந்து  
தான் தூறித் திரிவதில்வி சேடமென்னடி

**இனாய பள்ளி**

அருளுண்டு தூறிலுல்வெள் ளாண்மை யுண்டடி - பொரு  
ளடுத்தாற்கல் லாதுலகைக் காக்குமோ பள்ளி

**முத்த பள்ளி**

திருமகள் வீடுபொரு ளாகுமல்லடி - தூறித்  
திரிவதில்வந் திருமு யர்ச்சிசொல்லடி. (194)

**இனாய பள்ளி**

நத்திவருந் தூறர்குல மதுசேர்ந்தால் - புகழ்  
நடக்குஞ் சராசரந் தழைக்குமல்லடி

**முத்த பள்ளி**

வெத்தியுண்டு புகழுண்டு கீர்த்தியுமுண்டு - கெடி  
விருதும் பொருளினிலுண் டாவதல்லடி

**இனாய பள்ளி**

வெத்திப்பொரு ளந்தையென்று சொல்வதேதோடி  
[ - கையிற்  
வேப்பந்துடர் பிடிப்ப தஞ்சியல்லடி

முத்த பள்ளி

உத்துவருந் தூறரெனில் வலுச்சொல்லடி - கடல்  
உதகம் பருகிவந்து தூறுமல்லடி. (195)

இனாய பள்ளி

துங்கனவ ளெங்களாண்டான் தூறர்கோத்திரன் - புவி  
சுகிக்கவி னைதீர்க்கும் நஞ்சயனடி.

முத்த பள்ளி

எங்களாண்டான் பொருளந்தை யவன்பேரும் - நலம்  
இலகுங்க னகத்தங்கக் கட்டியல்லடி.

இனாய பள்ளி

பொங்குபொரு ளந்தையென்ற லக்கவிக்கருள் - நெடும்  
புத்தினில்கை யிட்டானுங்க ளாண்டையல்லடி.

முத்த பள்ளி

அங்கவனும் புத்தினில்கை யிட்டகீர்த்தி - யுங்கள்  
ஆண்டை தூறனுக் கிலையேசொல்லடி  
[பள்ளி. (196)]

இனாய பள்ளி

புலையனைக் கூட்டியுண்டா னுங்களாண்டவன் - அவன்  
பொருளந்தை யென்றலகில் சொல்வ தல்லடி.

முத்த பள்ளி

உலகில் புலையனுட னுண்டகீர்த்தியும் - அடி  
உங்கள் தூற னுக்கிலையோ சொல்லடிபள்ளி

இனாய பள்ளி

கொலைகாரி கீலிபழி தனைத்தொலைத்தோன் - உங்கள்  
கொத்தவ னதிகபொரு ளந்தையல்லடி.

முத்த பள்ளி

நிலேசேரு முங்களாண்டான் தூறனுக்குமே - அந்த  
நீலிபழி தானிலையோ சொல்லடிபள்ளி. (197)

**இனாய பள்ளி**

செய்யபுக முங்களாண்டான் கட்டிமகிபன் - வருஞ்  
செந்தமிழ்ப்பு லவருக்குந் தொண்டனல்லடி

**முத்த பள்ளி**

தவயோக மிகுந்தகவிவலவற் கிதமாகி - முத்தின்  
தண்டிகைசு மந்தானுங்கள் நஞ்சயனடி

**இனாய பள்ளி**

வையகத்தி லுங்களாண்டான் கட்டிமகிபன் - அவன்  
வடிக்குந் தமிழ்கடுமை யானதல்லடி

**முத்த பள்ளி**

துய்யபுக முங்களாண்டான் நஞ்சயதுரைக் - கிந்த  
சொல்கீர்த்தி தானிலையோ சொல்லடிபள்ளி. (198)

**இனாய பள்ளி**

தண்டமிழ்ப் புலவருக்கும் உங்களாண்டவன் - கையிலி  
சதிராய்க்க ளாஞ்சி யேந்திக் கொண்டானல்லடி

**முத்த பள்ளி**

மண்டலத்தி லுங்களாண்டான் நஞ்சயனுக்கும் - இந்த  
வரிசைசெந் தமிழ்க்கீர்த்தி இல்லையோபள்ளி

**இனாய பள்ளி**

பண்டுசூலி முதுகினிற் சோறுபடைத்தோன் - அவன்  
பண்பொரு ளந்தையுங்க ளாண்டானல்லடி

**முத்த பள்ளி**

தெண்டிரையி லுங்களாண்டான் தூறனுக்குந்தான் - நலஞ்  
சேரவரு மிந்தக்கீர்த்தி யுண்டடிபள்ளி. (199)

**இனாய பள்ளி**

நானூயும் ஏசிக்கொண்டா லாண்டானேயேச - இது  
ஞாயமல்லடி சிறுக்கி ஏழூருப்பள்ளி

**முத்த பள்ளி**

ஏனிப்படி மிரட்டி மீன்பிடிக்கிறாய் - இந்த  
ஏறுமாறு செய்யவேண்டாங் கலிசைப்பள்ளி

**இனாய பள்ளி**

கூனப்பள்ளப் பயலுடன் புங்கடியிலே - ஏசிக்  
கோபம்வைத்து வந்ததென்ன ஏழூருப்பள்ளி

முத்த பள்ளி

நானென்னடி நீமெத்த நல்லவளோடி - நீலி  
நாடகஞ்செய் யாதேபோடி கலிசைப்பள்ளி. (200)

இளைய பள்ளி

திருட்டுச் சிறுக்கிநெட்டப் பள்ளனும்நீயும் - கை  
சேர்ந்துவந்த தறியேனோ ஏழருப்பள்ளி.

முத்த பள்ளி

இருப்பையடி யதில்கூடி நொண்டிப்பள்ளனை - பாக்  
கிலேகேட்ட தறியேனோ கலிசைப்பள்ளி.

இளைய பள்ளி

எட்டிஎட்டி வாயிகொள்ளாப் பேச்சுபேசுறாய் - உனை  
யெடுத்துக் கிழிப்பன்பாரா யேழருப்பள்ளி

முத்த பள்ளி

குட்டிபோட்ட நாயிமுலைச்சி முக்குத்துணிந்து - வருங்  
குதிரைது வாளத்துக்கஞ்சா தல்லடிபள்ளி. (201)

இளைய பள்ளி

வெட்கங்கெட்ட சக்களத்தி யேன்குதிக்கிறாய் - நாணம்  
என்பதுமில் லாததொண்டி ஏழருப்பள்ளி

முத்த பள்ளி

தொக்குநாக்கி யுண்ணைப்போலே ஆரடிவாரார் - வெகு  
தோதகக் கள்ளிபோடி கலிசைப்பள்ளி

இளைய பள்ளி

தோதகி யென்றுசொன்ன நாக்கையறுப்பேன்  
சுணங்குமுத் திரியிடுவேன் ஏழருப்பள்ளி [ - உண்ணைச்

முத்த பள்ளி

வாதிட்டு நீ காலமுட்ட நாளாமிப்படி - பள்ளன்  
மதியை மயக்கிவைத்த கலிசைப்பள்ளி

இளைய பள்ளி

வயிர மென்னடி திருடி மருந்துகள்ளி - சொன்ன  
வாயைக் கிழிப்பன்பா ரேழருப் பள்ளி

முத்த பள்ளி

பயிலக்கள்ளி மிஞ்சிமிஞ்சிப் பேசாதேயடி - மூளிப்  
பள்ளப்பயல் சலுகையோ கலிசைப்பள்ளி. (202)

**இனைய பள்ளி**

சலுகை யென்னடிசிறுக்கி மிஞ்சிப்பேசறாய்

[ - பொட்டைச்

சக்களத்தி நீபோடி ஏழுருப் பள்ளி

**முத்த பள்ளி**

வலிமைசொல்வ தென்குதிரை வால்படைத்தால் - திண்டி  
மட்டலது வீசமோடி கலிசைப்பள்ளி

**இனைய பள்ளி**

மட்டித்தன மாகவேபை.....தினில் - ஆக  
வைப்பதிது புத்தியல்ல ஏழுருப்பள்ளி

**முத்த பள்ளி**

சொட்டுப்பூரித் தனம்பண்ணிப் பள்ளப்பயலை - வெகு  
தோதகத்தில் சிக்கவைத்த கலிசைப்பள்ளி

**இனைய பள்ளி**

மதிசெட்ட சிறுக்கிகேள் சென்றகாசக்கும் - பின்னும்  
வட்டமென்னடி சொல்லா யேழுருப்பள்ளி

**முத்த பள்ளி**

எதிர்த்து மல்லாரிபோட்டு வலியசண்டை - பிடித்  
திப்படியேன் வாதிக்கறாய் கலிசைப்பள்ளி. (203)

**இனைய பள்ளி**

பழமை யறிந்தவள்போல் மிஞ்சிமிஞ்சியே - யென்னை  
பழித்தவாயைக் கிழிப்பேன் ஏழுருப்பள்ளி

**முத்த பள்ளி**

கிழிசப் புடவைக்குத்தான் மினுக்கென்னடி - வண்டக்  
கிழட்டோரி நீபோடி கலிசைப்பள்ளி

**இனைய பள்ளி**

வாசமுங்கள் மாயவனும் ஆட்டையெடுத்துத் - தோளில்  
வைத்துக்கொண்டு தேடியுந் திரிந்தானல்லடி

**முத்த பள்ளி**

தேசமெங்கு முங்கள்சிவன் பிரமன்தலை - கொண்டு  
சென்றுமுது காட்டினில லைந்தானல்லடி.

**இளைய பள்ளி**

துணைவி யநேகரிருந் துங்கள்மாயவன் - வால  
துறவியென் றேநெய்யில் கையிட்டானடி.

**முத்த பள்ளி**

குணமாகப் பார்ப்பதிக்குந் தன்னுடம்பீனில் - பாதி  
கொடுத்தவ னுங்கள்சிவன் தானுமல்லடி.

**இளைய பள்ளி**

மன்னிமையா யுண்ணலு ணதுவன்றியே - உங்கள்  
மாயவனு மண்ணைத்தின்று கக்கவில்லையோ

**முத்த பள்ளி**

தின்னச்சோ றில்லாமல் நஞ்சைப்பருகி - உங்கள்  
சிவனார் திரிந்தகதை நானறியேனோ

**இளைய பள்ளி**

சாலவெண்ணை திருடியுண் றாலுடனே - சேர்த்துத்  
தனைந்தடி கொண்டானுங்கள் மாயனல்லடி.

**முத்த பள்ளி**

காலுதையுங் கல்லெறியும் வில்லாலடியுங் - கொண்டு  
கண்குளிர நின்றானுங்கள் சிவனல்லடி. (204)

**இளைய பள்ளி**

திருவள ரரியரன் தன்னைப்பேதிச்சு - ரெண்டு  
செப்பவேண்டா மிதுதோஷ மாமல்லோபள்ளி

**முத்த பள்ளி**

இருவர் தம்மையும்வின்ன பேதகங்களாய்ச் - சொல்லி  
இயம்பினவள் நீயல்லவோ கவிசைப்பள்ளி

**இளைய பள்ளி**

மாலு மாரனுமொரு ரூபமன்றியே - பேதம்  
வருமோ வராதுகண்டா யேழுருப்பள்ளி

முத்த பள்ளி

சாலவுன்னால் வந்த பேதகமன்றியே - யென்னால்  
தான்வந்த தல்லவடி கலிசைப்பள்ளி. (205)

இளைய பள்ளி

சொன்னதெல்லாம் போகட்டும் நாமளினிமேல் - தெய்வ  
தூஷண மேபுகல வொண்ணாதல்லடி.

முத்த பள்ளி

மன்னுபுத்தி சாலிநீ கலிசைப்பள்ளி - சிவன்  
மாலென்றும் வேறுசொல்ல நீதியல்லடி.

இளைய பள்ளி

உங்கள்நயி னுசல ரெங்கள்தெய்வமாம் - எங்கள்  
உயிரர்த்த நாரீசர் உங்கள்தெய்வமாம்

முத்த பள்ளி

இங்கிதங்க ளாயிருந்து நாலுபேரைப்போல் - நாமும்  
இணங்கிக் குலதெய்வத்தை மிகப்பணிந்து ;

இளைய பள்ளி

தேசிகனுஞ் சீடனும்போலப் பாலப்பள்ளனைக் - கூடி  
சேர்ந்திருந்து வாழ்வமடி ஏழுருப்பள்ளி

முத்த பள்ளி

வாசமிகும் பால்தேன் சர்க்கரையும்போல் - நாம்  
மனமொத்து வாழ்வமடி கலிசைப்பள்ளி. (206)

இளைய பள்ளி

மகுணன் மனமகிழ நாமிருவரும் - சேர்ந்து  
வகையாய்ப் பிழைத்திடுவோம் ஏழுருப்பள்ளி.

முத்த பள்ளி

புகழ்கொண் டிலங்குமேழூர்க் குடும்பனுடன் - செல்வம்  
போதப் படைத்துவாழ்வோம் வாடிபள்ளியரே.

மூத்த பள்ளி, இளைய பள்ளி இருவரும்  
வாழ்த்துக்கூறல்

நிருபன் துரைப்பழனி வேலனருளுந் - தமிழ்  
நீதிகட்டி மகிபன் நீடுழிவாழி!  
வருபொரு ளந்தைகுல மவன்கினையும் - புகழ்  
வளரு மேழர்நாடும் மிகவாழி.

(207)

வாழ்த்து

கலிப்பா

பானுவென வேவிளங்கி பண்பொருள்கூழ் கட்டியணன்  
தானிலங்கு மேழர் தழைத்ததிகஞ் சேர்ந்திடவே  
தேனுயர்பள் ளேசல்தனைச் செப்பினவர் பாடினவர்  
ஆனதமிழ் கேட்பவர்கள் ஆடினவர் வாழியரே. (208)

—:(0):—

நயினசல வரதராசப் பெருமாள் கடாட்சஞ் சம்பூர்ணம்  
யூ ராமசெயந் துணையுண்டாகவும்

கட்டிமகிபன் பள்ளு முற்றும்.

# DŪPĀṬI KAIFIYAT

Edited by Śrīmāns

T. SRIDHARA MURTHI

and

N. SARVESWARA RAO, B.A., (Hons.)

The present work *Dūpāṭi Kaifiyat* is based upon a paper manuscript bearing R. No. I254 which is a restored copy of the manuscript from the Mackenzie Collections Volume No. 144 preserved in the Government Oriental Manuscripts Library, Madras. A copy of this *Kaifiyat* is also found in Brown's collection Volume No. 8. (M 316)

This work deals with the history of one Śāyapa Nāyaka, a youth belonging to Kamma community, who entered the service of the well known Vijayanagar Emperor Kṛṣṇadēvarāya. Śāyapa Nāyaka, soon rose high in favour of Kṛṣṇadēvarāya who granted him the village of Guḍipāḍu in Dūpāṭi Sima. Later on the descendants of Śāyapa Nāyaka extended their territories and became independent rulers of small principalities.

Among them, Venkaṭādri Nāyaka is a very generous ruler. He constructed a town near Śrī Śailam and founded a village in his own name known as "Venkaṭāḍripālem". In that village he reinstalled the image of Cennakēśavasvāmi and made several grants to Brahmins, and to the Dēvasthānam. There are four inscriptions in this *Kaifiyat* which records them.

The geneologies of many chieftains of principalities, and the history of many villages that were under their control are described here.

In the latter part of the work, there is a description of some legal documents in the possession of Karaṇam Nārāyaṇappa of Rāmēśvaram village attached to Duvvūru.

The Kaifiyat is printed as it is in the original in order to give a correct picture of the language used in those days, besides historical references.

We therefore hope that the present publication will prove useful for scholars working in Andhra history as well as Telugu language.

## ప రి చ య ము

చారిత్రక ప్రశస్తిగల ఈ దూపాటి కైఫీయతు మదరాసు ప్రభుత్వ ప్రాచ్యలిఖిత గ్రంథాలయమందలి తెలుగు శాఖలో ఆర్ నం. 1254 రున వర్ణితమైయున్న ప్రతినాధారముగాఁగొని ప్రకటింపఁబడుచున్నది. ఈ ప్రతి M. 144 నంబరున వర్ణితమైన ప్రతినుండి యుద్ధరింపఁబడినది. M. 316 నంబరు గల శ్రానువాల్యమునందుఁ గూడ నియ్యది కలదు.

స్వర్ణయుగమునకీర్తి గడించిన కృష్ణ దేవరాయలవారి కాలములో కమ్మకులావతంసుఁడు యువకుఁడునగు శాయపనాయకుఁడు రాయల వారికొలుపులోఁ బ్రవేశించి వారి యాదరాభిమానములకుఁ బాత్రుఁడై శ్రీశైల ప్రాంతమున దూపాటితాలూకాకుఁజేరిన గుడిపాడు అను గ్రామమును బడసెను. దానిని అతనిసంతతివారు అనుభవించుచు తమ సేవాదక్షతచే ఎక్కువ జమీనులనుబడసి సంస్థానాధిపతులైరి.

వారిలో వెంకటాద్రిరాయఁడు కడుధర్మాత్ముఁడు. ఇతఁడు శ్రీశైల ప్రాంతమున ఒకపట్టణనిర్మాణమును, తనపేర “వెంకటాద్రిపాళె” మను నొక గ్రామమును నిర్మించెను. ఆ గ్రామమందు చెన్నకేశవస్వామి పునః ప్రతిష్ఠ వనతటాకాది నిర్మాణములు దేవబ్రాహ్మణదాసములు మొదలగు సత్కార్యములను గావించెను. ఈ విషయములకు సంబంధించిన నాలుగు శాసనము లిందుఁగలవు.

సంస్థానాధిపతులవంశావళి వారీచరిత్ర వారియధీనమందుండిన గ్రామములవివరములు ఇందు వర్ణితములై యున్నవి.

గ్రంథోత్తరభాగమున దువ్వూరుకుఁ జేరిన రామేశ్వరగ్రామములో కరణం నారాయణప్పయొద్దనుండిన వ్యవహారపత్రముల వృత్తాంతము గలదు.

ఇందలి విషయములు చారిత్రకప్రసిద్ధి కలిగియుండుటచే నాటి వ్యవహారముల తీరుతీయములు పలుకుబడులు స్పష్టముగాఁ దెలియుటకై ఈ కైఫీయతు యథామాతృకము ప్రకటింపబడుచున్నది.

చారిత్రకాంశజిజ్ఞాసువుల కియ్యది యుపకరించఁగలదని మే మాశించుచున్నారము.

తీర్థం. శ్రీధరమూర్తి

నిడుదవోలు. సర్వేశ్వరరావు బి. ఏ. (అసయ్య)

దూపాటితాలూకా పైకి మిర్యంపల్లెలో ఉండే  
శాయపనాయని సుబ్బానాయడు జమీందారునివారి

## కైఫీయతు

పూర్వం కృష్ణ దేవరాయలవారి ప్రభుత్వంలో తూర్పుకృష్ణాతీర  
మండున పొత్తూరు అనే గ్రామంనుంచి శాయపనాయడు అనే కమ్మవారు  
ఇరవై సంవత్సరములవారై యుండి వచ్చి విద్యానగరపట్టణమందు స్త్రీష్ణ  
దేవరాయల రాజధానియందు నివాసం చేసుకొనియుండి కొన్నాళ్లు  
జరిగిన తదనంతరం కృష్ణ దేవరాయలవారు వజ్రసింహాసనారూఢులై సకల  
వై భవములచేతను రాజ్యపాలన చేసుకొంటూ ఉండే సమయమందు ఈ  
శాయప్పనాయడు రాయలవారిదర్శనం చేసుకొని తనవర్తమానం  
యావత్తు చెప్పుకొని రాయలవారి సముఖమందు కొల్వులో ఉండగా  
కృష్ణ దేవరాయలవారు శాయప్పనాయనిమీద చాల దయవచ్చి విద్యా  
నగరానకు తూర్పుప్రాంత్యము శ్రీశైలపర్వతానకు తూర్పుదిక్కున  
పదహారుక్రోసులమీదను గుడిపాడు అనే గ్రామం అమరం చెప్పి మా  
సంస్థానంలో కొల్వుచేస్తూ ఉండుమని శలవు ఇచ్చినందున అనుజ్ఞప్రకారం  
తనకు ఇచ్చిన అమరం గ్రామం అయిన గుడిపాడువచ్చి అక్కడ నివాసం  
చేసుకొని శాయపనాయడు తన చిన్నవారిని గుడిపాటిలో ఉంచి తాను  
విద్యానగరంలో రాయలవారి కొలువులో ఉండెను.

ఈరీతున జరుగుతూ ఉండగా ఈ శాయపనాయనికి వెంగళ  
నాయడు అనే ఒక కుమారుడు కలిగియుండెను. ఆ చిన్నవానినికూడా  
శాయప్పనాయడు తన దగ్గరనే ఉంచుకొని కొలువుచేస్తున్న ఈ వెంగళ  
నాయడు ఇర్వయి సంవత్సరములు ఉండేవరకు శాలివాహనశకవర్షంబులు  
1877 (A. D. 1454) అగుసేటి భావనామ సంవత్సరంలో ఈ శాయప  
నాయడు చనిపోయెను. తదారభ్యం శాయపనాయని కుమారుడు అయిన  
వెంగళనాయడు తనతండ్రిగారికి చేసినమర్యాద గుడిపాటి గ్రామం  
అమరం అనుభవించుకుంటూ రాయలవారి కొలువులో ఉండి రాయల

వారి అనుగ్రహానికి పాత్రుడై ఉంటూ ఉన్నంతలో శాలివాహనశక వర్షంబులు 1387 (A. D. 1465) అగునేటి తారణ సంవత్సరములో కృష్ణ దేవరాయలువారు నిర్యాణం అయిరి. తదనంతరం విద్యానగరం సంస్థానంలో ఉండే బొక్కనం గొల్లసల్గు తిమ్మయ్య అనేవాడు విద్యానగర ప్రాంత్యమందు అడాకొడిచేసి కొన్ని దినములు వ్యవహారంచేస్తూ ఉండే యెడలలో పట్నాన్గు ఎవరున్న అధిపతి లేకయున్నందున దేశం అరాచకం అయియుండెను. ఈ లాగున జరుగుతూ ఉన్న తదనంతరం తిరుమలరాయలు రామరాయలు వీరు ఉభయులున్న అన్నదమ్ములున్న కృష్ణరాయలవారికి అల్లుండ్లు గనుక వీరికే పట్టాభిషేకంచేసి విద్యానగరం పట్టణానకు రాజధాని నిష్కర్ష చేసికొనియుండిరి.

ఈ తిరుమలరాయలవారు రామరాయలవారు ప్రభుత్వంచేస్తూ ఉండగా ఈ వెంగళనాయడు వారికొలుపులో ఉంటున్న ఈ దూపాటి తాలూకాలో గుడిపాటిలోనే ఉండెను. ఈ తిరుమలరాయలవారు కొన్ని సంవత్సరములు ప్రభుత్వంచేసి నిర్యాణం అయిరి.

తదనంతరం సదాశివరాయలు వెంకటపతిరాయలు మొదలయిన వారు రాయలసంతతివారు ప్రభుత్వం చేస్తూ ఉండగా వెంగళనాయడు నలభై సంవత్సరములు నౌకరీలో ఉండి దూపాటితాలూకా అమాసీ వ్యవహారం విచారం చేస్తూ ఉండి నష్టమైపోయెను. ఈ వెంగళనాయని కుమారుడు వెంకటాద్రినాయడు రాయలవారి సంస్థానంలో తన తండ్రి గారు చేసినట్లుగానే యాభై అరవై సంవత్సరాలపర్యంతం కొల్వులో జీవించి ఆ వెనుక వెంకటాద్రినాయడును చనిపోయెను. అపుడు శాలి వాహనశకవర్షంబులు 1477 (A. D. 1554) అగునేటి ఆనందనామ సంవత్సరంవరకు వెంకటాద్రినాయనికుమారుడు శాయప్పనాయడు ఉత్పత్తి అయియుండెను. ఆయనకే రంగప్పనాయడనే పేరు ఉండెను. అటుతర్వాత ఈ చినశాయప్పనాయడు ఇరవై యేడు సంవత్సరముల వాడు అయ్యేవరకు శా || శ || 1504 (A. D. 1582) అగునేటి చిత్రభాను సంవత్సరంలో రాయలవారి సంస్థానానికి ఉపద్రవంవచ్చి గోలకొండం

బిజాపురం హందానగరం బిదురు ఈ మొదలయిన ప్రాంత్యములనుంచి సుల్తాను అబ్దుల్లాకుతుబుషా బాదుషహాగారున్న మహమ్మదు ఆదిల్ షా బాదుషాగారున్న హందానగరం నిజాంషా బాదుషాగారున్న నాగపురం ఇమాంషా బాదుషాగారున్న ఈ మొదలైన బాదుషాలు తురకలు దండెత్తినచ్చి విద్యానగరం పెనుగొండ సమేతం రాజ్యాలు తీసుకొని ప్రభుత్వం చేస్తూ ఉండిరి. ఈ ప్రకారం తురకలు ప్రభుత్వం చేస్తూ ఉండగా శ్రీశైలపర్వతసమీపభూములలో కొల్లివారు అనే ఇంటి పేరు గల్గిన బోయలున్న జల్లివారు అనే ఇంటి పేరు గల్గిన బోయలున్న చాలా ఉపద్రవాలు చేస్తున్న ఈ భూమి అంతా అరాచకం క్రిందికి తెచ్చినందుకు ఇచ్చట ప్రజలు బహు అలజడిగా ఉండిరి. అప్పుడు కొల్లి వారి దగ్గర నౌకరీలో ఉండే నియోగి గోపాలుని రామప్పయ్య అనే బ్రాహ్మణుడు ఉండి ఈ శాయపనాయనితో విహితముగా ఉంటూ ఉండెను. ఈ శాయపనాయనితో విహితముగా ఉన్న సంగతి కొన్ని దినములకు ఆ కొల్లివారు తెలుసుకొని వ్యవహారరీతిన ఒక నెపంచేసి యీ రామప్పయ్యమీదను చాలా కోపంచేసి నిర్బంధన చేసినందున రామప్పయ్య తప్పించుకొనివచ్చి ఈ శాయపనాయని అండనుచేరి కొన్ని దినములు గడచినతరువాత ఈ శాయపనాయనితో రామప్పయ్య అనగదా! ఊర్కె మీ సొమ్ము భోజ్యంచేస్తూ ఈలాగున ఉన్నందున మీకు ఏమి లాభం వస్తుంది. కొంచెం గొప్ప ఖర్చుకు ఇచ్చినన్న గోలు కొండకు పంపిస్తే నేను పోయి సుల్తాను అబ్దుల్లా కుతుబ్ షా బాదుషా గారి దర్శనం అయి మీవృత్తాంతం వారితో మనవిచేసి మీకు విస్తారం జహగీరు వగైరాలు దయచేసి యిచ్చేటట్టుగా జాగ్రతచేసుకవస్తాను అని చెప్పినంతలో శాయపనాయను సంతోషంచేతను సమ్మతించినవాడై రామప్పయ్యను ప్రయాణంచేసి ఖర్చుకు ఇచ్చి పంపించినమీదను రామప్పయ్య గోలకొండకు పోయి అయిదారు మాసములుండి అక్కడ ఉండే అమీర్లు హుమ్మూరావులు దివానులు మొదలయిన గొప్పగొప్ప వారిని అందరి దర్శనం చేసికొని అనుదినం వారిని అనుసరించుకుంటూ బాదుషహాగారి కచేరికి పోతూవస్తున్న ఈ లాగున ఉమేజువారి చేసు

కుంటూ ఉన్నంతలో ఇక్కడ బోయలు దేశాలలో చేస్తూ ఉన్న దౌర్జన్యముదలైన ఉపద్రవాలచేత దేశం అంతా అరాచకం అయినందున ఈవర్తమానం బాదుషహాగారు పూరా విన్నవారై వాండ్రను కొట్టివేళేటందుకు ఎవరికి అయినా హుకుం ఇప్పించుమని దివానులతో శలవు ఇచ్చేసమయమంను ఈ రామప్పయ్య ఆ కచ్చేరీలోనే ఉన్నాడు గనుక లేచినిలుచుండి బాదుషహాగారికి ఖార్షీ ఘచేసి మనవిచేసె గదా! తమ అనుజ్ఞ అయి ఘజను శలవుఇస్తే శాయప్పనాయడు అనే కమ్మవారు బహుదినముల నుంచి కృష్ణ దేవరాయలవారి సంస్థానంలో శానా కార్యములలో వారి పెద్దలు చాలా దయ సంపాద్యం చేసుకొని కొంచం జీవనంలో బహుమానుషంగా గడుపుకొంటూ ఉన్నాడు. శాయపనాయడు బహుక్షాత్ర వంతుడు ఉన్నాడు. ఈ హుకుంకు ఆయనపేరున ఫర్మానా దయచేసి వ్రాయించియిస్తే యీ ఘజనున్న ఆ ఫర్మానాను నేను పట్టించుకొనిపోయి తమ హుకుం ఇచ్చినప్రకారం జాగ్రతచేసుకొని శాయపనాయని తమ సముఖమునకు వెంటబెట్టుకొని వస్తానని రామప్పయ్య ఘనవి చేసినంతలో అదేప్రకారంగా శాయపనాయనిగారికి ఫర్మానా వ్రాయించియిచ్చి కొంత గుట్టమును కొంతమందిని ఇప్పించి సదరహి కొల్లివారిని, జల్లివారిని కొట్టివేయుమని రామప్పయ్యకు శలవు ఇచ్చిన తర్వాత రామప్పయ్య ఆ గుట్టం మందితోకూడా వచ్చి శాయపనాయడు ఉన్న స్థళానకు ఆవల నాలుగుక్రోసుల మీదను తనతోకూడా వచ్చిన ఘజను నిల్చి రామప్పయ్య వచ్చి శాయపనాయనివారితో తాను ఘహారుకు పోయినసంగతి హజరతు గారి దర్శనం చేసుకొన్నవయినం వారితో తాను సమక్షమం మనవి చేసిన ప్రసంగం బాదుషహాగారికి దయవచ్చి శలవు ఇచ్చిన హుకుం ఫర్మానాయావత్తు అగుపరచినందున ఈ శాయపనాయుడికి చాలా సంతోషమయి ఆ గుట్టం మందితోకూడా జమాయించుకపోయి సదరహి గోయలమీద లడాయిచేసి తమాంకొట్టివేసి దేశఉపద్రవం(?) ఆ బోయల స్థలాలలో దాణాలు ఉంచి ఈ గుట్టం మందితోకూడా రావూరు మన్నె వల్లెయ్యగారు అనే రాజబంధువుడున్న కొర్లుకుంట పాపనాయడనే వెలమఆయనను వెంటబెట్టుకొని ఘహారుకుపోయి బాదుషాగారి దర్శనం

చేసుకున్నంతలో బాదుషాగారు చాలా దయచేసి అపుడు ఆత్మకూరు సిద్ధాపురం తాలూకాలు దూపాటితాలూకా ఖమ్మం తాలూకాలో జహాగీరులున్న దేశాలలో గ్రామగ్రామాన్ను ఏర్పడినశిస్తుకు నూటికి రెండువరహాలు మన్నెకావలిరుసుములున్న పర్యంతం హాళ్వీలులో పూర్వం ద్వారంనుంచి వచ్చే హాళ్వీలున్న ఇవి మొదలయిన విస్తారం జీవనం దయచేసి సనదులు వ్రాసి ఇవ్వడంలో రావూరు మన్నెపల్లెయ్య గారికిన్ని కొల్లికుంట పాపనాయనింగారికిన్ని కొద్దిగా కొన్ని పల్లెలు ఇస్తూవచ్చి యేయేకార్యములలో శాయపనాయనింగారితోకూడా ఈయన హితవిశ్వాసములో ఉండుకొమ్మని శలవుఇచ్చి శాయపనాయని హుజూరున ఉండేటట్టుగా హుకుం ఇచ్చినంతలో ఈ ప్రకారం అనుభవిస్తూ సర్కారులో ఏయేకార్యములలో నమూదు అయియున్నారు గనుక శాయపనాయనివారు అనే పురుషనామంచేతను ఇంటిపేరు అయినది. ఆ లాగున కొన్ని సంవత్సరములు జరిగేవరకు శాయపనాయనిక గంగప్పనాయడు అనే కుమారుడు ఉత్పత్తి ఆయెను. గంగప్పనాయడు పన్నెండు సంవత్సరముల వాడు అయినతరువాత ఈ చిన్నవానిని బాదుషహాగారి దర్శనం చేయించి అక్కడి సర్కారుపనులలో హుకుంప్రకారం హాజరుగా నడుచు కంటూఉండేటందుకు నమూదుచేసి మరికొన్ని దినములకు శాయపనాయడు చనిపోయెను. అపుడు శా|| శ|| వర్షంబులు 1514 (A. D. 1592) అగునేటి నందన సంవత్సరం తదారభ్యం గంగప్పనాయడు శాయపనాయనికన్న యొక్కవగా సర్కారులో దయ సంపాద్యం చేసుకొని తమకు నిర్ణయమై యున్న తాలూకాలు రుసుంలు వగైరాలు అనుభవిస్తూ సర్కారు కార్యకలాపాలలో యేయేపనులకు కుమ్మక్కలయి పనులు జరుపుతూ ఉండి యున్నంతలో తిరిగి కొండవీడు వినకొండసీమలు వగైరా మృత్తుజాన్నగరు తాలూకాలు జహాగీరులు ఏర్పరచి యిచ్చినందున అవిన్ని అనుభవిస్తూఉండి యుండిరి. ఈ రీతిన ఉండగా 1023 (A. D. 1614) హిజరీలో సుల్తాను అబ్దుల్లాకుతుబుషహాబాదుషహాగారి ప్రభుత్వం పోయెను. తిరిగి అప్పుడు అబ్దుల్లా కుతుబుషహాబాదుషహాగారి ప్రభుత్వం ఆయెను(?). అది వరనుంచి గంగప్పనాయడు రూబరు (సముఖం) నౌకరిలో వుండియుండెను.

ఈలాగున జరిగిన కొన్ని దినముల తదనంతరం గంగప్పనాయనికి వెంకటాద్రినాయడు అనే కుమారుడు ఉత్పత్తి అయియుండి దినదినం ప్రవర్ధమానంచేతను తండ్రిగారితోకూడ సర్కారులోకి రావటమున్ను ఎక్కడెక్కడ కార్యకరాలలో తండ్రిగారితోకూడా వుండియుండిరి. ఈ ప్రకారం వున్నమీదట శా. శ. వర్షంబులు 1532 (A. D. 1610) అగు నేటి సాధారణనామ సంవత్సరములో గంగప్పనాయడు చనిపోయెను. తదనంతరం వెంకటాద్రినాయడు సర్కారులో అత్యంత అనుగ్రహం సంపాద్యం చేసుకొనిన లగాయతునుంచి తమ క్రిందవున్న తాలూకాల వ్యవహారం చక్కగా చేసుకుంటూ వుండి శ్రీశైలపర్వతానకు పూర్వ దిక్కున పదిహేనుక్రోసులమీదను నూపాటి తాలూకాలోనే అరణ్య మధ్యమందు దద్దనాల అనే నామంచేతను పూర్వాననుంచి నామనిరూపణ అయియుండే స్థలంమీదను కొంచంగా చెంచుకుటీరాలు వుండియుండగా ఈ శ్రీశైలమల్లి కార్జునస్వామివారి పర్వతసమీపమందున అనేక ప్రదేశాలనుంచి విస్తారంజనం వస్తూవుండేమార్గము గనుక వెంకటాద్రి నాయడు భగవద్భక్తుడు గనుక అక్కడ నివాసం చేయవలయునని భాదుషహాగారి సెలవు తీసుకొని విస్తారం గొప్పగొప్ప పట్నాలకు కవుళ్లు వ్రాయింది కోమట్లు బేరికోమట్లు మారువాడీలు వగైరా సాహు కార్లు చిల్లరవర్తకులు వగైరాలను పిలుపించి పట్టణ నిర్మాణం చేయించి అక్కడ తమరు లోగిలి కట్టించుకొని ఈ ప్రకారంగా వుండునంతలో శ్రీ మల్లి కార్జునస్వామివారి కృపవల్లను పట్టణం ఏర్పడిన తదారభ్యం దినదినప్రవర్ధమానం అయి ఏనూరుఇంట్లు మారువాడీవర్తకులున్ను ఏనూరుఇంట్లు కోమట్లు చిల్లరవగైరా వర్తకులున్ను ఇంకా ఇతరమైన వర్ణాలవారిని నిల్పి మూడుక్రోసులపట్టణం చేసి తాను పదకొండు ఘటాల ఏనుగులున్ను అరవై అందలములవారున్ను గొప్పగొప్ప నౌకర్లున్ను సంపాద్యం చేసియుంచి దద్దనాలపట్టణానికి తూర్పు నాల్గుక్రోసుల మీదను వెంకటాద్రినాయనిపాళెం అని తన పేరున ఒక గ్రామం నిర్మాణం చేసి అక్కడ దేవస్థలం కట్టించి శ్రీ చెన్నకేశవస్వామివారి సంప్రోక్షణ చేయించి ఆ యూరికే పశ్చిమంవైపున అఖండమైన గండిచెరువు అని

విస్తారం వేలపర్యంతం పదార్థం ఇచ్చి ఒక చెరువుకట్ట వేయించి యొక్క డక్కడ తమ క్రింద వుండే తాలూకాలలో చెరువులు వనాంతరాలు దేవస్థలాలు ప్రతిష్ఠలు చేయించి పురాతనం అయివుండే త్రిపురాంతక ములో శ్రీ త్రిపురాంతక ఈశ్వరస్వామివారి పుత్రవం మొదలయినవి పాలన చేసుకుంటూ నవీన స్థలాలు సంప్రోక్షణము చేస్తున్న దేవ బ్రాహ్మణపాలన రాజబంధువులు నౌకర్లు మొదలయినవారికి సంరక్షణ చేస్తున్న ఈ ప్రకారంగా సకలధర్మాలు చేసుకుంటూ దానక్షేత్రాల యందు అత్యంతపరిశీలన చేసుకుంటూ సకలభోగభాగ్యములచేతను సుఖానుభవంగా రాజ్యపాలన చేసుకుంటూ వుండేయెడల దేశాలు అన్ని తురకల ప్రభుత్వం అయినప్పటికిన్ని కృష్ణ దేవరాయలవారి సంస్థానానకు బాధ్యస్థులు అయియుండే ఆరవీటి తిరుమల దేవరాయలవారి సంతతివారు అయిన వెంకటదేవరాయలవారు కొంతమట్టుకు దేశం విచారించుతూ వుండియుండే ప్రమేయంలో శాయపనాయనివెంకట్రాదినాయనివారు నిర్మాణంచేసిన వెంకటాద్రిపాళెంలో శ్రీ చెన్నకేశవస్వామివారి దేవాలయమందు బహిర్ద్వారం దగ్గర అడగా పాతిన తొక్కుడుబండమీద వుండే శిలాశాసనం ఏకపక్షమందున వున్నవయినం.

శ్రీభూమిపరిరంభజాత పులకప్రోద్దామ బాహాంతరో  
 నీలాంభోద విలాసవిభ్రమ తటిత్సంకాశ హేమాంబరః  
 భక్తస్తోమ మహాహితార్థకలనే హస్తైశ్చతుర్భిర్యుతో  
 నిత్యం రాజతి వేంకటాద్రినగరే శ్రీచన్నరాయోహరిః. 1

స్వప్తిశ్రీ జయమంగళాభ్యుదయ సర్వాభీష్ట నిత్యోత్సవ  
 శ్రేయఃసంతతి శాలివాహనశక ప్రఖ్యాతవర్షక్రమే  
 సంవృత్తే రస రామ బాణ శశికే (S. S. 1536 A. D. 1614)

చానందసంవత్సరే

చామాణ్ణే సితపక్ష విష్ణుదివసే దేవేజ్యవారాస్వితే. 2

శ్రీమద్రాజవరాధిరాజరమణే వీరప్రతాపోదయే  
 శ్రీరాజస్యవరేశ్వరే ఘనగిరౌ శ్రీరత్నసింహాసనే  
 శ్రీమద్వేంకటదేవరాయతిలకే రాజేంద్రచూడామణౌ  
 దేవబ్రాహ్మణరక్షణాయ పృథివీసామ్రాజ్య మాతస్వతీ. 3

శ్రీనేతుర్నిఖలాండకోటిగణితే బ్రహ్మాండభాండే చతు  
 ర్నానావేదతదంత వేద్యమహిమానందామృతాంభోనిధేః  
 ప్రోద్యద్వైభవ చన్నకేశవహారేః శ్రీపాదపద్మద్వయే  
 సేవాతత్పర మానసార్యచరణాంభోజాత సేవాపరః 4

శ్రీమత్ శాయపనాయకాస్వయమణేః గంగక్షమాధీశితుః  
 పాత్రః శ్రీగిరిమండలావనచణః శ్రీవెంకటాద్రిప్రభోః  
 పుత్రో గంగపనాయక స్సుచరితో మాదాలగోత్రోద్భవః  
 కృత్వా గ్రామసమర్పణం రచయతి స్థిత్యై శిలాశాసనం. 5

మద్వంశబాహువై భవ సంతతపరిపాలితాతి  
 సస్యాధ్యా శ్రీశైలపూర్వభాగే దూపాటినామసీమనిఖ్యాతం  
 గుర్రపుసాలగ్రామం తద్ద్రాసం? చన్నరాయని పల్ల్యాఖ్యాం  
 గార్లదిన్నెగ్రామంచ కటారువానిపల్ల్యాఖ్యాం  
 నిధినిక్షేపజలాదిభిరన్వితా సతతమప్తభిర్భాగైః  
 కూపారామతటాకై ర్నానావర్ణప్రజాభిరాపూర్ణాన్  
 గ్రామసేతాంశ్చతురస్రమర్ప్య నిత్యోత్సవాదినేవార్థం  
 శ్రీచన్నరాయ దివ్యశ్రీమచ్చరణారవిందయుగళాయ  
 కృత్వా ప్రణతిసహస్రం విజ్ఞాపిత మేతదీప్సితం హి మయా.  
 స్వామిన్ ! తత్ఫలమఖిలం కరుణాదృష్ట్యా వధారయాకల్పం  
 పరిపాలయంతి యేవై మద్ధర్మం తా ననారతం పాహి  
 ఆచంద్రతారకమిదం జయతు శిలాశాసనం ముదా రచితం  
 మద్వంశజాః పరమహీపతివంశజావా

యే భూమిపాః సతతముజ్జ్వలధర్మచిత్తాః  
 మద్ధర్మమేవ సతతం పరిపాలయంతి  
 తత్పాదుకద్వయమహం శిరసా వహామి  
 న్వదత్తాం పరదత్తాం వా యో హారేత వసుంధరాం  
 షష్టిర్వర్ష సహస్రాణి విష్టాయాం జాయతే క్రిమిః.  
 దానపాలన యోగ్యే దానా చ్ఛేయోనుపాలనం  
 దానా త్వర్గ మవాప్నోతి పాలనాదచ్యుతంపదం.

ఈ ప్రకారం శిలాశాసనం వున్నది.

వెంకటాద్రినాయనివారు ఎక్కడెక్కడ తమ స్వాధీనముగా వుండే స్థలాలలో వారియొక్క పుద్ధారములు పుద్ధారికములు ఆకరాలు వుంచి గతించి పోయినారు. వారు తీరిపోయేవరకు వెంకటపతినాయడు సిద్ధన్న గారు అని ఇద్దరుకుమాళ్లు వుత్పత్తి అయియుండి దినదినప్రథమాన ఆవుతూవుండే యెడల వీరి మేనత్తగారు “అక్కగారు” అనే నామం కలిగిన పుణ్యాత్మురాలు ఈ చెన్నకేశవస్వామివారి దేవాలయానకు తూర్పున రెండు క్రోసులమీదను మిల్లెంపల్లి అనే గ్రామంలో శ్రీ వేణు గోపాలస్వామివారికి సంప్రోక్షణ చేయించి దేవాలయం ప్రాకారం మొదలయినవి కట్టించి సింహద్వారం గోపురం కట్టించవలెనని జగతి ఉపజగతి మహాజగతి మొదలైనవి కట్టించి అయిదు నిలువుల మట్టుకు ఒక అంతస్తు ఏర్పరచి అందుమీదను సకలమైన చిత్రవిచిత్రాలుగా ప్రతిమె మోడి నిర్మించి అంతస్తుపైన కప్పబండలమీదను అక్కగారిధర్మం కప్పు బండలతోసరి అని శిలాశాసనం వేయించి అమె గతించిపోయినది.

తదనంతరం పయినవ్రాసిన చిన్న వారు వెంకటపతినాయడు సిద్ధన్న గారు ఇద్దరున్న హా|| మహమ్మదలీషా బాదుషహాగారికి తమ సమాచారమున్ను తమతండ్రిగారు చనిపోయినసంగతిన్ని ఉత్తరాలు వ్రాయించి వకీలును పట్నానికి పంపించినంతలో దర్శనానికి రమ్మని ఫర్మానా వచ్చిన మీదట వీరు ఇద్దరును బాదుషహా దర్శనానికి పోయి క్రిందట తమపెద్దలు

నటించిన సమాచారం నక్కరువారు దయచేసి ఇచ్చిన తాలూకాలు వగైరా సనదుసూత్రాలు యావత్తు కాగితాలు చూపించినంతలో చాలా ప్రీతిచేసి యథాప్రకారం ఏయేతాలూకాలు శలవు యిచ్చినందున గుఱ్ఱం మందితోకూడా హుజూరుననే యుండి దేశాలు సంస్థానం విచారించు కుంటూ యుండేదినములలో వెంకటపతినాయనింగారి దస్కతు మొహనుతోకూడా వ్రాయించి యిచ్చిన దానపత్రాలు దస్తావేజులు ఉన్నవయినం.

స్వస్తిశ్రీ శా॥ శ॥ వర్షంబులు 1556 (A. D. 1634) అగునేటి భావనామ సం॥ పుష్య బ॥ ౧౩ శ్రీ మన్నాదాలగోత్రోద్భవులున్న సాయపనాయని చినగంగపనాయనింగారి పౌత్రులున్న వెంకటాద్రి నాయనింగారి పుత్రులున్న అయిన వెంకటపతినాయనింగారు యజ్ఞ శ్యాఖాధ్యయన ఆపస్తంబసూత్ర కౌండిన్యనగోత్రోద్భవులయిన కాశావర్షుల సర్వాభొట్లుగారి పౌత్రులున్న లక్ష్మీపతిగారి పుత్రులున్న అయిన సర్వాభొట్లుగారికి యిచ్చిన భూదానధర్మశాసన పత్రిక క్రమ మెట్లన్నను : మా నాయంకరానకుచెల్లీ దూపాటిసీమలో బద్దివీటిగ్రామం చెర్వుక్రిందను నడిగడ్డస్థలమందును చాటిమడి ..... 1½ కైవీన తూమెడున్నర.....ఆరెమాని చేనుస్థళం కుచ్చెలాను ఈ మకరసంక్రాంతి పుణ్యకాలమందు ఇస్తిమి గనుక పుత్రపౌత్ర పారంపర్యం అనుభవించు ణానేది.

స్వస్తిశ్రీ శా॥ శ॥ 1560 (A. D. 1638) బహుభాన్య సం॥ మాఘ శు॥ ౧౦॥ గురువారం శ్రీ మాదాలగోత్రోద్భవులైన సాయపనాయని గంగపనాయని పౌత్రులు వెంకటాద్రినాయనింగారి పుత్రులు వెంకటపతి నాయనింగారు కాశావర్షుల సర్వాభొట్లుగారి పౌత్రులు లక్ష్మీపతిగారి పుత్రులు అయిన సర్వాభొట్లుగారికి ఇచ్చిన భూదానశాసనం. మా నాయంకరానకుచెల్లీ ప్రగళ్లపాలెం గ్రామాన రాకుండ్ల కుర్నతోవకు పశ్చిమంచేను కుచ్చెల ఒకటి నాగులకట్టక్రింద వెరిమడితూమెడు అడ్డ గాండకు పశ్చిమం చేనుకుచ్చలి ఒకటి వెరసి వెలిపాలుకుచ్చళ్లు రెండు

పరిమడితూ మొడు ఈ మకరసంక్రాంతి పుణ్యకాలమందు సహిరణ్యోదక దాన ధారాపూర్వకముగ ఇ స్తిమి గనుక మీ పుత్రపౌత్ర పారంపర్యంతం ఆచంద్రార్కస్థాయిగాను సుఖస్థితిని అనుభవించేది.

ఏకైకభగినీ లోకే సర్వేషామేవ భూభుజాః  
సభోజ్యోనకరగ్రాహ్యో విప్రదత్తావసుంధరా

ఈ ప్రకారం వకదానపత్రం వున్నది. ఇదే ప్రకారంగా ఎక్కడెక్కడ దేశాలలో దస్తావేజులుంచి ప్రభుత్వం చేసుకుంటూ శా. శ. వర్షంబులు 1560 (A. D. 1638) అగునేటి బహుధాన్యనామ సంవత్సరం లోనే వెంకటపతినాయనింగారు చనిపోయిరి. ఆయన గతించిపోయ్యే వరకు తిమ్మానాయడు రాగప్పనాయడు అను ఇద్దరు కొమ్మల్లు వుత్పత్తి అయియుండిరి. వీరు ఇద్దరు కేవలం చిన్నవారై అయివుండిరి. గనుక సదరు వెంకటపతినాయనింగారి తమ్ముడు సిద్ధన్నగారు వీరుఇద్దరు చిన్న వాండ్లు వ్యక్తులు అయ్యేపర్యంతం వ్యవహారం చేసికొనేయెడలలో లోపయినం నుంచి వీరిక్రింద ఉన్న తాలూకాలు సర్కారువారు అమా నితం చేసుకొన్నారు. అంతట కొంచంగా ఇలాకా ఉంచుకొని చిన్న వారిని సంరక్షణ చేసికొంటూ ఇలాకా తగిలియున్న తాలూకాలు వ్యవ హారం చేస్తూ ఉండేవరకు సదరు తిమ్మనాయడు రాగప్పనాయడు ఇద్దరూ వ్యక్తులు అయి అప్పుడు రావులన్నగారు అనే రాజబంధువు ఒకడు కొద్దుకట్టి వెంకన్నగారు అనే వెలమ ఆయన ఒకరున్న దూపాటి తాలూకాలో తమ పెద్దలనాటినుంచి చాకిరీ చేస్తూ ఉండే చోడవారు నల్లాటివారు అనే ఇంటిపేరుకల్గిన పెరవీటి గొల్లలున్న వీరిని వెంట తీసుకొని నిమిత్తంగా తగునట్లుగా మందితోకూడా గోలుకొండకు పోయి అక్కడ హ॥ మహమ్మద్ అలీషాబాదుషహాగారి దర్శనం చేసుకొని తమ పూర్వోత్తరం యావత్తు జ్ఞాపకంచేసుకొని పెద్దలనాటినుంచి ఉండే కాగిదపత్రాలు సనదులువగైరాలు హజరతుగారికి చూపించినంతలో చాలా ప్రీతిచేసి కొంతగుట్టం మందిని వెంట ఇచ్చి హజరతుగారికి మొవాసులయి ఉండే ఉత్తరాది దేశాలలో జాగీర్లు మొదలయినవి అను

భవిష్యు ఉండే తురకలమీదికి లడాయి నిమిత్తం కొంతమంది హుమ్మై రావులు మొదలైన వారితోకూడ ఈ తిమ్మనాయడు రాగప్పనాయనింగారిని పంపించినంతలో వీరు ఇద్దరు చిన్నవారు అను భయంలేక దైవానుగ్రహం చేతను ఎదుటి ఘంజను ఫలాయనంచేసి ఆచూస్థలాలలో సర్కారువారి తాణుబంధులుచేసి తిరిగి మాజరతుగారి దర్శనానికి వచ్చినంతలో ఈ తిమ్మనాయడు రాగప్పనాయనివారిమీద చాలా దయవచ్చి మీరు మాకు నమ్మకమైనవారు గనుక ముద్దతునుంచీ సర్కారువారు ఈ ప్రకారం దయచేసుకవస్తూ ఉన్నారు. మీయందు మాకు మరేమీ సంశయం లేదు అని నిశ్చయంచేసుకొని మునుపు ఉండే పరగణాలు జహగీర్లు వగైరాలకు తిరిగి సనదులు వ్రాయించియిచ్చి దరిశ పెళ్లరుపాడి తేశీమ మొదలైనవి కొన్ని తాలూకాలు సెలవు ఇచ్చినంతలో తిమ్మనాయనింగారు సర్కారులోనున్న రాగప్పనాయనింగారు తాలూకాలో నున్న ఇలాగున వ్యవహారం బందోబస్తు చేస్తూ ఉండియుండగా తిమ్మనాయనింగారికి పెద వెంకటాద్రినాయడున్న ఈయన కుమారుడు వెంకటాద్రినాయడు అనే నామం కలిగియుండెను. ఈయన ఒకరు చినవెంకటాద్రినాయడు అని ఒకరు ఇద్దరు కుమారులు ఉత్పత్తి అయిరి. వీరు ఉత్పత్తి అయిన తరువాత కొంచెము దినములలోనే తిమ్మనాయనింగారు చనిపోయిరి. అప్పుడు శా.శ. వర్షంబులు 1578 (A. D. 1656) అగునేటి దుర్ముఖనామ సంవత్సరం తదారభ్యం పెదవెంకటాద్రినాయడు చినవెంకటాద్రినాయడు ఈ ఇద్దరున్న అవతారసమానులుగా భూమిపాలన చేసే నిమిత్తము దినదినప్రవర్ధమానులు అవుతున్న సకలమైన జ్ఞానం చేతను వృద్ధిపొందుతూ ఉండిరి. వీరు చిన్నవారలై ఉండియుండిరి. కనుక వీరి పినతండ్రి అయిన రాగప్పనాయడు కొండవీటిసీమ జహగీరు తన స్వంతముగా విచారించుకొని తతిమ్మా తాలూకాలు దివాను ముస్సద్దీలు గుండా వ్యవహారం చేయించుతూ ఈ లాగున కొన్ని సంవత్సరములు జరుగగా పెదవెంకటాద్రినాయడు చినవెంకటాద్రినాయడు ఇద్దరున్న కొంచెం వ్యక్తులు అయి వ్యవహారం విచారించుకుంటూ ఉండే యెడలలో వెంకటాద్రినాయనింగారు వ్రాయించియిచ్చిన దానపత్రాల వయినం.

1. స్వస్తిశ్రీ శా. శ. వన్సంబులు 1583 (A. D. 1661) అగునేటి ప్లవనామసంవత్సరం కార్తీక శుద్ధ 15 శ్రీమల్లికార్జున శ్రీమన్మహాదేవేశ్వర స్వాముల యాజకులున్న యజుశ్శాఖాధ్యయనులున్న ఆపస్తంబ సూత్రులున్న కౌండిన్యసగోత్రులున్న వీరభద్రయ్యగార్ల పాత్రులున్న భోగయలింగయ్యవార్లగారి పుత్రులున్న బ్రహ్మలింగయ్యవార్లగారికి శ్రీమన్నాదాలగోత్రులున్న శాయపనాయని వెంకటాద్రినాయనింగారి పుత్రులున్న మీ ప్రియశిష్యులున్న అయిన శాయపనాయని కుమార వెంకటాద్రినాయనింగారు వ్రాయించియిచ్చిన భూదాన పత్రిక : మాకు హజరతుగారు దయచేసి యిచ్చిన మొఖాసా వినుకొండసీమ పల్లెలలో అందుగులపాటిగ్రామానకు తూర్పుభాగానను కైవీస యాభైకుచ్చెళ్లు బీటుపొలం సహిరణ్యోదక దానధారాపూర్వకంగాను ఈ తథాతిథి పుణ్య కాలమందు ఇస్తిమి. గనుక ఆ పొలంలోను శివపురం అనే అగ్రహారం కట్టుకొని సుఖాన జపశివార్చనలు చేసుకుంటూ నిత్య త్రికాలములయం దున్న స్వామికి మంత్రపుష్పం పెట్టుకుంటూ మీ పుత్రపాత్ర పారం వర్యంతం ఆచంద్రార్కస్థాయిగాను అనుభవిస్తూ ఉండేది.

దానపాలనయోర్మధ్యే దానా చ్చేయోనుపాలనం  
దానా త్వర్గమవాప్నోతి పాలనా దచ్యుతంపదం.  
స్వదత్తా ద్ద్విగుణం పుణ్యం పరదత్తాను పాలనం  
పరదత్తాపహారేణ స్వదత్తం నిష్ఫలం భవేత్.

శ్రీశైలేశ్వర యజ్ఞతంత్రవిదుషే

సర్వాగమంత్ర క్రియా

ధాత్ర్యాం బ్రహ్మయలింగనామ గురవే

విఖ్యాత నామాంకితః

శాయప్పాస్వయ వెంకటాద్రి ధరణీ

నాథేన కుంఠితే

సందత్తం ప్లవవత్సరే శివపురం

సర్వేశ్వర ప్రీతయే.

ఈ ప్రకారం దానపత్రం ఉన్నది.

(2) సాయపనాయని రాగప్పనాయడు వ్రాయించి యిచ్చిన దానపత్రాలు.

స్వస్తిశ్రీ శాలివాహనశక వర్షంబులు 1597 (A. D. 1676) అగు నేటి రాక్షసనామ సంవత్సర మాఘ శు 15 యజుశ్శాఖాధ్యయనులున్ను ఆపస్తంబసూత్రులున్ను కౌండిన్యసగోత్రులున్ను వీరభద్ర అయ్యగార్ల వారి పౌత్రులున్ను భోగయలింగం ఆయ్యవార్లగారి పుత్రులున్ను అయిన బెజవాడ బ్రహ్మయలింగయ్యగార్లవారికి మాదాల గోత్రోద్భవులున్ను వెంకటాద్రి నాయనింగారి పౌత్రులున్ను వెంకటపతి నాయనింగారి పుత్రులున్ను అయిన మీ ప్రియశిష్యులు శాయపనాయనింగారు వ్రాయించి యిచ్చిన అగ్రహారం పత్రికె. మీకు మొఖాసా నడిచే కొండవీటిసీమలో సాతులూరుగ్రామాన ఇర్వయిఆరు కుచ్చిళ్లన్నర పొలం మీకు సమర్పిస్తమి గనుక సుందరిపురం అనేపేరిట అగ్రహారం కట్టించుకొని విరివిగా ఫలం పండింపించుకొని నిధినిక్షేపనహితంగాను మీ పుత్రపౌత్ర పారంపర్యం అనుభవించుకొని సుఖాన ఉండుకొనేది.

స్వదత్తా ద్విగుణం పుణ్యం పరదత్తాను పాలనం  
పరదత్తాపహారేణ స్వదత్తం నిష్ఫలం భవేత్  
దత్తం బ్రహ్మయలింగనామగురవే సర్వేశ్వర ప్రీతయే  
శాయప్పన్వయ రాగభూమిపతినా షడ్వింశతిక్షేత్రకం  
త్రింశత్త్రింశతి వాపికా వటయుగ ద్వంద్వైర్వైరసాలైర్మృతం  
మాణుని త్రితయానిగ్రతం పురవరం శ్రీసుందరీ నామకం

ఈ ప్రకారం దానపత్రం వ్రాసియున్నది.

ఇదే ప్రకారంగా సదరున వ్రాసి రాక్షసనామ సంవత్సర మాఘ శు 15 రోజుననే రాగప్పనాయడు వ్రాయించి యిచ్చిన దానపత్రం. యజుశ్శాఖాధ్యయనులున్ను ఆపస్తంబసూత్రులున్ను అయిన ముదిగొండ మనుమప్పగాడు కిరీటి మల్లప్పగాడు మొరవరపు కోనప్పగారికి వ్రాయించి యిచ్చిన భూదాన ధర్మశాసనపత్రిక. మాకు మొఖాసా నడిచే కొండవీటి

సీమలో సాతులూరు గ్రామాన బ్రహ్మయలింగం అయ్యవార్ల గారికి ఇచ్చిన పొలం దాపున నాలుగు కుచ్చళ్లన్నరపొలం యథాతిథి పుణ్యకాలమందున సహిరణ్యోదక దానధారాపూర్వకముగా ఇస్తిమి గనుక అయ్యవార్ల గారున్న మీరున్న సుందరీపురం అనే పేరున అగ్రహారం కట్టించుకొని మీ పుత్రపౌత్ర పారంపర్యంతం ఆచంద్రార్కస్థాయిగా అందువల్లవచ్చిన నానాఫలాదులు అనుభవించి సుఖాన బ్రతికేడి.

స్వదత్తా ద్విగుణం పుణ్యం పరదత్తాను పాలనం  
పరదత్తా పహారేణ స్వదత్తం నిష్ఫలం భవేత్

ఈ ప్రకారం దానపత్రంమీద మొహరు దస్కతులతో కూడ ఉన్నది.

ఈ చొప్పుననే బ్రహ్మయలింగం అయ్యగార్లరివాకి వెంకటాద్రి నాయనింగారు తాము సంస్థానంచేస్తూఉండే పరగణాలలో పరగణా ఒక్కటింటికి ఒక అగ్రహారం చొప్పున వ్రాసియిచ్చి వారికి యానత్తు పదిపేను అగ్రహారాలు ఇచ్చియున్నారు. ఈలాగున వ్యవహారాలు చేసు కుంటూ ఉండేయెడల హ॥ తాసీమాబాదుషహాగారున్న అక్కురసు భానుజీ పంతులువారున్న ప్రభుత్వం షురువు అయినదారభ్యం శా. శ. వర్షంబులు 1599 (A. D. 1677) అగునేటి పింగళనామ సంవత్సర పర్యంతం సర్కారువారి నౌకరీలో హాజరుగా ఉండి యేయే తాలూకాలు వ్యవ హారాలు చేసుకొంటూ ఉండిరి. తదనంతరం హ॥.....బాదుషావారి ప్రభుత్వంలో సాయపనాయని కుమార వేంకటాద్రినాయనింగారి పేరను వ్రాసియిచ్చిన సనదులు హాలీనఉన్న దస్తావేజులు, ఫారసీ లిపి, తెలుగు లిపిన్ని పయిన మొహరు దస్కతులున్న ఉన్నసనదులకు నకలుబొక్కు అలాహిదా ఉన్నది గనుక పేరస్తువయినం.

(1) తిమ్మాజీ పంతులవారు వ్రాయించి యిచ్చిన మన్నె కావలి రుసుముల సన్నదు 1-కిన్ని, 1093 (A. D. 1682) హిజరీలో వ్రాసి యిచ్చినది. తెనుగులిపి పరగణాలలో అయిన శిస్తుకు నూటికి మూడుచర హాలు చొప్పున ఇచ్చించుమని వ్రాసిన పరగణాలు | ప॥ కంభం-5 ప॥ మాచర్లవగైరా - 1 ప, కొచ్చెర్లకోట 1 ప, దూపాడు 1 ప, అద్దంకి

అమ్మి బా॥ 1 ప, దర్పి 1 ప, పొతకమూరు 1 ప, అల్లూరు 1 ప, వెల్లూరు 1 ప, చీమలకుట్టు 1 ప, పొదిలె. ఈ ప్రకారం పరగణాలు 15 కి వ్రాసి యిచ్చిన సనదు.

1. శేఖుశేబాబు వ్రాయించి యిచ్చిన మన్నెకావలి రుసుములు అద్దంకి అమ్మనమోలు వగైరా పరగణాలుకు మామూలు ప్రకారం ఇప్పించుమని 1095 హిజరీలో వ్రాసియిచ్చిన సనదు.

4. మురాదుఖానునివారు వ్రాసియిచ్చిన సనదు. సనదు 1096 (A. D. 1686) హిజరీలో.....

1. మన్నెకావలి రుసుముల నిమిత్తం వ్రాసియిచ్చిన సనదు.

1. కవులునామా కాగితం.

1. దూపాటి తావూకు ఫేషకషకి ఇచ్చిన దొరణాల సమత్ మొఖాసాచేసి యిచ్చినపుడు దొరణసముతుకు వ్రాసియిచ్చిన సనదు.

1. దూపాటిసీమ కోటసీమ వగైరాలలో శాయపనాయనివారి పూర్వులు వేయించిన చెరువులకు ఇచ్చిన దశబంధాలు ఇనాములకు వ్రాయించి యిచ్చిన కాగదులు. 4 మొహదీనుపహిలువాను వ్రాసి ఇచ్చిన కాగిదాలు. సనదు 1097 (A. D. 1686) హిజరీలోను.

1. కంభం వగైరా పరగణాలు జహగీరులు మన్నెకావలి రుసుములు శలవు ఇచ్చేటప్పుడు శాయపనాయని కుమార వెంకటాద్రి నాయని వారికి వ్రాసియిచ్చిన జమీను కాగిదం.

1. తాలూకాల సనదు కాగితం.

2. అలీమదాన్ ఖానువారు వ్రాసియిచ్చినవిన్ని 1098 (A. D. 1687) హిజరీ 1 మన్నెకావలి రుసుము కృష్ణానది సరిహద్దుకు నెకుణం పేట మొదలుచేసుకొని కడప పర్యంతం పరగణాలు 15 కి శిస్తు వరహాలు నూటికి రెండువరహాలు చొప్పున సన్నదు - 1.

1. సర్కారులో గుట్టం మంది కొల్వబడికి వ్రాసియిచ్చినది. 23 పోరుమామిళ్ల బద్దెవోలు పరగణాలలో గ్రామాదులు.

బద్దెవోలు తాలూకాలో గ్రామం. ఈ పద్నాలుగు గ్రామాదులకు బేరీజు మినహాయించేసి ఇచ్చినది వొన్ను మిట్టలు 4384 ఫారసీలిపి మహారాష్ట్రం లిపికూడా ఉన్న సన్నదు.

2. మహమ్మదు మొహమ్మదీగారు వ్రాసియిచ్చినది. సనదు 1099 (A. D. 1688) హిజరీలోను,

1. మన్నె కావలి రుసుముకు పరగణాలు 1 ప, కుంభం 1 ప, దూపాడు 1 ప, కొచ్చర్లకోట 5 ప, మాచర్లవగైరా 1 ప, అద్దంకి అమ్మనబోలు 1 ప, పోదిలె 1 ప, ఆరికట్ల 1 ప, మారెళ్ల 1 ప, పెళ్లూరు 1 ప, చీమకుట్టు 1 ప, దర్శి.

జుములా పదిహేను పరగణాలలో నూటికి రెండువరహాలు చొప్పున 1 దూపాటితాలూకా పైకి వోరణలసమ్మతు మొఖాసాకు వ్రాసియిచ్చిన తాకీకు. 1. వీరదరీస్పరు సనదు 1101 (A. D. 1690) హిజరీలో వయిన వ్రాసిన పదిహేను పరగణాల్కు మూఝాలు ప్రకారం మన్నె కావలి రుసుం ఇప్పించుమని వ్రాసియిచ్చిన సనదు.

ఈ ప్రకారం సర్కారువారి దయ సంపాద్యం చేసుకొని ఇరవై ముప్పై సంవత్సరములు జరుపుకుంటూ ఉండగా ఒకపర్యాయం కోటసీమ పోదిలెసీమ అరికట్ల ఈ మూడు పరగణాలున్న వెంకటగిరి సంస్థానం చేసి కొనే వెలుగోటి కుమారయాచమనాయనింగారికి సర్కారువారు జహగీరు వ్రాసియిచ్చినంతలో శాయపనాయని కుమారవెంకటాద్రినాయనింగారికి వెలుగోటి కుమారనాయనింగారు వ్రాసియిచ్చిన ఒడంబడిక దాన పత్రం.

స్వస్తిశ్రీ శా. శ. 1629 (A. D. 1709) అగునేటి సర్వజితునామ సంవత్సర భాద్రపద, శు 12 పర్వణాలలో నడచే మన్నె కావలి రుసుములు వగైరాలకు కుమ్మక్కు కావలసినందుకు నిర్ణయం చేసుకొన్న వివరం;

నుదామదు మామూలుగా మీకు వస్తూవున్న పదిహేను పరగణాలలో సదరున వ్రాసిన మూడు పరగణాలు మా స్వాధీనం అయినందున తమకు నడిపించవలసిన నిర్ణయం.

<p>గ్రామం గ్రామాన్కు అయిన శిస్తు నూటికి 2శ్శ లక్కను</p>	<p>గ్రామాన పండిన కోరు ధాన్యం పుట్టికి 1/2 వీసం (ఇర్పమేర)</p>	<p>తండాకు నూరు గోనె లకు రూపాయిలు రెండు</p>
<p>నుంకం అయిన దస్తుకు వొ 1 కి హల్లి 1 1/2 ఛవులం చొప్పన</p>	<p>పుల్లరి వొ 1 కి హల్లి 1 1/2 ఛవులం చొప్పన</p>	<p>గ్రామాదుల్లో ప్రతి గ్రామంకు గ్రామం 1 కి</p>
<p>చెరువు కాలపులలో ఊరికి హల్లి 1 కి తూమెడు వరి విత్తనముల మడి</p>	<p>గుత్తగ్రామాదులు 1. ఆవుల మంద 1. మర్రిపూడు 1. బచ్చలికూరపాడు</p>	<p>శలుపాలం కు 2 చెద్ద ఊరికి కు చెప్పిళ్లు కు 1 చిన్న ఊరికి కు చెప్పిళ్లు</p>

ఈ ప్రకారం నడిపించగలవారమనిన్ని తతిమ్మా పన్నెండు పరగణాలలో ఏ పరగణాలో ఏమి ఉపద్రవం వచ్చినా సహాయంఅయి బందో బస్తు చేస్తామనిన్ని తమ జహగీర్లకు మరేమీ ఉపద్రవం రాకుండా మీరు విచారించవలసినదని ఈ ప్రకారం ఒకరికి ఒకరు సహాయంగా క్షీరోదక న్యాయంగా ఉండుకోవలయునని ఈ తీర్పు వ్రాసియిచ్చిన కాగిదం మొహరు దస్కతుతో ఉన్నది. ఈలాగున వెంకటాద్రినాయనింగారు అయిదువేలు గుట్టం పన్నెండువేల ఘంజుతోకూడా షహారు గోలుకొండ పట్టణంలో సర్కారులో హాజరు.....ఉండి ఎక్కడెక్కడ సర్కారుకు యతిరాజీలో ఉండే జహగీరుదార్లు హుమ్మరావులను సతాయించి జాగాలు రాణుబందీలు చేసేనిమిత్తం పంపిస్తూ ఉంటే పనులు సాధకం చేస్తున్న దివాణంవారి అనుగ్రహం నిండా సంపాద్యం చేసుకొనియుండెను. ఈలాగున ఉండి అనేకమయిన దేవస్థలాలు చెరువులు పేటలు వనాంతరాలు తమకు జహగీర్లు నడిచే దేశాలలో నిర్మాణం చేస్తున్న పాలనచేస్తున్న ఉండి ఈ దద్దనాల పట్టణానకు ఆరు క్రోసులమీద యరగొండుపాళెం అనే నామంచేతను కొంచెముగా పల్లె ఉండిఉండగా అక్కడ తమరు ఒక

లోగిలి కట్టించుకొని విస్తారంగా మారువాడీ వర్తకులున్ను కోమటి వర్తకులున్ను ఇంకా యితరమైన వర్ణాలవారిని తెచ్చియుంచి పేట కట్టించి వజ్రాలసానలు ఏర్పరచిన చాల సుఖాల అనుభవించుకుంటూ ఉన్నంతలో వారి సంస్థానంలో పూర్వాననుంచి నౌకరీలో ఉండే కానుమంచి అయ్యపరాజు అనే నియోగి ప్రభువుల అనుగ్రహం సంపాద్యం చేసుకొని సకల సుఖాలను భాగ్యం అనుభవిస్తూ ఉండియుండగా కొన్ని దినములకు వ్యసహారతద్వారేణ అయ్యపరాజుమీద ధణీలకు అత్యంతమైన అసూయత వచ్చి ఆయనను దేవిడి మన్నాచేసి ఒకసంవత్సరం శృంఖలములతో ఉంచినమీదట ఒకనాటి మధ్యమందు బండెఖానాలో నుంచి ఉడాయించి పోయి గోలుకొండ పట్టణానకు ఉత్తరదేశాలలో ఉండి సర్కారీమీద ఎప్పుడూ షరారుతులు చేస్తూఉండే దుష్టమానసుడు మీర్ ఫజరుల్లాఅనే అమీరుదగ్గర ప్రవేశించి దేశాలయొక్క మర్కమున్ను ఈ శాయపనాయనివారి సంస్థానం బందోబస్తున్ను తెప్పగా బోధపరచినమీదట క్రిందట సదరహి ఫజరుల్లాఖానుడు సర్కారుమీద యతిరాజీ అయినప్పుడు సర్కారువారితోకూడా శాయపనాయని చినవెంకటాద్రినాయుడు వచ్చి తనమీద లడాయిచేసి తనస్థళంలో రాణు బందీచేసినమాట నిండా మనస్సునందు క్రోధం ఉంచుకొని ఈ అయ్యపరాజుతోకూడా దద్దనాల పట్నముమీది రాగలవాడై దద్దనాల పట్నం బందోబస్తున్ను చినవెంకటాద్రినాయుడు అప్పటిలో ఉన్నస్థళం ఖబరు తెప్పించుకొని మరి తల్లి పోవలెనని విచారించే వరకు దక్షిణాదిపాశెలు సంస్థానాలు వగైరాలు సర్కారు ఎడల బహువిధములచే హుకుంమీరి ఉపద్రవాలు చేస్తున్న సర్కారు అనే భయం ఎంతమాత్రం లేకుండా మొవాసులై ఉన్నందున శాయపనాయని చిన వెంకటాద్రినాయని వారితోకూడా కొంతగుట్టం మందిని వెంటయిచ్చి ఆపుపద్రవాలు చేసే వారిని సతాయించి రమ్మని పంపించినందుచేత సర్కారువారి అనుజ్ఞ ప్రకారం చిన వెంకటాద్రి నాయుడువారు ఆ పనిమీద పోయినారని కబురు తెలిసినంతలో సదరహి

మీర్ ఫజరుల్లా అనేవారున్న కొంతగుఱ్ఱుం మందిని తీసుకొని ఈ అయ్యపరాజుతోకూడా తాను ఖుద్దు తరలి ఎకా ఎకీన వచ్చి దద్దనాల పట్టణంచుట్టూ ముట్టడివేసి పట్టణం దోచి బహుమందిని హతంచేసి జాయపనాయనివారి నగరుమీదికి వచ్చేవరకు పెద వెంకటాద్రినాయకు అతిశయమైన ఊత్రవంతుడు కాడు గనుక అధికారబలం చాలనివాడు అయినందుచే తను ఆ వచ్చినఫంజు పట్టణం చరాచురాచేసేవరకు పెద వెంకటాద్రినాయకు ఎంత ఊత్రవంతుడు కాకున్నా కొంతదూరం ఎదిరించి చూడవలెననే రోషంచేతను రాజ్యలక్ష్మి అనే నామం కల్గిన గుఱ్ఱుం సవారీకావలెనని తెప్పించి సవారీ కాబాయ్యేవరకు తొడక్రింద వృషణాలుపడి నల్లి నష్టమైపోయెను. అంతట నగరిలో ఊత్రవంతుడైన పురుషుడు లేనందున పట్టణమంతా దోచుకొని అనేకమై ప్రజలను కొట్టి వేసిన తర్వాత నగరిలో ఉన్న స్త్రీలను అందరిని ఒక కొట్టడిలో ప్రవేశింపజేసి నగరున్న తనూం దోచేవరకు అక్కడున్న స్త్రీలు గృహాలుచిచ్చు కల్పించుకొని గృహాలతోకూడ స్త్రీలున్న హతమైపోయిరి. వారు అందరు హతమయ్యేవరకు చిన వెంకటాద్రినాయనివారి కుమారుడు మల్లికార్జున నాయకు అనే పేరున శిశువు అయిదు సంవత్సరములవాడై యుండెను.

(నశేషము)

# VRSABHAGITE

*Edited by*

Sri M. SHANKARANARAYANA BHAT.

The present work *Vṛṣabhagīte* is based on a palm leaf manuscript preserved in the Government Oriental Manuscripts Library, Madras under D. No. 547. The authorship of this work is attributed to Gurubasava a famous Kannada poet. He has also written *Kalyānēśvara*, *Svarūpāmṛta*, *Sadgururahasya*, *Śivayōgāṅga Vibhūṣaṇa*, *Avadhūtagīta* and *Manōvijaya* out of which the first four works are already published. The author's date is roughly mentioned as 1430 A.D.

The present work depicts *Vīraśaiva* Philosophy and is in the form of a lyrical poem. The name of metre used is *Bhōgaṣaṭpadi* and the songs will be sung in *Rāga Hīndōḷa* and *Vasānta*.

The style is captivating throughout. It contains 101 stanzas.



## ಎ ರ ಡು ಮಾ ತು

“ವೃಷಭಗೀತೆ” ಎಂಬ ಹಾಡುಗಬ್ಬವಿದು ಮದ್ರಾಸು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಾಚ್ಯಪುಸ್ತಕಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾದಿರಿಸಿದ ಶ್ರೀತಾಳ 7×1 $\frac{13}{16}$  ಆಕಾರದ ಡಿ. ನಂ. 547ನೇ ಪ್ರತಿಯ ಆಧಾರದಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು. ವೃಷಭ(ಬಸವ)ಸ್ತುತಿ ರೂಪವಾಗಿಯೂ ವಿರಶೈವನೇದಾಂತಪ್ರತಿಪಾದಕವಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಈ ಕೃತಿಯು ೧೦೧ ಭೋಗ ಷಟ್ಪದಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡು ಹಿಂದೋಳ ವಸಂತರಾಗಗಳಿಂದಕೂಡಿ ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಾಗಿರುವುದು. ಪ್ರತಿವದ್ಯಗಳೂ “ಬಾಳ್ವೆನವ ಕೃತಾರ್ಥನು”, “ಅರಿದನವ ಕೃತಾರ್ಥನು”, “ತಿಳಿದನವ ಕೃತಾರ್ಥನು” ಮುಂತಾದುವುಗಳಿಂದ ಮುಗಿಯುತ್ತವೆ.

ಸದ್ಗುರುರಹಸ್ಯ, ಕಲ್ಯಾಣೇಶ್ವರ, ಸ್ವರೂಪಾಮೃತ, ಶಿವಯೋಗಾಂಗವಿಭೂಷಣ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ಗುರುಬಸವನೆಂಬ ವಿರಶೈವ ಗುರುವೇ ಇದನ್ನೂ ಬರೆದನೆಂಬುದು ಇದರ ಕೊನೆಯಪದ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುವುದು. ಇದು ಶಿವಪಾರಮ್ಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕೃತಿಯು. ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಸರಳಸುಂದರವಾದ ಶೈಲಿಯು ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೆಳೆಯದಿರಲಾರದೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.

ನೋಳಿಯಾರು ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟಿ.



# ವೃಷಭಗೀತೆ

ಶ್ರೀ ಗುರುನಿರಂಜನಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ॥

— ರಾಗ - ಹಿಂದೋಳ - ವಸಂತ —

॥ ಭೋಗ ಷಟ್ಪದಿ ॥

ಶ್ರೀಮದಮಲಭಕ್ತಹೃನ್ನಿ ಕಾಮ ಚಿತ್ರ ದೀಪನಖಿಳ  
ಧಾಮನಮೃತ ಸೋಮನತುಳಭೇಮ ರೂಪನು |  
ಪ್ರೇಮದಿಂದ ನಂದಿನಿವಹ ತತ್ರಸಹಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣ  
ಕಾಮನಾಗಿ ಜಗವ ಸಲಹಲೆಂಬವಂ ಕೃತಾರ್ಥನು ॥ ೧

ನಂದಿಯೆಂದು ವೃಷಭರೂಪನೆಂದು ವಶುಪನೆಂದನನ್ಯ  
ಬಂಧುವೆಂದು ಸಚ್ಚಿದಮೃತ ಸಿಂಧುರೂಪನ |  
ಜಂದಜಂದದಿಂದ ನುತಿಸಿ ಪಾಡಿ ಪಾಡಿ ವಿಮಳಮುಕ್ತಿ  
ಸೌಂದರೀಸಮೇಳನೆನಿಸಿ ಬಾಳ್ವನವ ಕೃತಾರ್ಥನು ॥ ೨

ಬಸವನೆಂದಖಂಡಪಿರಿಯ ಬಸವನೆಂದು ಲೋಕಬಂಧು  
ಬಸವನೆಂದು ಷಟ್ಸ್ಥಿಲೀ ಸಮಗ್ರಸಾರದ |  
ಬಸವನೆಂದು ಮತ್ಸಮಸ್ತು ಬಸವನೆಂದು ಧರ್ಮರೂಪ  
ಬಸವನೆಂದು ಭಜಿಸಿ ಭಜಿಸಿ ಬಾಳ್ವನವ ಕೃತಾರ್ಥನು ॥ ೩

ಬಸವನೊಳಗೆ ಚಿನ್ನ ಬಸವನಂ ವಿಶೇಷದಿಂದ ಮತ್ತೆ  
ಬಸವನೊಳಗೆ ಸಿದ್ಧ ರಾಮನನ್ನು ಭೋಗನಂ |  
ಬಸವನೊಳಗೆ ರುದ್ರಭಕ್ತ ಗಣಕದಂಬವಂ ಪ್ರಪೂರ್ಣ  
ಬಸವನೊಳಗೆ ಭಜಿಸಿ ಭಜಿಸಿ ಕಾಣ್ಯನವ ಕೃತಾರ್ಥನು ॥ ೪

ನೊಸಲಕಣ್ಣನಿವ ಚಿತ್ರ ಕಾಷ್ಠ ಬೊಂಬೆಗಳಿಗೆ ಮೋಹ  
ದಸುವನಿವ ವಿಶ್ವರೂಪನಾಗಿ ತೋರುವ |  
ಬಸವಭಕ್ತನೆಯ್ದಿದರ್ಗಿ ತಥ್ಯ ಕಾಳ್ಕುಭಾಷೆಯೆಂದು  
ಸಸಿನೆ ತರತಮುತ್ಪದಿಂದ ತಿಳಿಯಲವ ಕೃತಾರ್ಥನು ॥ ೫

- ವರದಹೆತ್ತದಿಂ ಪ್ರಸನ್ನವಕ್ರದಿಂ ತ್ರಿಣೇತ್ರದಿಂದ  
 ಚರಣಭುಜಯುಗದ್ವಯಾಂಗನಾಗಿ ವಾದ್ಯದ |
- ಹರೆಯದಿಂದ ನೋಹನಾಂಗದಿಂದ ಶಾಂತಿಯಿಂದಲಭಯ  
 ಕರದಿಯೊಪ್ಪುತ್ತಿರ್ಪ ಗುರುವ ನೆನೆವನವ ಕೃತಾರ್ಥನು || ೬
- ಆನ ಮಂತ್ರವಾವ ತಂತ್ರವಾವ ಧರ್ಮವಾವ ಕರ್ಮ  
 ವಾವ ವ್ರತವದಾವ ಶಿವ ಪ್ರಕೃತಿವಿಷಯವು |
- ಆವ ವಿದ್ಯವಾವ ಬುದ್ಧಿ ಯಾವುದೊಂದನಭವ ಕೊಟ್ಟ  
 ಭಾವದೊಳಗೆ ಚಲನೆಯಿಲ್ಲದವನು ನೆಱಿ ಕೃತಾರ್ಥನು || ೭
- ಹೊಳಹು ಗುಡದ ಚಿತ್ತದಿಂದ ತಿಳಿವು ಗೆಡದ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ  
 ಚಲಿಸದಮಲಮಾನಸೀವಿಹಾರ ಕರ್ಮದಿಂ |
- ಬಳಸದನಿಲನಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕದಮೃತದಿಂದ ಮಧ್ಯ  
 ನಳಿಕೆಯೊಳಗೆ ಬಿಡದೆ ನಟಿಸಿ ಬಾಳ್ವನವ ಕೃತಾರ್ಥನು || ೮
- ಮಱಿಯಬಾರದಿವ್ವ ತನ್ನ ನಱಿಯಲೇಕೆ ವಿಕಳದಿಂದ  
 ಲಱಿವು ವಿಷಯವಹುದೆ ವಿಷಯಮಾಗಲಱವನು |
- ಅಱವದಾವ ನಱವನಱಿವು ದಱವೆಯ್ಯೆನೆಯೆಂದು ತನುವ  
 ತೊಱದು ನೋಳ್ವವಂ ಕ್ಷಣಾರ್ಥದಿಂದಲಱ ಕೃತಾರ್ಥನು || ೯
- ಸಳಿಯದಿಹುದೆ ಧರ್ಮ ತನುವ ಕಳೆಯದಿಹುದೆ ಸಿದ್ಧಿ ಚಿತ್ತ  
 ನಲುಗದಿಹುದೆ ಮುಕ್ತಿ ಮಱಿದು ನುಡಿದ ವಕ್ರಣೆ |
- ಹೊಳೆಯದಿಹುದೆ ಸತ್ಯ ರೋಷದಳೆಯದಿಹುದೆ ಶಾಂತಿ ಕಸಟೆ  
 ನೊಳೆಯದಿಹುದೆ ಸೌಖ್ಯವಿದನು ತಿಳಿಯಲವ ಕೃತಾರ್ಥನು || ೧೦
- ಹಾಳು ಕರ್ಮ ಕಸಟೆ ಬಲೆಯ ಬಾಳ ಬಾಳ ತಾನೆ ತನ್ನ  
 ಮೇಲೆ ಹಾಯ್ಕೊಂಡು ಕೆಲ ಕಿತ್ತು ಕಸಿಯೊಲು |
- ಗೋಳು ಮಂಡೆಗೊಂಡು ಶುಷ್ಕತೂಳದಿಂದ ಬಳಲ್ವ ಭವಿಯ  
 ಗಾಳಿ ಸೋಂಕದಂತೆ ತಪ್ಪಿ ಬಾಳ್ವನವ ಕೃತಾರ್ಥನು || ೧೧
- ಶಿವಸಮಂಜಸೀರಹಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಸಾರವಾಗಿ ಚಿತ್ತ  
 ನವಯದಚಲನಾಗಿ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಪದದೊಳು |
- ವಿವಶನಾಗಿ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬಾಳ್ವನಾವನಾವ  
 ತಿಳಿವನವ ಕೃತಾರ್ಥನೆನಿಸನವ ಕೃತಾರ್ಥನು || ೧೨

ಮದವನಳಿದು ಮುದವನುಳಿದು ಹೊದದು ರಕ್ತವಸ್ತ್ರಮಂ  
ಬೆದಱಾದಕ್ಷಕರಣಕಿರಣಮಂ ವಿಭಾಡಿಸಿ |

ಸದಮಲಾಂಗನೆನಿಸಿ ಸಂವಿದಮೃತರೂಪನೆನಿಸ ಶಿವನ  
ಪದಸರೋಜ ಚಿಂತಿವಿಡಿದು ನಡೆಯಲವ ಕೃತಾರ್ಥನು || ೧೩

ಶನುಡಮಾದಿಗುಣವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಮಲಚಿತ್ರಪುಷ್ಪನಷ್ಟ  
ಮಮತಿ ಹೀನದುಃಖಸುಖಸಮಾನನಾಗಿಯೆ |

ಭ್ರಮಣಭವವಿಕಾರನಾಟ್ಯ ವಿಮುಖನಾಗಿ ತನ್ನ ತಾನೆ  
ಸಮವನಱಾದನನ್ಯ ಸುಖದೊಳಿಪ್ಪ ನವ ಕೃತಾರ್ಥನು || ೧೪

ತೆಗದಪಾನವಕ್ರದಿಂದ ನೆಗೆದೆ ಗಂಧವಹನ ಬಿಡದೆ  
ತೆಗೆದು ಮರುಜ್ಜೀವನಂ ವಿಹಂಗಕರ್ಮದಿಂ |

ನಿಗಳಗೈದು ಶಕ್ತಿಶಿರವ ಬಿಗಿದು ಬೆನ್ನ ದಂಡವನ್ನು  
ಹೊಗಿಸಿ ಗಗನಗಹ್ವರಕ್ಕೆ ಚಿಗಿಯಲವ ಕೃತಾರ್ಥನು || ೧೫

ಪವನ ತನ್ನ ಬೆನ್ನ ಬಿಡದೆ ಉಲಿವುತಿರಲು ಘೋಷ ನೆಗೆದು  
ಕಿವಿಗಳೆರಡನುಗಿದು ಕಮಲದ ಪ್ರಪಂಚನು |

ಕವಿದು ಜಜ್ಜಿರೀಮೃದಂಗ ವಾಗುತಿರೆ ವಿಯಸ್ಥಲಿಕ್ರ  
ಮವಭವಾಂಗಜಲವ ಹಿಂಗಲವ ಕೃತಾರ್ಥನು || ೧೬

ಕುಡಿದು ಮರುತಜಲವನಿಧಿಯ ಮುಖದಿ ಸಿಂಗಳಾಂಗದಿಂದ  
ಕೊಡಹಿ ಮತ್ತಿ ಮತ್ತಿ ಜಡಿದು ಬಿಡುತ ಚಂದ್ರಬಿಂಬವಂ |

ತೊಡರಿ ಬಿಡದೆ ಶಕ್ತಿ ಶಿರವ ಸಿಡಿದು ಬೆನ್ನ ದಂಡವನ್ನು  
ಸಿಡಿಲು ಹೊಡೆದು ಪರಿಯಲೊಡೆದು ನಡೆಯಲವ ಕೃತಾರ್ಥನು || ೧೭

ಗುದಮುಖಾಗ್ನಿ ಲಕ್ಷದಿಂದ ಲುದಿಸಿದಗ್ನಿಸನಾವದ (?)  
ನದಗ್ನಿ ಭಾನುಮುಖದಿನೊದವಿದಗ್ನಿ ನಾಲ್ಕುಮಂ |

ಹೊದೆದು ಬಳಿಕ ಮರುತವಿಡಿದು ಹದವನಱಾದು ಬಿದಿರನೊಡೆವ  
ಪರಿಯಲೊಡೆದು ನಡೆಯೆ ನಭವನಡರಲವ ಕೃತಾರ್ಥನು || ೧೮

ಆರು ಬಲ್ಲರಾರು ಪೇಳ್ವರಾರು ಬಿಟ್ಟರಾರು ನಟ್ಟ  
ರಾರು ಮನದ ಸಂಗದಿಂದ ಕೆಟ್ಟರೆಂಬುದ |

ಆರ ಕೇಳಲೇಕೆ ಮರುಳೆ ಮಾರಿಯಾಗಿ ತನ್ನೊಳರಲು  
ಓರೆಯಾಕೆ ಮನವಿದೊಂದನಳೆಯಲವ ಕೃತಾರ್ಥನು | ೧೯

- ತನು ಮನೋಮರುದ್ವಿಕಾರ ದನುವದೇ ಸಮಗ್ರದುಃಖ  
ತನು ಮನೋಮರುದ್ವಿಕಾರ ನಾಶನೇ ಸುಖಂ ।  
ತನುವ ನಿರಸದೊಳಗೆ ಆಂತು ಮನವ ಲಕ್ಷದೊಳು ಶಿಖಾಂತ  
ಘನದೊಳನಿಲನಂ ನಿವೃತ್ತಿಯೆನಿಸಲವ ಕೃತಾರ್ಥನು ॥ ೨೦
- ಪಾದವೇಳು ನೆಲೆಯನಿಳಿದು ಪೋದುದುತ್ತಮಾಂಗ ಮೇಲ  
ನೈದಿದಮಮ ಕಮಲಜಪ್ರಪಂಚ ಗಿಂಚನು ।  
ಪಾಯ್ದು ನಿಜಭುಜಾಘವಖಿಲದಿಕ್ಕು ಮಿಕ್ಕುನೆಂದು ಶಿವನ  
ನೆಯ್ದು ಸಿದಡವಂ ಕ್ಷಣಾರ್ಥದಿಂದಲವ ಕೃತಾರ್ಥನು ॥ ೨೧
- ಅರುಣಕಿರಣದೀಪ್ತಿ ಮುಸುಕ ಉರಿವ ಪೂರ್ಣರತ್ನಗಿರಿಯ  
ಬೆಳಗುರ್ತಿರ್ಪ ಕನಕಮಯದ ಭೂಮಿಯೊಪ್ಪುವ ।  
ಹೆರಹಿನೊಳು ಮನಃಸಮಾಧಿಯಿಂ ಸಚೇತನಿಂ ಸಮಗ್ರ  
ಪರಮಸಿರಿಯನಾಳ್ಳು ಸುಖದಿ ಬಾಳ್ವನವ ಕೃತಾರ್ಥನು ॥ ೨೨
- ಮಧ್ಯಹೃದಯ ಗಳಲಲಾಟಿ ಮಸ್ತಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಳೆದ  
ಶುದ್ಧಸಂವಿದದ್ವಯ ಪ್ರಕಾಶಕಾಂಡಮೇ ।  
ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ತನ್ನ ನಿಜವ ಹೊದ್ದಿ ಹೊದ್ದನೋರ್ವ ಚಿತ್ತ  
ಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಬಳಕೆಯಳಿದನಾವನವ ಕೃತಾರ್ಥನು ॥ ೨೩
- ಬಾಲರತ್ನ ಪುತ್ಥಳಿಶ್ವಮೇಳನರ್ತನವನು ಶಿರದ  
ಮೇಲೆ ಹಸ್ತ ನಾಲ್ಕು ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಕಾಣುತ ।  
ತೇಲುತಂ ವಿಯತ್ತರಂಗಿಣೀತರಂಗದೊಳಗೆ ಪರಮ  
ಲೀಲೆಯೊಳಗೆ ನಿತ್ಯಸುಖದಿ ಬಾಳ್ವನವ ಕೃತಾರ್ಥನು ॥ ೨೪
- ಸವದು ಸವದು ಸಂಯಮದೊಳು ಭವತರಂಗಿಣೀವಿಕಾರ  
ಬವಣಿ ಗಿವಣಿಯೊಳಗೆ ಬೀಳದಚಲವಾಗುತ ।  
ಪವನಪಲ್ಲಟನೆ ನಿಜಾಂಗವಾಗಿ ನಿತ್ಯವಾಗಿ ವಿಕೃತಿ  
ವಿವಶನಾಗದಾತ್ಮಸುಖದೊಳಿಪ್ಪನವ ಕೃತಾರ್ಥನು ॥ ೨೫
- ಕಾಯವಿದು ಕೃತಾಂತಭಟನಬಾಯಿದೆಱಿಯ ಕಬಳವಱಿಯ  
ಲಾಯುವಿದು ಮರುಸ್ಥಲೀಸರಿತ್ತರಂಗವು ।  
ಕಾಯವಿದು ವೃಥಾವಿನೋಹನೀಯನೆಂದು ತನ್ನ ತಿಳಿದು  
ದಾಯವಱಿದನಾತ್ಮಸುಖವ ಮಱಿಯಲವ ಕೃತಾರ್ಥನು ॥ ೨೬

- ಅನುಭವಪ್ರದೇಶ ತನ್ನ ತನುವನ್ನೆದೆ ತುಂಬಿ ಜನಿಸಿ  
ಕರಣ ಶರಣೆಯಿಂದಲೀ ಜಗತ್ಸಮಸ್ತಮಂ |
- ಅನುಕರಿಸಿ ಸುವರ್ಣದಾಡಿವಿಜಪಾಂ ವಿಶಿಷ್ಟದಿಂದ  
ಲನಘನ ಪ್ರಸಿದ್ಧನೆನಿಸಿ ಬಾಳ್ವನವ ಕೃತಾರ್ಥನು || ೨೭
- ಧವಳ ಚಂದ್ರಕಾಂತಗಿರಿಯ ಕವಿದು ಪಾಲ್ಗಡಲ ಗಭೀರ  
ರವ ಧಳಂಧಳೇಯಮಾನವಾಗಿ ಸರ್ವಮಂ |
- ಗವಸಣಿಸಿ ಶಶಾಂಕಕಾಳಕೌಮುದೀಪ್ರಪೂರ್ಣಮಾದ  
ಶಿವನ ಕಾಯದೊಳಗೆ ಚಲನೆಯಿಲ್ಲದವ ಕೃತಾರ್ಥನು || ೨೮
- ತಳಿದು ಪುಷ್ಪಪೂರ್ಣಚಂದ್ರನೊಪ್ಪೆ ವಿಸಿನಮಧ್ಯದೊಳಗೆ  
ಹೊಳೆವ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಗಂಧ ಮಂಟಪಂಪ್ರತಿ |
- ನೋಳಗುತಿಕೆ ಸಮಸ್ತವಾದ್ಯದಿಂದ ಸೋಮದೀಪ್ತಿಯೊಳಗೆ  
ಬಳಕೆಯಳಿದು ಶಿವನ ಭಜಿಸುತಿರ್ಪನವ ಕೃತಾರ್ಥನು || ೨೯
- ಚಂದ್ರಮಾರಜೋವಿಲೀಢ ಚಂದನೋದಪಂಕದಿಂದ  
ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಸಂಸ್ಥಲೀಸಮಂತು ಜಾಗಿದೆ |
- ಮಂದನಾಯು ಸುಳಿದ ಸುರಭಿಗಂಧವರುಷ ಸುರಿವ ಸೋಮ  
ಮಂದಿರಾಂತಪರಮಪೂಜೆ ಗೃವನವ ಕೃತಾರ್ಥನು || ೩೦
- ಅಸ್ತಿ ಪಲವಱ್ಕೊಳಗೆಪತ್ತಿಮಾಸ್ತಿ ಮುಖ್ಯನೆಂದು ಚಲಿಸ  
ದಾಸ್ತಿಯಿಂದ ಪಾನಜೀವರಂಗಿ ರುಂಧಿಸಿ |
- ಉತ್ತರೋತ್ತರಾಶ್ರಯಃಪ್ರಪೂರ್ಣದಿಂ ನಿವೃತ್ತಿಪಥವ  
ಹತ್ತಿ ಹಲವಸಿದ್ಧಿವಡೆದು ಬಾಳ್ವನವ ಕೃತಾರ್ಥನು || ೩೧
- ತನುವನಱುದು ಸತ್ವಗುಣದ ಮನವನಱುದು ನಿಖಿಲತಟದ  
ಘನವನಱುದು ಪರಮಸುಖಸಮಾಧಿಯೋಗದ |
- ಮನೆಯನಱುದು ಭಕ್ತಜನರ ವಿನಯವಱುದು ದೇಶಕಾಲ  
ದನುವನಱುದು ಯೋಗಯೋಗ್ಯನೆನಿಸವ ಕೃತಾರ್ಥನು || ೩೨
- ಕಮಲವೇಳಱ್ಕೊಳಗೆ ವಹ್ನಿಕಮಲ ಸೂರ್ಯ ಕಮಲ ಸೋಮ  
ಕಮಲ ಹಂಸ ಕಮಲನಂ ಸಮಾನಗೈವೃತ |
- ಕಮಲನೆರಡ ಪಿಡಿದು ಮಧ್ಯ ರಮಣಿಯೊಳಗೆ ಗಮಿಸಿ ಮಸ್ತ  
ಕಮಲದೊಳಗೆ ನಿಂದು ಗುರುವ ನೆನೆವನವ ಕೃತಾರ್ಥನು || ೩೩

ಹಿಮಕರೋದಯದೊಳು ಪೂರ್ಣಹಿಮ ಶಿಲೋತ್ತಶಲ್ಯಮಯದ (?)

ವಿಮಲಮಂಗ ಭದ್ರಸಾಂಗದೊಳಗೆ ಶಂಭುವಂ |

ಹಿಮಜಲಾಭಿಷೇಕ ತಿರಸಿ ಹಿಮರಜೋವಿಲೇಸದಿಂದ

ವಿಮಳಸುರಭಿಯಿಂದ ಭಜಿಸಿ ಬಾಳ್ವನವ ಕೃತಾರ್ಥನು ||

೩೪

ಕಡಲ ದಾಂಟಿ ಬಂದು ಕೊರಡನೆಡಹಿ ಬಿದ್ದನಂತೆ ತುಂಡು

ವಡೆದು ಬಳಲಿಯೊನ್ನಿಹಲವಱಿಂದಲೆಂತಕೆ |

ಸಿಡಿಡಕಟಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಒಡನೆ ಗುರುವ ಮಱಿದು ದಿಂಡು

ಗೆಡೆವ ಭವದೊಳಿಳವ ನರನ ನಗುವನವ ಕೃತಾರ್ಥನು ||

೩೫

ಉಳ್ಳುದೊಂದು ದೇಹವಿದನು ಸಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿ ಕರ್ಮ

ತಳ್ಳಿ ಬಳ್ಳಿಗೊಂಡು ವಿಷಯಗುಣವಿಚಾರದ |

ಹಲ್ಲಣವನು ಹೊಱಿಸಿ ಸುಖದ ಮೊಲ್ಲ ಕೇಳದಂತೆ ಮಾಡಿ

ಡೊಳ್ಳುಗಳವ ಮನವಿದೊಂದನಳಿಯಲವ ಕೃತಾರ್ಥನು ||

೩೬

ಹೇಮರತ್ನಭದ್ರದೊಳಗೆ ಭಾಮಗಿತ್ತು ಧೂಪದೀಪ

ಧೂಮ ನೆಗೆದು ಸಕಲವುಷ್ಟಗಂಧಸಹಿತನೆ |

ಮೈಯನುಕೇಶನಿವ್ವ ನರಮಸೀನೆಯೊಳಗೆ ತುಂಬುವಂತೆ

ರಾಮಣೋಯವಾಗಿ ಭಜಿಸಿ ಬಾಳ್ವನವ ಕೃತಾರ್ಥನು ||

೩೭

ನೆಗೆಲ್ಲ ನಂತ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಬೆಗಡುವಿಡಿದು ದೈತ್ಯನಿಗಳ

ದೊಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ನೊಂದನಾಯತದಲಿ ತಾನಿಹೆ |

ಜಗವ ಬೇಡಿ ಬೇಡಿ ಹೊಟ್ಟಿವಗರಗೆಯನೆ ಪಿಡಿದ ಕುಱಿಯು

ತಗರ ತೋಳನಂತೆ ಕಾಡದಿವ್ವನವ ಕೃತಾರ್ಥನು ||

೩೮

ಅಪಂಮಿತದ ಸತ್ಯಕಾಗಿ ಶಸಧನೇತಕಸುವನಳಿಯು

ಜನವ ಮಾಡಲೇತಕಸುಖವಂ ನಿಖಂಡಿಸೆ |

ತನವ ಮಾಡಲೇಕಿವೆಲ್ಲ ಕತಿವಿಶೇಷವೆಂದು ಗೂಢ

ಕಪಟಮೊಂದನಳಿದು ಬಾಳ್ವನವ ಕೃತಾರ್ಥನು ||

೩೯

ಕಿಚ್ಚುಗಣ್ಣುನುಳ್ಳ ಶಿವನ ನರ್ತಿಸುವ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ

ಹೆಚ್ಚಲಿಯದವಯವಂಗಳಂ ನಿರೋಧಿಸಿ |

ವೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟಿ ಬಂದನಂತೆ ಹೆಚ್ಚಹಳೆಯ ಪಾಪಿಯಾಗಿ

ಹುಚ್ಚುಗೊಂಡ ನರನ ನೋಡಿ ನಗುವನವ ಕೃತಾರ್ಥನು ||

೪೦

ಸಿರಿಮನಃಪ್ರಪೂರ್ಣನಾಗಿ ಪಿರಿದು ಶಾಂತಿರೂಪನಾಗಿ

ಮರುತವಿಜಯನಾಗಿ ಮಹಿಮೆಯಿಂ ಸಮಗ್ರದ |

ಸಿರಿಯನಾಳ್ವನಾಗಿ ಹೆರನೊಳೆರಗಿ ತಳೆದನಾಗಿ ಕರಣ

ಶರಧಿಯೋಗಿ ಪರಮಸುಖದಿ ಬಾಳ್ವನವ ಕೃತಾರ್ಥನು ||

೪೦

ಪಥದೊಳಾವನಾದರೇನು ಹಿತವನಹನೆ ಮಿತ್ರ ತನ್ನ

ಸತಿ ಗೃಹಾಂತರದೊಳು ಮಿತ್ರೈಯಹಳು ಪಿತೃಗಳ |

ಸತಿಯ ಪುರದ ಸರಣಿಯೊಳು ಗುರೂಕ್ತಮಂತ್ರ ಮಿತ್ರನೆಂದು

ಮತಿಯೊಳೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಾತ್ಮನೆನಿಪನವ ಕೃತಾರ್ಥನು ||

೪೧

ಕಳಚಿ ಗಗನಮಣಿಯ ಮುಖದಿನೆಳೆಯ ನುಂಗಲೊಡನೆ ಭೂರಿ

ವೆಳಗನೊಳಗೆ ಮುಳುಗಿ ದೇಹಬಿಂಬಮಾಗಿರೆ |

ತುಳುಕಿ ವಿಶ್ವವೈದೆ ಕಿರಣಜಲಧಿಯಂತೆ ತೋರ್ಪ ಸಂವಿ

ರುಳುಮೆಯ ಪ್ರಕಾಶದೊಳಗೆ ಬಾಳ್ವನವ ಕೃತಾರ್ಥನು ||

೪೨

ಭೂತ ಭೂತಯೋಗದಿಂದ ಭೂತ ಹಲವನ್ನೆದೆ ದೇಹ

ಭೂತ ಗೇಹ ಭೂತ ಜಾತಿ ಭೂತಮಾಗಿರೆ |

ಭೂತದಾಟ ಭೂತದೂಟ ಭೂತನೋಟವಾಗಿ ವಂಚ

ಭೂತಮಯವಿದೆಂದು ಜಗವನೊವನವ ಕೃತಾರ್ಥನು ||

೪೩

ಚಲನೆಯಳಿದು ಭದ್ರದೊಳಗೆ ಹೊಳವ ಬೆಳಗು ಜಾಟದಂತೆ

ಬಲಿದು ಕದಗವಾಕ್ಷಕಂಡಿ ವಿವರಗಿವರಮಂ |

ಕಳಚಿ ವರ್ತಿಯಿಂದ ಶುದ್ಧವೆಳಗ ನಿಲಿಸಿದಂತೆ ತನುವ

ಬೆಳಗನೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣನೆನಿಸಿ ಬಾಳ್ವನವ ಕೃತಾರ್ಥನು ||

೪೪

ಕುಳಕತಿರೆಗಳಿಂದ ತನುವಿನೊಳಗೆ ಹರಣಾಸಮುದ್ರ(?)

ತುಳುಕುತಿರೆ ಮನೋಮರುದ್ವಿಕಾರವಾಕ್ಷಣ !

ಹೊಳೆಯಲಂದುವಖಿಳಿಸಿದ್ಧಿಯಿಂದಮಂ ಸಮಸ್ತ ಜಗವ

ಬೆಳಗುತಿರ್ಪವೆಂದು ಮನದೊಳೆವನವ ಕೃತಾರ್ಥನು ||

೪೫

ಅರುಣಕಿರಣ ಶರಧಿಯೊಳಗೆ ಪರಿವ ಮಣಿತರಂಗ ನೆರವಿ

ಝಣಝಣೀಯಮಾನವಾಗಿ ಸರ್ವವೆಲ್ಲಮಂ

ಗವಸಣಿಸಿ ಶಶಾಂಕಕಾಳ ಕೌಮುದೀಪ್ರಪೂರ್ಣಮಾದ

ಶಿವನ ಕಾಯದೊಳಗೆ ಚಲನೆಯಿಲ್ಲದವ ಕೃತಾರ್ಥನು ||

೪೬

- ಹುಸಿದು ಹುಸಿದು ಭೂತಧರ್ಮನಸರದಿಂದ ಲಿಂದ್ರಚಾವ  
 ದೇಸಕದಂತೆ ತನುಮಂಚಿ ವಿಚಿಯಂದದಿಂ |
- ನಶುಸತಿಯ ವಿನೋದದಿಂದಲೆಸವ ನೇರವೆಂದು ಜಗವ  
 ಸಸಿನೆ ತಿಳಿದವಂ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಲಿಃ ಕೃತಾರ್ಥನು || ೪೮
- ಉರಿವ ಮಡೆ (?) ಮೈವಸುಂಧರಾಕಳಾವೃಪೂರ್ಣವಾಗಿ  
 ಹೊರದು ಬೆಳದನಂತವಜ್ರಗಿರಿಕದಂಬವಂ |
- ಅರುಣಕಿರಣ ದಿವ್ಯದೀಪ್ತಿ ಬೆರಸಿದಂತೆ ಮಾಡಿ ಗುರುವ  
 ನೆನವುತಲ್ಲೆ ಬಾಳ್ವನರನೆಯವ ಕೃತಾರ್ಥನು || ೪೯
- ನೆಗಲ್ಲ ಪೂರ್ವಗಿರಿಯ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ರತ್ನಗರ್ಭವೊಡದು  
 ಗಗನಮಣಿ ಸಹಸ್ರಕೋಟಿವೆಳಗನುಗುಳುತ |
- ಚಿಗಿದು ತಿಖಿಯ ಕಂಭನಭವ ನಡರಿ ನಿಂದ ಸತ್ಯಸಂವಿ  
 ದಗಣಿತವೃಕಾಶದೊಳಗೆ ಬಾಳ್ವನವ ಕೃತಾರ್ಥನು || ೫೦
- ತನುಮನೋವಜೋವಿಕಾರ ಕನುಗುಡದ ಸಮಾಧಿನಿಧಿ  
 ಗಿನಿತು ಹೊಳೆಯದಿರ್ಪ ನಂದಿನೀಸಮೇಳನಂ |
- ನೆನದು ನೆನದು ನೆನಹವೈದೆ ಮನನವಾಗಿ ಮನನ ತನ್ನ  
 ಘನದೊಳವ ಸರಿಯ ಭಜಿಸಿ ಬಾಳ್ವನವ ಕೃತಾರ್ಥನು || ೫೧
- ರಕ್ತವರ್ಣವಾಗಿ ಕನಕಪತ್ರದಂತೆ ತೋರ್ಪ ನೆಲನ  
 ನೊತ್ತಿ ಜಲಧಿತ್ತುಳುಕಲಲುಗದಿರ್ಪ ಭೂಮಿಯ |
- ನೊತ್ತಿ ಬೆಳದ ತಾಂ ಪ್ರಸಾರವೆತ್ತಿ ನಭವನಡರ್ಪ ಪೂಜ್ಯ  
 ವೆತ್ತ ಲಿಂಗದಿರವನಾವ ಕಂಡನವ ಕೃತಾರ್ಥನು || ೫೨
- ಕಳಚಿ ಕರ್ಮಕಪಟರೂಪ ನುಳುಮೆಯಸ್ತಿ ಭೌತಿಕುದ್ಧ  
 ವೆಳಗು ತಾನೆಯಾಗಿ ನಿರ್ವಿಕಾರನಾಗುತ |
- ಹೊಲನನಣು ಹಲವಮುಡು ಮೊಲಿದು ಲಿಂಗಪೂಜೆಯೊಳಗೆ  
 ಸುಲಭನಾಗಿ ಪರಮಸುಖದಿ ಬಾಳ್ವನವ ಕೃತಾರ್ಥನು || ೫೩
- ವ್ರತಯಂತ್ರಕಳಾಢ್ಯವಜ್ರಕುಳನ ಭೂವಿಶಾಲಶೈಲ  
 ವೆಳಗು ಬಳಸಿ ಸುಳಿದು ಬೆಳದು ಬೆಳಗು ಪೊಳೆವುತ |
- ಜ್ವಲಿಸುತಿರಲದೇ ತಿವಾಖ್ಯ ಲಿಂಗವೆಂದಖಂಡಸಂವಿ  
 ದುಳುಮೆಯ ವ್ರಕಾಶದೊಳಗೆ ಬಾಳ್ವನವ ಕೃತಾರ್ಥನು || ೫೪

ಹೊಳೆವ ಕನಕಗಿರಿಯ ಹಿಂಡಿ ಹಿಳಿದು ವರ್ತಿಯಿಂದ ಬೆಳಗ  
ಸೆಳೆದು ತಂದು ಚಂದದಿಂದ ರತ್ನನರ್ವಮಂ ।

ತಳದಿವೆಲ್ಲವಂ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಕೂಡಿ ನಿಂದ ಬೀಜ  
ಬೆಳಗಿನೊಳಗೆ ಸುಖಿಸಬಲ್ಲನಾವನವ ಕೃತಾರ್ಥನು ॥

೫೨

ಸತ್ಯದಿಂದ ಶಮದಮಾದಿಯಿಂದ ಸರಮಮುಕ್ತಿಯಿಂ  
ದುತ್ತರೋತ್ತರ ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷನಾಗುತ ।

ನಿತ್ಯ ಸಕಳಸಂವಿದಿತ್ತ ನೆನಿಸ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರಪದವ  
ನಿಸ್ತರಂಗನಾಗಿ ಭಜಿಸಿ ಬಾಳ್ವನವ ಕೃತಾರ್ಥನು ॥

೫೩

ಗೆಲವ ಬಿಟ್ಟು ಲಿಂಗದೊಳಗೆ ನೆನಹು ನಟ್ಟ ದುಷ್ಟವನದ  
ನಿಲವ ಸುಟ್ಟು ತನುಮನೋವಿಕಾರಭೂತದ ।

ಬಲವನಿಟ್ಟು ಶಿವನ ಕರುಣದೊಲವನುಟ್ಟು ವಾಗ್ವಿಲಾಸ  
ದುಲುಹುಗೆಟ್ಟು ಸರಮಸುಖದಿ ಬಾಳ್ವನವ ಕೃತಾರ್ಥನು ॥

೫೪

ಒದವಿ ನಂದಿನೀತರಂಗ ದುಃಖಮೋಹ ಹೆಚ್ಚಿ ಹಾಯ್ದು  
ಕರ್ಮಕೆ ಪೂಜ್ಯನಹ ಶಿವೋತ್ತಮಾಂಗದಿಂದಲು ।

ಉದುವರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಗಂಧ ಕೇಶಕೀದಳಂಗಳಿಂದ  
ಹೊದಿಸಿದಂತೆ ತೋರ್ವ ಜಗವ ಕಾಣ್ವನವ ಕೃತಾರ್ಥನು ॥

೫೫

ಹಲವು ಚಿತ್ರಪಟದಿ ವಸ್ತ್ರ ವಲುಗುತಿಹ ಪತಾಕನಿವಹ  
ದೊಳಗೆ ಭೂರಿವಾದ್ಯ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿಯಿಂ ಸಹೆ ।

ನೊಳಗುತಿರಲಬಂಡಶಿವನ ನರ್ಚಿಸುತ್ತ ನೇಕವಿಧದಿ  
ನಲಿದು ನಿತ್ಯನಾಗಿ ಸುಖದಿ ಬಾಳ್ವನವ ಕೃತಾರ್ಥನು ॥

೫೬

ಕಿರಣ ರತ್ನ ಕೈಲದೊಳಗೆ ತರಣಿವುದಯವಾಗಲಭಯ  
ಕಿರಣ ನೆಗೆದು ತರಣಿವಂಡಲವನು ರ್ಭುಳಿಸಿಸಿ ।

ತಿರಿಗಿ ತಿರಿಗಿ ಮುಜುದು ಮುಜುದು ನೆರ್ದದು ಹೊರದು ಲಿಂಗರೂಪ  
ಸರಮಹರುಷದಿಂದ ಭಜಿಸಿ ಬಾಳ್ವನವ ಕೃತಾರ್ಥನು ॥

೫೭

ತರಣಿಸೋಮು ಶಿಖಿಮರುನ್ನ ಭೋಗಗಹುದೆಲೈ ಸಮಗ್ರ  
ದುರುಳಿಯಂತೆ ಕಿರಣರೂಪವಾಗಿ ನಿಜದೊಳು ।

ಭರಿತವಾಗಿ ಸದ್ಗುಣಾಂಗಮಾಗಬಂಡವಾಗಿ ಭಕ್ತ  
ಹರಣವಾಗಿ ತೋರ್ವ ಶಿವನ ಕಾಣ್ವನವ ಕೃತಾರ್ಥನು ॥

೫೮

- ತನುವಿಕಾರ ಹೊಗದೆ ಸದ್ವಿದನುಭವಪ್ರಕಾರ ಭಾವ  
ವೆನಿತು ತೋಱಲನಿತುವಂ ಪರಶ್ವಸೌಖ್ಯದ |
- ಘನವನೈದಿಸಿದಡದೇ ಸಮಗ್ರಸುಖವನೀವುದೆಂದು  
ಮನದೊಳಱುದು ನಿತ್ಯವಿಧಿಯಲುಳಿಯಲವ ಕೃತಾರ್ಥನು || ೬೨
- ಅಳಿಗಳಡರ್ವ ಪದ್ಮೆಗಿರಿಯ ಬಳಸಿನೊಳಗೆ ಭೂರಿವಾದ್ಯ  
ನೊಳಗುತಿರಲು ಧೂಸಧರ್ಮಮಾಗಲಾವಗಂ |
- ಬಳಸಿ ನಿರ್ವಿಕಾರವಾಗಿ ಚಲಿಸುತಿರಲಖಂಡಲಿಂಗ  
ದೊಳಗೆ ಪರಮಸುಖದಿ ಭಜಿಸಿ ಬಾಳ್ವನವ ಕೃತಾರ್ಥನು || ೬೩
- ಅರುಣ ದಿವ್ಯರತ್ನಪೂರ್ಣ ಗಿರಿಕದಂಬದೊಳಗೆ ಸುರಭಿ  
ಭರಿತರತ್ನಕಾಂತಿ ಪೀಠದೊಳಗೆ ಲಿಂಗವಂ |
- ಪರಮನಿಷ್ಠನಾಗಿ ಗುರುರಹಸ್ಯವಾಗದೊಳು ವಿಶಿಷ್ಟ  
ವಂವಿಧಾನಸದದಿ ಭಜಿಸಿ ಬಾಳ್ವನವ ಕೃತಾರ್ಥನು || ೬೪
- ದಿಟ್ಟಿಗಱಿಯದಾವುದೊಂದು ಯಿಷ್ಟವದು ಸಮಕ್ಷವಹುದು  
ಸೃಷ್ಟಿಮುಧ್ಯಮಂ ಮನೋಮರೀಚಿಂಗಳ |
- ಕಷ್ಟವಾಜ್ರ ಯಾನುಭಾವಮಯ ಸುಷುಪ್ತಿರೂಪವೆಂದು  
ಮುಟ್ಟಿ ತಿಳಿದು ಪೂರ್ವವಿಡಿದು ನಡೆಯಲವ ಕೃತಾರ್ಥನು || ೬೫
- ಕೆಡದಿರೆಂದು ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ನುಡಿದ ಲಕ್ಷಣವನು ಮನದಿ  
ತುಡುಕಿ ಸಿಡಿದು ಜಡಿದು ಬೆನ್ನ ಬಿಡದೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂ |
- ಸಡಿಲಗೊಡದೆ ತೊಡರಿ ತನ್ನೊಳೊಡರಿದಂತೆ ಮಾಡಿ ಜಗದ  
ಗಡಿಯ ದಾಂಟಿ ನಿತ್ಯಸುಖದಿ ಬಾಳ್ವನವ ಕೃತಾರ್ಥನು || ೬೬
- ಸಾಮ ಭೇದದಾನದಂಡವೆಂಬು ಪಾಯದಿಂದ ತಿವನ  
ಸೀನೆಯೊಳಗೆ ಹೊಕ್ಕುಪಾಧಿಮುಕ್ತನಾಗುತ |
- ತಾಮಸಾಂಗದಿಂ ನಿವೃತ್ತನಾಗಿ ನಿತ್ಯನಾಗಿ ಪೂರ್ಣ  
ಸೋಮನೊಳಗೆ ಪರಮಸುಖದಿ ಬಾಳ್ವನವ ಕೃತಾರ್ಥನು || ೬೭
- ಎಂದಿನಂತೆ ತಿಥಿದಿನಂಗಳೆಂದಿನಂತೆ ಕೋಪತಾಪ  
ವೆಂದಿನಂತೆ ಕ್ಷುತ್ರಿಪಾಸೆ ಶೋಕನೋಹವು |
- ಎಂದಿನಂತೆ ರೀತಿಧಾತುನೆಂದು ಮನದ ದಂದುಗವನು  
ಹಿಂದುಗಳದು ಹರನ ನೆನವನಾವನವ ಕೃತಾರ್ಥನು || ೬೮

ವಿೂಲಬೇಡ ವಧವ ಮತವ ಹೇಲಬೇಡ ಗರ್ವಗಿರಿಯ

ನೇಲಬೇಡ ಕವಟವಚನದಿಂದ ಸರ್ವರು |

ದೂಲಬೇಡ ಬೇಡ ಕೆಡುವೆಯೆಂದು ನುಡಿದು ತಾನೆ ತನ್ನ

ಸಾಱುಕೊಂಡು ಸಮತೆಯಿಂದ ನಡೆಯಲವ ಕೃತಾರ್ಥನು ||

೬೯

ಹಱು ವಿವೇಕದಿಂದ ಶಿವನ ಮಱಿಯಬೇಡ ಕರ್ಮಕವಟ

ವಱುಯಬಾರದೂರ್ಧ್ವಗಿರಿಯದೃಶ್ಯವಾಗಿಯೆ |

ಬಱುಯ ಮನುಜನಾಗಿ ಮುಂದೆ ಕೊಱುವರುಂಟೆನುತ್ತ ಸಾಱು

ಜಱಿದು ನುಡಿದು ಕೆಡಿಸದಿಸರ್ವನವ ಕೃತಾರ್ಥನು ||

೭೦

ಹರ ನಮಃಶಿವಾಯ ನಿತ್ಯಸಿರಿನಮಃಶಿವಾಯ ಮುಕ್ತಿ

ವರ ನಮಃಶಿವಾಯ ನಿಖಿಲವಿಶ್ವಧರ್ಮದ |

ಗುರು ನಮಃಶಿವಾಯ ತತ್ಪವರ ನಮಃಶಿವಾಯ ಜನ್ಮ

ಹರ ನಮಃಶಿವಾಯಯೆಂದು ನೆನವನವ ಕೃತಾರ್ಥನು ||

೭೧

ಭ್ರಮಿಸಿ ಸಾಂದ್ರವಾದ ಮರುತವಾರಿಯಂ ಸಘೋಷದಿಂದ

ವಮನಗಳನದಿಂದ ಬಲಿದೆನೆಂದು ಕಳೆಗಳ |

ಶಮನಮಾಡಿ ಕಮಲಕಲ್ಪ ಜೆಡೆಕಳಾನ್ವಿತಿಷ್ಠಮಧ್ಯ

ರಮಣಿಯೊಳಗೆ ನಿಂದು ಭವವನಳಿದನವ ಕೃತಾರ್ಥನು ||

೭೨

ಅವುದೊಂದಿಹಪ್ರಮಾಣಮಾಗಿ ಫಲಿಸುತಿವ್ವುದದನು

ಸೇವಿಸುವುದೆ ಪಾರಮಾರ್ಥವಾದ ಕಾರಣ |

ಜೀವಲೋಕದೊಳಗೆ ಫಲಿಸದಿಸರ್ವ ಕವಟಕರ್ಮವಿಧಿಯ

ನಾವ ಪರಿಯಲಾದಡದನು ಬಿಡುವನವ ಕೃತಾರ್ಥನು ||

೭೩

ಅನುಚಿತಾಂಗಿಯಹವನೊಬ್ಬನವ ಶರಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ

ಜನುಗುವಂತೆ ಫಲವನಲ್ಲಿ ಕೊಡದ ಕರ್ಮವು |

ತನಗೆ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಗುಮ್ಮನೆಂದಡಂ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ

ಮನದೊಳಱಿದು ನಿತ್ಯವಿಧಿಯ ನುಳಿಯಲವ ಕೃತಾರ್ಥನು ||

೭೪

ತುಳುಕಿ ಕಪಿಜಲವಿದಿರ್ಚಿ ಬೆಳೆಯೆ ಕಾಷ್ಠ ವಲಯದಿಂದ

ಬಲಿದ ಸ್ಥಾನಕಿದರಾ ತೃಣಾಯಮಾನದಿಂ |

ತುಳುಕಿ ವಿಶ್ವಸಹಿತ ಕಿರಣಜಲಧಿಯಂತೆ ತೋರ್ವ ಸಂವಿ

ದುಳುವೆಯೆಂದು ತಿಳಿದು ಬದುಕಿ ಬಾಳ್ವನವ ಕೃತಾರ್ಥನು ||

೭೫

- ಬಳಲು ಬಾಧೆ ಶಂಕೆ ಚಿಂತೆ ಹಲವುಸದ್ರವಾಗಿ ಚಲನೆ  
 ಗಿಲನೆಗಳು ವಿಕಾರಿಸಿದುವುಲಿವಸಧದೊಳು ।
- ಬಲಿದು ತಾನು ಪಾರ್ಜುನೀಯ ತಿಳಿವಿನೊಳಗೆ ಹೊಕ್ಕು ತನ್ನ  
 ನುಳುಹಿಕೊಂಡೆಥಾರ್ಥದಿಂದ ಬಾಳ್ವನವ ಕೃತಾರ್ಥನು ॥ ೨೬
- ಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿ ಗುರುಮತಪ್ರಶಸ್ತನಾಗಿ ವಿಷಯಗಣದಿ  
 ತೃಪ್ತನಾಗಿ ಸಪ್ತ ತೀರಾನುಭೂತಿಯಿಂ ।
- ತೃಪ್ತನಾಗಿ ಹೃದಯಕಮಲಮುಕ್ತನಾಗಿ ನಿಂದ ಸಂವಿ  
 ರಕ್ತನಾಗಿ ಸರಮಸುಖದಿ ಬಾಳ್ವನವ ಕೃತಾರ್ಥನು ॥ ೨೭
- ಸೂರ್ಯಸೋಮನಯನಗಳು ವಿವಾಸ್ಥಿ ಜಿಹ್ವೆ ತಾನೆ ತಪ್ಪ  
 ಶುದ್ಧ ಭಾರತೀಕರೋತಿ ಶಿಷ್ಯಗಿರಿಯ ಸೇರುತ ।
- ಮೇರುಗುಲ್ಮ ತರುಲತಾತ್ಮಣಂಗಳಾತ್ಮನಭವನೆಂದು  
 ತಾರತಮ್ಯದಿಂದ ನೋಡಿ ಬಾಳ್ವನವ ಕೃತಾರ್ಥನು ॥ ೨೮
- ಗಗನಯಾನಕಿಂಕಿಣೀರವಾಘ ಹೆಚ್ಚಲದನು ಕವಿದು  
 ನೆಗೆವ ಮಂಗಳಾಂಗದ ಪ್ರಸಿದ್ಧರವವನು ।
- ತೆಗೆದು ಗೆಜ್ಜೆಯ ಧ್ವನಿಪ್ರಭಾವಮಾಗುತಿರಲು ಲಿಂಗ  
 ದಗಣಿತಪ್ರಭಾವದೊಳಗೆ ಬಾಳ್ವನವ ಕೃತಾರ್ಥನು ॥ ೨೯
- ಕಿರಣದಂತೆ ರತ್ನ ಕಲಸಿದಂತೆ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರದೀಪ್ತಿ  
 ವೆರಸಿದಂತೆ ಕನಕಗಿರಿ ಕದಂಬವೆಳಗನು ।
- ಕಲಸಿದಂತೆ ಮಿಂಚು ಲತಿಯ ನೆರಪಿದಂತೆ ಅಲ್ಲಿಗಲ್ಲಿ  
 ಗುರಿಯ ಶಿಖಿಯ ಕಂಭಗಳನು ಕಂಡನವ ಕೃತಾರ್ಥನು ॥ ೩೦
- ಶಿಲೆಯನಚಲಧೈರ್ಯದಿಂದ ವಿಳುಹಿ ಕುಡ್ಯದಿಂದ ಮುದವ  
 ಸೆಳದು ಬಿಡದೆ ಕಂಭದಿಂದ ದಾರುಸರ್ವವಂ ।
- ಕಳಚಿ ಸಿಂಧು ಲಿಂಗಜಲವ ಬಳಸಿದಂತೆ ಜಗದ ಸಂವಿ  
 ದುಳುಮೆಯದ್ದಿ ಭಿನ್ನವೆನಿಸಬಲ್ಲನವ ಕೃತಾರ್ಥನು ॥ ೩೧
- ಲಿಂಗದೊಳಗನಂತವಿಧದಿ ಸಾಂಗವಾಗಿ ತೋರ್ಪ ಲಕ್ಷ  
 ದಿಂಗಿತವೆ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನೆಗಳ್ಳು ಬಿಂಬಿಸೆ ।
- ಲಿಂಗಕನ್ಯವಹುದೆ ದರ್ವಣಪ್ರತತಿ ತಪ್ಪದೆಂದು  
 ಸಾಂಗವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಳಕೆಯಳಿದನವ ಕೃತಾರ್ಥನು ॥ ೩೨

ಆವುದೊಂದು ಮನಸಿನಿಂದನನ್ಯವವ್ವುದದನು ವಾಕು  
ತಾ ವಿಶೇಷದಿಂದ ನುಡಿವುತಿಹುದು ಮತ್ತದಂ |  
ಭಾವಿಸುವಡದಕೆ ಶರೀರ ಕರ್ಮವಾಗಿ ತೋರ್ಪುದೆಂದು  
ತಿವಿ ಲಕ್ಷದಿರವನಅದು ಬಾಳ್ವನವ ಕೃತಾರ್ಥನು || ೮೩

ಘಟಿಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಮನವು ದಿಟವನ್ನೈದಿ ನಿಲಲು ಮುಂದೆ  
ಘಟಿಸಬೋಸಮಾನದೇಹದಿಂದ ತನ್ನನು |  
ಸ್ಫುಟವೆನಲೈ ತಿಳಿವುತಿರಲು ಸುತಿಸಿ ಲಕ್ಷ ತನ್ನ ತಾನೆ  
ನಟಿಸಿ ಮುಂದೆ ತೋರ್ಪುದೆಂದು ತಿಳಿವನವ ಕೃತಾರ್ಥನು || ೮೪

ರೇತರೂಪವಹವು ತನುಮನೋನುರುದ್ವಿಕಾರಗಳನು  
ನೇತಿಗಳದಹಂವಿವಾದವನ್ಯವೆಂಬುದ |  
ರೀತಿರೂಪನಾಮವರ್ಣ ಮುದ್ರಿಸಹಿತ ಗುರುವನಿರದೆ  
ಪೋಲ್ತು ನಿರ್ವಿಕಾರದಿಂದಲೆಸವನವ ಕೃತಾರ್ಥನು || ೮೫

ಆರುಣವಸ್ತ್ರವೇಷದಿಂದ ಸುರಭಿವುಷ್ಟಮಾಲ್ಯದಿಂದ  
ಪರಮಶಾಂತಿಯಿಂದ ಕುಂಕುಮಾನುಲೇಪದಿಂದ |  
ಸ್ಫುರಿಸುತಿಹ ಷಡಕ್ಷರೀಸಮಗ್ರದಿಂದಲೆಸವಸ್ಥೂಲ  
ಗುರುಮತಪ್ರಮಾಣದೊಳಗೆ ಬಾಳ್ವನವ ಕೃತಾರ್ಥನು || ೮೬

ತನಗಶೇಷಲಾಕಿಕದಕಳಾವ್ರಪೂರ್ಣನಾಗಿ ಬಾಳ್ವ  
ಜನಕೆ ಗುರುಮತಾನುಗತರಹಸ್ಯಸಾರದ |  
ಅನುಭವಕೃನನ್ಯಸಂವಿದಮೃತಸಿಂಧುವೆನಿಸ ತನ್ನ  
ಘನವೆ ಹಿತವದಾಗಿ ಬಾಳ್ವ ಸುಖಿ ಕೃತಾರ್ಥನು || ೮೭

ಸಿಂಧುವೆಳಗನಮಮ ಧಾತುವೃಂದದೊಳಗೆ ದೃಢರಸೋಷ್ಟ  
ದಿಂದ ಜಲನಸುತಿರದಿಂದ ಸೂವಿರಾಜಿಯಿಂದ |  
ಸಂದಿ ಸಂದಿಯೊಳಗಸುರರ ನಂದವಿಟ್ಟು ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ  
ದಿಂದಮುಕ್ತಿಯೈಕೈಕೈದಿಂದ ತಿಳಿದನವ ಕೃತಾರ್ಥನು || ೮೮

ಆರನೇನ ಬೋಧಿಸುಹವುಪಾಸ್ತೆ ಗೇಹೆಕಾದಿಮನದ  
ಮಾರಿಗಂಜಿ ಬಂದು ಶರಣುವೊಗಲಿಕವರನು |  
ಸೇರಿಸುವುದು ಶಿವಸಥಕ್ಕದಲ್ಲದಿರಲು ಸುಮ್ಮನಿಹುದು  
ಪಾರಮಾರ್ಥವೆಂದು ತಿಳಿವನವ ಕೃತಾರ್ಥನು || ೮೯

- ಹರನ ಬೆನ್ನ ಬಿಡದೆ ಚಲಿಸುತಿರ್ಪುದು ಮಧ್ಯಮಾಂಗವಿರದೆ  
 ತನು ತನ್ನ ಬೆನ್ನ ಬಿಡದೆ ಚಲಿಸುತಿರ್ಪುದು ।  
 ಕರವಿಶೇಷವೆಂದನಂತ ಬಟಾಯ ಸಂಜ್ಞೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ಪ  
 ಪರಿಯ ಜಡಧಮತ್ಸವೆಂದು ತಿಳಿಯಲವ ಕೃತಾರ್ಥನು ॥ ೯೦
- ಕನಸಿನ ಪ್ರತಿಕಿರಣವನಂತರಂಗಭಾವನಕಟ  
 ಘನತರಂಗಬಿಂಬ ತೋಟುಕೆಯನೆ ನಾಟಿಸೆ ।  
 ತನುವ ಪಳಿದ ತನ್ನ ತನುವ ಕಳೆಯದಭವಪದವ ನೆನದು  
 ನೆನದು ಪೂರ್ಣಸುಖದೊಳಿಪ್ಪನಾವನವ ಕೃತಾರ್ಥನು ॥ ೯೧
- ಸಲ್ಲಲಿತವಾನುಭೂತಿ ಸುಖಮದೆಂದು ಗುರುಬಸವನ  
 ಸೊಲ್ಲು ಮಾತ್ರದಿಂದಲಿರ್ಪುದಿರದೆ ಸಂತತಂ ।  
 ಬಲ್ಲನಾವನವನೆ ಮುಕ್ತನಲ್ಲನೆನಿಸಿ ನಿಖಿಲಜಗದೊ  
 ಕೆಲ್ಲಿಯುಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧನೆಂದು ತಿಳಿಯಲವ ಕೃತಾರ್ಥನು ॥ ೯೨
- ನಿಗಮವಚನದಿಂದ ಗಗನ ದಗಲವಾಗಲೇಕೆಯಿರುಳು  
 ಹಗಲವಾಡಲೇಕೆ ತನುವ ಕಳದು ಲೋಕಕೆ ।  
 ಚಿಗಿಯಲೇಕೆ ಕಪಟದಿಂದ ನೆಗಳದಿರಲದೇ ಶಿವಂಗೆ  
 ಸೊಗಸನೀವುದೆಂದು ಮನದೊಳಿವನವ ಕೃತಾರ್ಥನು ॥ ೯೩
- ಅಲ್ಲಮಂಗನುಗ್ರಹವನು ಮಾಡಿದವನ ಗುರುವದಾವ  
 ಸೊಲ್ಲುಭಾವದೃಕ್ಕುರಾಂಘ್ರಿಸರುಷವಾವನ ।  
 ಬಲ್ಲಿನಿಲ್ಲುಖಂಡಬಸವ ನಲ್ಲದಿಲ್ಲವೆಂದು ಮನದಿ  
 ನಿಲ್ಲದಿವನನನ್ನನಾಗಿ ಬಾಳ್ವನವ ಕೃತಾರ್ಥನು ॥ ೯೪
- ಬೆಳಗು ವೃಷಭಮೂರ್ತಿಯೊಳಗೆ ಪೊಳವ ಲಿಂಗವಂ ಸಮಂತು  
 ಕಳದುಕೊಂಡನೋರ್ವನವನ ಹಸ್ತದಿಂದಲಿ ।  
 ಸೆಳದನೋರ್ವನೆನಿ ವೃಷೇಂದ್ರ ಮರ್ತ್ಯನೇ ಅದಲ್ಲ ಲಿಂಗ  
 ಶಿಲೆಯ ಕಪಟವಾರ್ತೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಲವ ಕೃತಾರ್ಥನು ॥ ೯೫
- ಆವ ಮತವಿದಾವ ಅಚ್ಚೆ ಯಾವುದೊಬ್ಬರೊಬ್ಬರಿಂದ  
 ತಾವು ಸೆಳದುಕೊಂಡು ಮುಖ್ಯರಹರೆ ಲಿಂಗಮಂ ।  
 ದೇವನೊಬ್ಬನೆಂಬ ವಿರಶೈವವರಭಾವಿಸುವುದಿ  
 ದಾವುದೆಂದು ತಿಳಿಯಬಲ್ಲನಾವನವ ಕೃತಾರ್ಥನು ॥ ೯೬

- ತಿಳಿಯಲಗ್ನಿಮಣಿಯೊಳರ್ಕ ವೆಳಗು ನಿಲಲಿಕುಷ್ಟದಿಂದ  
ಬಲಿದು ಕಿಡಿಗಳುದುರೆ ಸೂರ್ಯ ಶೂನ್ಯನವನೆ |  
ಜ್ವಲಿಸಿ ಲಿಂಗದಿಂದ ಲಿಂಗ ಹೊಳೆವ್ರತಿರಲು ಪೂರ್ಣಲಿಂಗ  
ವಳಿಯಿತೆಂದು ನುಡಿದ ನರನ ನಗುವನವ ಕೃತಾರ್ಥನು || ೯೭
- ವ್ಯಸನಗುಣಷಡೋರ್ಮೆ ಭ್ರಾಂತಿವಸರ ಕರ್ಮಕವಟಿವೆಸರ  
ಸಸಿನೆ ಕೇಳದಂತೆ ತನ್ನ ಕಿಂಕರಾಘಕೆ |  
ವೃಷಭ ತಾನೆ ತನ್ನ ಧರ್ಮವೆಸರನಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ಪೂರ್ಣ  
ವೃಷಭಗೀತೆಯಿಂ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೈವನವ ಕೃತಾರ್ಥನು || ೯೮
- ಹರಿ ವಿವೇಕದಿಂದ ತಮ್ಮ ಮೆಟದಹೆಮ್ಮಿನಿಂದ ನುಗ್ಗು  
ನುಱುಗಳಾಗಿ ಕೇಕಿಕಾಂಗದಿಂದ ಬಳಲುತ |  
ಬಟು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲಟಾಯದಂತೆ ಗೀತೆಯಂ ರಹಸ್ಯ  
ಮನದೊಳಟಾದನಾಗಿ ತಿಳಿದನನ್ಯನವ ಕೃತಾರ್ಥನು || ೯೯
- ಈ ರಹಸ್ಯವಮೃತರೂಪಿನಿಂದ ವರ್ತಿಸುವುದು ಭೂಮಿ  
ತಾರೆಸೋಮಸೂರ್ಯರುಗಳ ಕಾಲವೆಲ್ಲವು |  
ಸಾರ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಸಂತತಂ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಲೆಂದು  
ಪಾರಮಾರ್ಥವೆಂದು ತನ್ನೊಳಟುವನವ ಕೃತಾರ್ಥನು || ೧೦೦
- ಈ ರಹಸ್ಯ ಪಾವನಾತ್ಮಯೋಗವಾಗಲವನು ನಿರ್ವಿ  
ಕಾರನಹ ಚಿದಬ್ಧಿಯೊಳಗೆ ಮುಳುಗಿ ತೇಲುತ |  
ಪಾರಮಾರ್ಥಭೂತಿಯೊಳಗೆ ಸುಖದೊಳವ್ವನೆಂದು ನುಡಿದ  
ಚಾರುಚರಿತ ಗುರುಬವನಗೆ ಶರಣು ಸಂತತಂ || ೧೦೧

ವೃಷಭಗೀತೆ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ||

ಮಂಗಳ ಮಹಾಶ್ರೀ ||



# RUKMINI SVAYAMVARAM PATTU

Edited by  
**M. P. MUKUNDAN.**

This poem is based on a palm leaf manuscript preserved in the Government Oriental Manuscripts Library, Madras, under No. D. 124. It describes in a lucid style the story on the Svayamvaram of Rukmiṇī., (Rukmiṇī choosing Kṛṣṇa as her husband), an episode from the “Śrīmad-Bhāgavata.”

This small work is composed in four different metres. The poet introduces a parrot in the narrations of the story. Authorship of this work is not known. The language and style of expression are modern.



## രക്മിണീസ്വയംവരം പാട്ട്

“രക്മിണീ സ്വയംവരം പാട്ട്” എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന് ഗവണ്മെന്റ് ഓറിയന്റൽ ലൈബ്രറിയിൽ D. 124-ാം നമ്പരായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു താളിയോലഗ്രന്ഥമാണ്. ആലംബം. ശ്രീഭാഗവതത്തിലെ ഒരു കഥാഭാഗത്തെ വളരെ സംഗ്രഹിച്ചു ഇതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. നാലു വിഭിന്ന മട്ടുകളിൽ വിരചിതമായ ഈ ഗ്രന്ഥം ഒരു കൈകൊട്ടിക്കളിപ്പാട്ടിന്റെ ശൈലിയിലാണെന്നു പറയാം. രക്മിണീസ്വയംവരം എന്ന പേരിൽ അനേകം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പാട്ട്, കൈകൊട്ടിക്കളിപ്പാട്ട്, ഞട്ടക്കഥ, തുള്ളൽ എന്നീ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവയിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ് പ്രകൃതഗ്രന്ഥം.

കർതൃനാമാദികളെ ഉഴമിക്കാരുള്ള യാതൊരു സൂചനയും ഇതിൽ കാണുന്നില്ല. ഭാഷയും പ്രതിപാദനരീതിയും നവീനമാണ്. കവി ഏഴുത്തല്ലനെപ്പോലെ ഒരു കിളിയെ കൊണ്ടാണ് കഥാവസ്തു പാടിപ്പിക്കുന്നത്.



# രക്തമിണീസ്വപ്നം പാട്ട്

[ഒന്നാം വൃത്തം]

പഞ്ചവണ്ണ വൈകിളിയെ പഞ്ചസാരപാൽപഴവും  
 അഞ്ചാതെ(നീ)ഭജിച്ചു നന്നായി സഞ്ചരിച്ചു തളച്ചുതീർത്ത്  
 പങ്കജാക്ഷൻ ലീലചൈതക പങ്കമെല്ലാമകലുവാനായ്  
 എന്നതുകേട്ടുക്കിളിയും വന്ദിച്ചുവ(കൾ)തിന്നു ചൊന്നാൾ  
 വിണ്ണവർ(തൻ) പുരിയൊടൊത്ത കണ്ഡിന(മാം)പുരമതിൽപണ്ടു്  
 മനചനാം ഭീഷ്മകനു കന്യകയൊന്നുണ്ടായല്ലോ  
 പേരവർക്കു അഗ്നിതൻ നാരിമാരില്ല പള്ളൊടൊപ്പം  
 സർഗ്ഗശ്രീസുന്ദരിക്കു യൗവനവും വന്നകാലം  
 അഗ്നിതൻ സോദരനാം അഗ്നൻതാനമന്നൊരനാൾ  
 തന്നടയ താതൻമുമ്പിൽ ചെന്നുവന്ദിച്ചുവെ ചൊന്നാൻ.  
 മേടിനിയീലിന്നുപാത്താൽ ചേടിനാഥതനയനായ  
 ശൂരനായ[ം]ശിശു പാലന്നു നേരായിട്ടിന്നാരുമില്ല.  
 സോദരിയെക്കൊടു(ക്കുവേ)[ക്കേ]ന്നു ആദരവോടവനുതാത  
 മിത്രവസ്ത്രത്തൊടുക്കൂടി പുത്രനേവം ചൊന്നനേരം  
 അഷ്ടിനെ(യെ)ന്നുവെച്ചു മംഗളാത്മാ ഭീഷ്മകനും.  
 മന്ത്രി(തന്നെ)[യെ] വിളിച്ചുചൊന്നാനന്തികത്തിലവനിന്നാഥൻ  
 \*പെടുകൊടേക്കു വേണ്ടുംകൊപ്പു ശങ്കുവേണ്ടു കൂട്ടിക്കൊൾക.  
 മന്ദിരങ്ങളലംകരിക്കു മന്ദ്ര[െ]മന്യെ സുന്ദരമായി.  
 മന്നിലുള്ള മന്നവന്മാക്കൊന്നൊഴിയാതറിയിക്കേണം.  
 എന്നുകേട്ടു മന്ത്രിതാനമനുതൊട്ടിട്ടെല്ലാംചെയ്യാൻ  
 സന്ദേശപത്രങ്ങളെസ്സുപദിനുപന്മാക്കുയച്ചു  
 ദേശമെല്ലാമലങ്കരിച്ചാൻ ദേവാലയമതുകളേയും  
 ഭംഗിയതിനിരിപ്പിടമായി ഭവനമെല്ലാമക്കുലം

കല്യാണമണ്ഡലത്തെ കൈതുകമായുള്ളവാക്കി  
 പട്ടുകൾമേലാപ്പുകളും പരിചിൽ വിതാനംചെയ്തു.  
 കുരുത്തോല പൂക്കളകൾ കലവാഴ മലർമാലയും  
 പലവിധമായലംകരിച്ചാൻ പരവോൻപണിയവയെല്ലാം.  
 മന്നവനാക്കിരിപ്പതിന്നായി മഞ്ചങ്ങൾതീർത്തുപിന്നെ  
 എന്നല്ലാവേണ്ടതെല്ലാമെ(പെ) [പ്ലേ] അമാരകൂട്ടി  
 മന്നിടങ്ങൾ മുഴക്കിനല്ലമന്നവന്മാർ വരവാലെ  
 ആനകളും തേരകളോടശ്ചരങ്ങൾ പത്തികളും.  
 കടതഴകൾ കൊടിച്ചമരികൂടവെ നല്ലാലവട്ടം  
 തണ്ടുകൾ പല്ലക്കുകളും തത്രവന്നനിറഞ്ഞിതെല്ലാം.  
 വീണകളും കൊമ്പുകഴൽ വിശദശംഖകാമളങ്ങൾ  
 തകിൽ മുരട്ടു മറ്റുള്ളങ്ങൾ തപ്പു നല്ലചെരുംപറകൾ  
 ഇത്യാദിവാദ്യങ്ങളാൽ ഇഭവനം മുഴങ്ങിയെങ്ങും.  
 വന്നൊരു മന്നവരെ വാദ്യവിശേഷത്തോടെ  
 ചെന്നതിരേറവരോടും ചെന്നിരുന്നമന്ദിരത്തിൽ.  
 മന്നവനാം ഭീഷ്മകനും മഞ്ചങ്ങൾ തന്നിലാക്കി  
 ശിശുപാലൻ ഘോഷമോടെ ശീഘ്രവേണിക്കിരുന്നാൻ.

[രണ്ടാം വൃത്തം]

ഓഷ്ണനായുള്ള ശിശുപാലന  
 ചെട്ടെന്തെന്നെ കൊടുപ്പതിന്നായി  
 അമകനും സോദരന്താനുംകൂടി  
 നിശ്ചയിച്ചുള്ളോരു വാത്കേട്ട  
 പാരം വിഷാദിച്ചു ഭഗിണിയു-  
 മാരുമറിയാതൊരു ദിവസം  
 ആന്തരമേറവുമുള്ളനല്ലോ-  
 രന്തണന്തെന്നെ വിളിച്ചുചൊന്നാറും  
 എന്നെശ്ശിശുപാലനായ്കൊടുപ്പാൻ

തന്നെ ജനകനും നിശ്ചയിച്ചു  
 ഏന്നുടെ കാന്തൻ മുകുന്ദനെന്നു  
 മന്നെ വരിച്ചിങ്ങിരിപ്പു ഞാനും.  
 ആരണ നീചെന്നു ലോകയിൽ  
 പാരതെ കൃഷ്ണനെക്കണ്ടുചൊൽക.  
 വന്നു മുഹൂർത്തസമയത്തിങ്ക-  
 ലെന്നെയും കൊണ്ടുണ്ടു പോവതിന്നായി.  
 കന്യകാവക്യമിവണ്ണുകേട്ടു-  
 ലന്യനാം വിപ്രൻ നടന്നു വേഗാൽ  
 ലോകം പുകു തരണിവാക്യം  
 നാരായണനെക്കേൾപ്പിച്ചപ്പോൾ.  
 പാരം പ്രസാദിച്ചു കൃഷ്ണനാനു  
 മാരണന്തന്നോടരുളിച്ചെയ്താൻ.  
 ഒട്ടും വിഷാദിക്കവേണ്ടു ബാലാ  
 പെട്ടെന്നു ഞാൻചെന്നു കൊണ്ടുപോരാം.  
 ഏന്നുനീ ചെന്നു പരൈക മുഖിൽ  
 പിന്നാലെ ഞാനും വരുന്നതാനും.  
 ഇവണ്ണം കേട്ടു തിരിച്ചുവിപ്രൻ  
 കാർപ്പിണ്ണിതന്നോടു യാത്രചൊല്ലി  
 പാണിഗ്രഹണദിനവും വന്നു  
 കാണികൾ വന്നു നിറഞ്ഞിതെങ്ങും  
 രശ്മിണിതന്നെക്കളിപ്പിച്ചിട്ടു്  
 രശ്മിഭരണമണിഞ്ഞു നന്നായി.  
 അന്നേരം രശ്മിണി തന്നുള്ളത്തിൽ  
 വിന്നതാപുണ്ടു നിനച്ചാളേവം  
 പോയൊരു വിപ്രനെക്കണ്ടീലിന്നും  
 പായുവാനാരോഗ്യമില്ലയാഞ്ഞോ !  
 എന്തൊന്നു ചെയ്വതു ദൈവമെന്താൻ  
 ചിന്തിച്ചിടവണ്ണമവളുപിന്നെ  
 ആളിമാരോടുകൂടവലത്തിൽ  
 കാളിയെസ്സേവിപ്പാൻ ചെന്നുളെല്ലോ.

## [മൂന്നാം വൃത്തം]

കന്യകയും കാവ്യതന്നിൽ ചെന്നുനിന്നു കാളി-  
 സന്നിധിയിൽ നിന്നിവണ്ണം പ്രാർത്ഥിച്ചുളളെ.  
 ലോകനാഥമ ഭഗവതി നിഞ്ചരണം മമ  
 ശോകമെല്ലാമകരവാൻ കൈതൊഴുന്നേൻ  
 എൻ കണവൻ പങ്കജാക്ഷൻ നിൻകൃപയാ വനി-  
 ടെൻകരം പിടിച്ചീടേണമിന്നു ദേവി.  
 അംഗനശ്മിണിനെവരിച്ചുനിൽക്കും നേര-  
 മങ്ങുവിപ്രൻ വന്നവളെക്കണ്ടുചൊന്നാൻ.  
 നിന്നുടെ കണവനിതാ വന്നിടുന്നു കൃഷ്ണൻ.  
 ഖിന്നതമനസിവേണോ കന്നൽക്കണ്ണി !  
 ഏന്നുകേട്ടുകന്യകയും വന്നമോദാലവ-  
 ന്നുടെപദംവണങ്ങി കാളിയേയും  
 മോടിപൂണ്ടു ചേടിമാരും കൂടിച്ചേന്നു പിന്നെ-  
 ഘ്നേമാൻമിഴിമണിയാം അഗ്മിണിയും  
 മല്ലാരിയെ മാനസത്തിലാക്കിമദം മദം  
 കല്പ്യാണമണ്ഡപതന്നിൽ ചെന്നുനിന്നാൾ.  
 നാരീമണിതന്നെക്കണ്ടു മന്നവന്മാരെല്ലാം  
 മാരന്തന്നാലാതുരന്മാരായി പാരം.  
 അങ്ങിനെനിൽക്കുന്നേരം കൃഷ്ണന്താനും വേഗാ-  
 ലിങ്ങുവന്നു തേരിൽനിന്നിറങ്ങി പാരിൽ-  
 കല്പ്യാണമണ്ഡപതന്നിലേറിച്ചെന്നു കൃഷ്ണൻ  
 കന്യകാ കരഗ്രഹണം ചെയ്തുപിന്നെ.  
 സ്വന്ദനത്തിലേററിക്കൊണ്ടു സുന്ദരാംഗിതന്നെ  
 നന്ദപത്രൻ നടകൊണ്ടാൻ വേഗത്തോടെ  
 എന്നേരും മന്നവരും അഗ്രിയോടുംകൂടി  
 സന്നാഹത്തോടടുത്തിതു യുദ്ധം ചെയ്യാൻ.  
 മല്ലാരിയുമതുകണ്ടു അഗ്മിണിയെപ്പൂട്ടി-  
 തെല്ലുമേ ചേടിക്കൊല്ലാ നീയെന്നുചൊല്ലി  
 കൂർത്തുമുത്തശരങ്ങൾ ചൊഴിച്ചുനേരം പാര-  
 മാത്തിപൂണ്ടു മന്നവന്മാരോടിപ്പോയാൻ

അന്നേരത്തടുത്തുചെന്നു അഗ്നിതാനം കോപാൽ  
 നന്ദപുത്രൻ തന്നോടാശുജന്യം ചെയ്താൻ.  
 അഗ്നിയെത്തലമുടിവിടിച്ചു കൃഷ്ണൻ താനും  
 ഖഡ്ഗവുമെടുത്തുവധം ചെയ്യാനപ്പോൾ  
 അഗ്നിതൻ ഭാവത്തെ ഗ്രഹിച്ചുകൃഷ്ണൻ തടം  
 അഗ്നിതൻറ മീശകളരിഞ്ഞുവിട്ടാൻ.  
 നാരീമണി അഗ്നിതന്നോടും കൂടി കൃഷ്ണൻ  
 പാരകാപരിയിൽ പുകുപിന്നെ സ്വൈരം  
 കല്യാണവും ഘോഷിച്ചുകഴിച്ചു പിന്നെ സ്പുഖം  
 എല്ലാവരും സന്തോഷവും പൂണ്ടുവന്നാർ.

[നാലാം വൃത്തം]

തന്നേസരോജേഷണൻ ദേവകിതൻ  
 തന്വനതിമോഹനരൂപൻ കൃഷ്ണൻ  
 തരണി മറഞ്ഞീടുന്ന നേരത്തിങ്കൽ  
 തരണിമണി അഗ്നിയോടുംകൂടി  
 മണിയറയിലുൾപ്പുകു മഞ്ചന്തനിൽ  
 മഹി[ത്]സുഖമോടെ വസിക്കുന്നേരം.  
 നവദയിതസംഗമല ജ്ജകൊണ്ടു  
 നമിതമുഖിയായ്ക്കുണ്ടു അഗ്നിയെ  
 ചതുരതരനായോരു ശൗരീതാനം  
 ചടുവചനമോരോന്നിവണ്ണം ചൊന്നാൻ.  
 കമലജലോചന കണ്ടായോ നീ  
 കനകമയപഞ്ജരെ ചൈഖിളിയെ  
 മനേകരമമ്പിളി ബിംബംതന്നെ  
 മതിമുഖി കണ്ടാലും ഗവാക്ഷന്തുട  
 കുവലയപത്രേക്ഷണ കന്ദന്തി  
 കയിലുകൾ ക്രുകുന്നതും കണ്ടായോ നീ  
 കളഭവരഗാമിനി കേട്ടായോ നീ  
 കളമളികൾ മുല്ലന്ന നാഭന്തന്നെ

മധുരതരമോരോ നിവണ്ണം ചൊല്ലി  
മതികുതുകമുണ്ടാക്കി അക്മിണിക്കു്  
മധുമഥനൻ അക്മിണിയോടുകൂടി  
മനേവിലാസേന സുഖിച്ചുവാണാൻ.  
ഫരിഷരിതമിങ്ങിനെ ചൊല്ലിപ്പിന്നെ  
ഫരിവനിതാ കാജ്ജനി തിന്നിരുന്നാൾ.

ഇതി അക്മിണീ സ്വയംവരം.

---

॥ श्री ॥

## MAYURVARMA CARITRA

Edited By

Sri K. THULAJARAM KSHIRASAGAR

### ॥ मयुरवर्मा कैफियत ॥

Continued from Page 131—Vol. XIII-No. 1

भूपती राजा ईश्वर वरप्रासादि तपोव्रि काहिं अषुध नव्हें परंतु तु ब्राम्हण नाहिते भूमीचे राज्यभार करीतोस. ब्राम्हणा नाहिते भूमी अषुध. तैशा भूमीत असून प्रभुत्व करीतोस. याकरीतां अषुध म्हणावितोस. ऐसे म्हणाले. ते ऐकून व समजून अति व्यसने कडून स्वस्थलेस येऊन तजवीज करीत जाहालाजे. ब्राम्हणास खोडून आणून ह्या देशांत ठेवावे. ब्राम्हण कैसे येतील ऐसे व्यसने कडून होता. ऐसे असतां एके दिवसी काश्यपे रुषीश्वर ज्यंती पठणाप्रती येत जालें. तेंव्हा मयूरवर्माने रुषीश्वरास अर्घ्यपाद्य अचमनादि देऊन पूजा करून बैसऊन बोलत होता. ऐसे असतां दुपार जाहाली करीतां राजाने रुषीश्वरास फारच स्तोत्र करून भोजन करून पुढे जाऊये म्हणतवेळेस रुषिनी सांगितले जे येथं भोजन करीतानये म्हणाला. तेंव्हा काय म्हणून राजाने विचारीताना ब्राम्हण नाहिते भूमी अषुध आणि शास्त्रांत सांगितले आहें. जे वेदशास्त्र व अग्नीहोत्र पुण्य तीर्थ नाहीते स्थली एक निमिषभर तरी तेथे वास करीतानये म्हणाले. तेंव्हा मयूरवर्मवानी तजवीज केलीजे. देवलोकांतहि येणेप्रमाणेच सांगितले अषुध स्थली वास करीतानये. ते गोष्ट खरी जाली. रुषीश्वरास फार सोत करून विचारीत जाहालाजे. तुम्हीच दया करून सांगोवे - ब्राम्हण कोडून आणून ह्या देशांत ठेवावे. कैसी देश सुखी होईल ते मजला सांगावे म्हणाल्यास रुषीश्वर सांगते जाहाले जे. उत्तरेस अर्दक्षेत्र नामे पुण्य क्षेत्रांत अनेक ब्राम्हण अग्नीहोत्रि वेदेशास्त्रसंपन्ना आहेत. त्यास बोलाऊन आणून ह्या

देशांत ठेविलीयां हे देश शुधता होतील म्हणून सांगून रुषिधर आपले आश्रमास निघोन गेले. रुषिचे वचन ऐकून मयुरवर्मा आपल्या मंत्रीस बोलाऊन पाठऊन सांगितले जे, अंम्ही अर्दछत्तास जाऊन ब्राम्हणास बालाऊन आणितो तोवर पावेतो राज्याधिकार पाहात असणे म्हणून मंत्रिचे स्वाधीन करून आपण अर्दछत्तास जाऊन तेथील असणार ब्राम्हणास अवध्यास भेटि घेऊन त्यांची शुश्रुषा करून घेऊन बहुत दिवस पावेतो होता. ऐसे असतां एके दिवसी त्या ब्राम्हणाने राजास विचारीले जे. तु कोण किंनिमित्त्य सेवा करीतोस म्हणाले. त्यास राजाने सांगीनला जें आपल्या देशांत ब्राम्हण नांहित त्यामुळे अपवित्र देशजाहाला अस ऐसीयांस आपणा कडून ब्राम्हणास बालाऊन नेऊन त्या देशी ठेवावे म्हणून आले आहे म्हणाला. त्यास ब्राम्हणानी जवाब दिले जे त्या देशांत परशुरामानी ब्राम्हणास श्रेष्ठि केले आहेतकी ते ब्राम्हण न होताकी काय सांगणे म्हणता वेळेस राजाने जवाब दिदला जे. त्या ब्राम्हणास परशुरामाने शाप दिदला अब्राम्हण होऊन अनार्चाय करून घेऊन सूद्र प्रयाये होऊन असणे म्हणून शाप दिवहा. याकरीतां त्यास अब्राम्हणीकत्व प्राप्त जाहाले. त्याजमुळे तो देश अपवित्र जाहाला म्हणाले. ते ऐकून सुमेश्वरम्हणार माहातारा ब्राम्हण राजावरी फारच संतुष्ट होऊन आपल्या आर्दछोत्रांत होतते नाना गोत्रीक चर्दुवेदि ब्राम्हणास वेंचुन काहाडून त्या त्याचे संसारासहित ६४ चउसाष्टी घरवाले ब्राम्हणास मयुरवर्मा बरोबर देऊन पाठविले. ते प्रमाणे राजाने त्यां ब्राम्हणास अवधयांसहि आपलें देशांस बोकाऊन आणून परशुराम क्षेत्रां तील तीन भाग देश प्रत्येक नावाचे देशांत ठेविले. त्यांत तोळु देशांत ३२ ब्राम्हणास ठेविलें. तैसेच केरळ देशांत ३२ घरवाले ब्राम्हणासहि तैसेच ३२ घरवालेस कोलार देशांतहि ठेविले. त्यास आणून ठेविल्या मुळे त्यांचे स्वर्चास वेचास देऊन चाकरींत आपण जेयेंती पट्टणांत राज्यभार करीत होता. तेंव्हा तीनि देशाचे आणी प्रपंचांतील सकळ धर्महि चालऊन धेतहोता. मयुरवर्मा संतुष्ट अति उल्लासवंत होऊन धर्म करीत बहुत इष्टमित्रजन बहुजनासहित असणार

आपल्या प्रज्या कुलास श्रेष्ठवंत देव ब्राह्मण पुज्या भक्ति सुकी करुन असणार x x x x वीर धीरवंत आपले कुलाचे वैरी x x x सरीर सदापुरुषाचार अनुसरुन असणे प्रमाणे बहुत सुखी व धान दाता परंतु नित्य व्याधीत्स आणि रहस्ये कडून नगर शोधना करणार त्याला चपल चित्त चपल द्विष्टी त्याचें माज धरुन वरील शरीर फार उन्मत्त स्वयंबुहि सकळ सौभाग्य ऐश्वर्येवंत चतुरंग पार्येप त्याची स्वारी निघते वेळेस सोन्याची अंबारी हस्ति १०००० घोडे स्वार १०००० गाडिया वहिलीया ३७००० पायेदळ १०००० पालख्या १०००० व त्याचे सामान व त्यांचे पालखी बत्तीस ऐसे शोमित होतो. ते पालखीच्या 'दांड्यामांस च्यार दगेस एकला स्तुर्ण वर्णाचे गोंडे व नवरत्नाचे छत्रे स्वारी निघतवेळेस भाट मुर्तोनी समागमे रिवाज काय म्हणिजे नाना देशाचे स्तुत्या करणे. श्रीमंडलादिस्वर त्याने स्वारीनि ते वेळें दिवसाचा घटिका नंतर स्वारानी निघोन सूर्ये अस्तमान होऊन तीन घटिका नंतर घरास येऊन पावणे येणे प्रमाणें नित्या स्वारी निघणे. याजवीणा येकेक दिवस चित्तानुसार स्वारी निघणे आगाऊ वीणा गायन वाले मृदंग भेरी डप तुंतुना भूरी वाजंत्री झांगड वाण वगैरेनिसि अत्यंत संतोषे कडून स्वारीस निघणे. येणे प्रमाण नित्य भोग भोगित होता. व आपल्या राज्यां मधें देश तोळु राज्यांत च्यार सिंहासन तुळु देशांत बांदविला. त्याची नाव काशरगोड बरकुराळर कुटुंब. ऐसे च्यार संस्थाने मोकळर करुन आपण कासरगोड म्हणावयाचे संस्थानंत येऊन कित्तेक दिवस राहिला. ते संस्थान बांदिले त्याचे तपसिल 'सिल्लप शाखा प्रमाणे आपल्या राज्यां मध्ये प्रत्येक प्रत्येक गाव मोकरोर करुन त्यास नावहि टेऊन गांव खेडे देवलये ब्राह्मालये अग्निहोत्रे इत्यादिक बांदवली--परशुरामानी देवस्थाने वगैरे बांदवली आहे. त्याचे विना आपण आर्य क्षेत्राहून ब्राम्हणास बोलाऊन आणिले होतेकि त्यास दक्षणभागी केरळ देशांत तीस अग्रहार बांधुन उत्तर भागी तुळु देशांत बतिस अग्रहार बांधून अग्रहार येककांस आठ ब्राम्हणाची घर त्यास स्वस्थ वृत्ति भूमी सहित करुन देतेवेळे ब्राम्हणास एकेक घरवाल्यास व त्याचे भूमी स्वस्त वृत्तिसं अवघ्यांस प्रत्येक प्रत्येक नावेहि टेविली. ब्राम्हणानी येज्ञा यागा

करणेस द्रव्य पुरे नासे जाहालेतर जाऊन काहिं मार्गीतलायास आपले खज्यानांतून द्रव्य ब्राम्हणास जितके विचारतील किं तितुके देऊन चालविणें ह्या अवध्यांसहि विचारणा करणें चौसष्टी अग्रहारास चवथे जणास मोकरोर केले. उत्तरे कडील बतीस अग्रहारास विचारण करणार मोकरोर केले. त्याचे नाव पक्षनाथ दक्षणेकडिल अग्रहारास विचारणा करण्यास मोकरोर केले त्या दोघांची नावेहिं भुतना. येणेप्रमाणे चवथे जणांची नावे त्यास मोकरोर करुन काहि देशांत आदिक उणे चालों देइनासें केले. अपल्या देशांत अनेक विध फळफळादिक वृक्ष धाळून अनेक छत्रहिं बांधुन धर्म करीत राज्यांत आहेत. पूज्य स्वस्थि वृत्ती शोडशो उपचार पूजा चालवणेस मोकरोर करुन एकेक देवाल्यास विचारणे करणेस लोकास मोकरोर करुन ठेऊन देवाल्यास ब्राम्हालयास अनेक स्वस्ति वृत्ति सोडून प्रपंचातील सकळ धर्महिं चालवीत आणि आपल्या इष्ट मैइत्र बंधू जानास व सकल सामान दिला-लोकांस अवध्यांसहि इतके इतके म्हणून कटले मोकरोर करुन सकल नीती धर्म आचार व्यवहार आपण जेजे क्लिती केला आहे कीं ते अवघेहि एकेक प्रमाणे लिहुन त्या प्रमाणे चालऊ घेणे. त्याचे काम कैसे आहे म्हणीजे आपले काम सोडून परकीया काम अति सीग्र करु देणे आपले जेजे धर्म करीत आहेकी तैशाच रीतीने सर्वांनी चालावे याकारणे नित्य पुराण पुण्य कथा इत्यादीक नित्य श्रवण करणे धर्म करणे इत्यादीक आपणच निर्येकरुन आपले स्त्री व वैश्य स्त्री यांची लेकरास पाहातांच संतोष कढून त्या स्त्रीयांसी भोग अनेक भोगून घेत होता. सकल विध्याचे ठाई फार अभिलाशा कोणि विद्यांबत लोक आपल्या राज्यांत आल्यांस त्याची विद्या परीक्षा घेऊन त्यांस अनेक बहुमान वौरे देणे. कोणि नामांकित पावला ह्या राज्यावर काहि श्लोक केल आहेत त्याचे अर्थ काय ग्णालियां ख्यातिवत प्रवृत्तिमान श्रीमान बहुप्रिया स्वाध्याचार उत्तमोत्तम मयूरवर्मा जे मनी मानीतोकीं ते काम अवघे नीट करणारहिं गर्व नाहितो व स्त्रीचे भोगाचा ठाई फार असत्को वंतहि गाई गुरास फारच प्रिये आणि सर्व सुख अनुभोगणारहि येणे प्रमाणे नित्यानदभरीत होता. तोहि व काहिं एक येऊन संभवक्लियांस व काणे एकाने नापसंद काम केलि-

यास त्याचे संहार करणे आपल्या कुलवंतास प्रबुद्धन देईनासें करीतो. त्यास संहार करावेकीं त्यांस संवाहार करणे हा स्वकार्ये करणेचा ठाई फार विश्वास येकेकहिं अपवाद कोणे कडूनतरी आल्यांस ते नीठ दरियात्फ करून सोडणार येणे प्रमाणे मयूरवर्मा होता करीतां त्यो अति धर्मवंत व बुद्धिवंत व सत्यवंत परराष्ट्रांतून रहस्येकडून वर्तमान अणविणार युद्ध करण्यांचे ठाई फार पराक्रमी जैसाच युद्ध करण्यांचे ठाई फारच निपुणवंत त्यालागुन अति कीर्त्त होतीं.

(To be continued)



# RISALAH-E-FARAMIN-O-ARAIHDH

Edited by

SYED HAMZA HUSAIN OMARI, MUNSHI-E-FAZIL.

(Continued from page 138, Volume XIII, No. 1)

## عرضداشت

کترین فدویان جان نثار بر جاده عقیدت و فدویت قیام ورزیده و مراسم تسلیمات و آداب کورنشات به تقدیم رسانیده بموقف عرض استاده های پایه سریر سلیمانی می رساند - مدت دونیم سال و کثیر است که فدوی مطابق حکم قضاشیم در آمد - دره تلکوکن شده دران وقت از احشام ظفر نظام یک نفر بند و قچی متعین فوج همراهی پیر غلام نبود - نظر برکار سرکار جهان مدار و نظم و نسق این الکه دوهزار پیاده سه بندی زنگا هداشته تمامی قلعجات را بتصرف اولیای دولت قاهره در آمده تا حال بدون مصالح سرکار والا بمحافظت قلاع مفتوحه پرداخته و ضبط و ربط تنها نجات بواقعی ساخته در طلب پیادگان مرقومه و مواجب سواران که زیاده از ضابطه موجود دارد - آنچه در بساط داشت فروخته و هرچه قرض بهم رسید گرفته ماه بماه و اصل نموده - آن جماعه را بکار و خدمات سرگرم داشته - بنابر کثرت اخراجات وجه سواران و پیاده های سه بندی وقت محصول محال جاگیر درین دو سال بقلت ارزانی نرخ و عدم خریدار چهارم حصه تنخواه بوصول نرسیده مبلغ دولک و پنجاه هزار روپیه را قرضدار گشته آئنده بکدام قرض بهم نمی رسد - سه هزار روپیه که برقلعه ترمنک انعام حکم شده تا حال نیافته سپاه و پیاده های سه بندی بواسطه مواجب خود ها هر روز شور و غوغا و هنگامها برپای نمایند - طلب پیر غلام

معه منصبداران برادری قریب يك لك و پنجاه هزار روپہ در سرکار والا است۔ متصدیان عظام می خواهند درین النکہ خزانه تنخواہ دهند چون طلب مذکور بابت اضافہ بست کہ عوض سه بندی عطا گردیدہ۔ از نوازش و عنایات خسروانہ امیدوار است کہ جاگیر آن در برگشت سنگمبیر مرحمت شود۔ یا نقد بر خزانه عامرہ خجسته بنیاد عنایت گردد۔ و از بابت انعام قلعه مذکور از خزانه تحصیل کوکن نظام الملکی تنخواہ یابد۔ تا از عہدہ مواجب مردم سه بندی بر آید والا زیادہ برین طاقت بودن این النکہ کہ ادائے اخراجات نگاہداشت پیادہ ہائے سه بندی ندارد۔ تا این مدت حتی المقدور خدمت ما مورہ بہ تقدیم رسانید۔ از جان و مال دریغ نکرده الحال حراست این ضلع بعہدہ دیگرے از بندہ ہائے پادشاهی مقرر و مفوض گردد و فدوی بکار و خدمت والا گھاٹ شرف اختصاص یابد کہ لوازم جانفشانی بظہور رساند۔ قبلہ جہاں و جہانیاں سلامت مطالب معروضہ این خانہ زاد برطبق والا یرلیخ سیادتخان بعرض اقدس اشرف ارفع اعلیٰ می رساند، لیکن درین ایام بسبب کثرت اشتغال در عرض مطلب لازمی دیر می شود۔ بالضرور بعضیہ مقدمات را بہ محسن خان بنویسند و خان مومی الیہ بدون حکم مبرم جرات نمی کنند۔ امیدوار است کہ بخان مذکور نیز حکم والا عزنفاذ پیوندد تا ملتہمسات پیر غلام را معروض مقدس معلیٰ می گردانیدہ باشد، زیادہ برین حد خود ندید۔

#### عرضداشت

کترین فدویان جاں نثار ذرہ وار بذروہ عرض بندگان آستان،  
ملایک نشان، باعث امن و امان، خاقان زمان خدیو گیہاں، مرجع

قواقین هفت کشور خسرو داد گستر، عدل پرور، قبله عالم و عالمیاب  
می رساند - اوجی اودهلی را و متعینه فوج همراهی پیر غلام که به  
تهانه داری پته پنویل در پرگنه، ساز که عرف پتن که سرحد امر کنه. واقع  
است قیام دارد - بنده کار طلب سپاهی نقش است از بنده های  
پادشاهی هیچکس تهانه داری پرگنه مذکور قبول نمی کرد، فدوی او را  
مستمال عنایات خسروانه نموده در انجا فرستاده بود، چنانچه موی  
ایه دران مجال رسیده استقلال کمال آنها نه قایم ساخته و بخدمت  
ماهوره قرار واقعی پرداخته هر جا که مخاذیل ذلیل دران ضلع نمودار  
شده بگوشمال واجی رسانیده مدت دو سال است که پرگنه سوتگیر  
و غیره تعلقه جاگیرش بیست تقصیر تغیر گشته ازین جهت بغایت پریشان  
حال و قرضدار گردیده سال گذشته می خواست که آواره دشت غربت  
گردد - فدوی به جهت دلاسا نموده پنجمزار رویه از ساهو قرض  
دهانیده بخدمت مرجوعه سرگرم داشته از انجا که تا حال محال جاگیرش  
بحال نگریده و احوالش به فقر و فاقه انجامید - نابار کشاله قرض  
خواهان و عسرت خرچ لابندی نزد فدوی آمده شمشیر از کمر او کرده  
گذاشت که زیاده برین طاقت نمانده، اراده چنان دارد که بگوشه  
قناعت بسر برد - چون درین ایام اکثری مرهته نافر جام از رام  
شقاوت خلیه رو بفرار گذاشته و موی ایه بر سوخ عقیدت و فدویت  
در بندگی جناب خلافت سرگرم کار خدمات سرکاروالا ست اصلا و  
قطعا وجه دیگر بخاطر زیاورده بنا علیه جمعیت او را بارنگو برادر  
زاده اش که از مدت بامید بندگی درگاه خواقین پناه همراه او خدمت  
می کنند امیدوار منصب سی صدی ذات و یکصد سوار نموده در تهانه

مستور نگاهداشته مومی الیه را روانه حضور فیض گنجور گردانیده که بشرف عتبه بوسی جناب گردون قباب سعادت دارین حاصل کرده معامله جاگیر خود را خوب صورت داده ییاید - امیدوار است که از فضل و نوازش خاقان زماں محال جاگیرش بدستور سابق بحال گردد - و رنگو مذکور بموجب التماس پیر غلام بمنصب سرفراز شود و مومی الیه از پیشگاه خلافت و جهانبانی به کرامت رخصت سر بندی یافته - در وقت شورش و فساد نزد فدوی بسرعت برسد که بودن این قسم بنده کار طالب و ر است عقیده در فوج واسطه سر انجام سرکار جهان مدار است و در پرگنه سانه بدون مومی الیه دیگر هیچکس را از بنده های پادشاهی بارای استقامت نیست - اگر در آمدن او توقف رود ملاحظه دارد که مبادا بندو بست آن محال برهم شود - واجب بود بعرض رسانید -

(باقی آئنده)